

प्रकाशक—

रावजीमाई छगनमाई देसाई

ऑ० व्यवस्थापक,

परमपुत्रप्रभावकमंडल श्रीमदूराजचन्द्र जैनशास्त्रमाला
श्रीमदूराजचन्द्र आश्रम, स्टेशन अगास, पोस्ट धोरीआ.

व्याया आगंई (गुजरात)




मुद्रक—

पं० परमेश्वरीराम जैन

चिन्मय प्रेम

अभिलेख (गांधी) प० प०



निष्कृष्टी ध्याना द्वारा किए गए निष्कृष्टापूर्ण विचार भी मैंने किए हैं। अमरत्वकी सिद्धि और अग्निदेवकी सिद्धि पर मैंने खूब मनन किया है। अल्पवयमें ही मैंने महान् विचार कर दाले हैं, और महान् विचित्रताकी प्राप्ति हुई है। यहाँ तो अपनी समुच्चय वय-पर्याय निश्चिता हूँ।

जन्मसे मान वर्षकी वालवय नितान्त खेल कूदमें ही व्यतीत हुई थी। उस समय मेरी आत्मामें अनेक प्रकारकी विचित्र कल्पमाएं उत्पन्न हुआ करती थीं। खेल कूदमें भी तितली होने और राजराजेश्वर जैसी ऊँची पदवी प्राप्त करनेकी मेरी परम अभिलाषा रहा करती थी।

स्मृत इतनी अधिक प्रबल थी कि वैसे स्मृति इस कालमें, इस क्षेत्रमें बहुत ही थोड़े मात्रामें ही होगी। मैं पढ़नेमें प्रमादी था, बात बनानेमें होशियार खिलाही और बहुत बालमूर्खी लीव था। जिस समय शिक्षक पाठ पढ़ाता था उसी समय पढ़कर मैं उसका आदर्श बना दिया करता था; वस, इतनेसे मुझे लुट्टी मिल जाती थी। मुझमें प्रीति और आभंग्य बना था, मैं सबसे मित्रता चाहता था। सबमें भ्रातृभाव ही तो सुख है, यह विचार मैंने मनमें स्थायीरूप से रहता था। मनुष्योंमें किसी भी प्रकार कृपणता उत्पन्न होती ही मेरा पन्तःकरण रो पड़ता था। आठवें वर्षमें मैंने कविता लिखी थी, उसे पढ़ने से नास करने पर लन्दनशालके नियमानुकूल थी।

एक समय मैंने कई काम ग्रन्थ लिखे थे अनेक प्रकारके और भी बहुतसे ग्रन्थ देख कर मैंने ही अल्पकालीका अधिक विद्यासु था।

एक विचारक कृपणकी प्रतिक्रिया करने थे। उस वयमें मैंने उनके कृपणकीर्तन के लिए अनेक कृतियां लिखीं। उनमें से एक थी 'सर्वथा नमोः' मुझे थे, जिससे मुझे उन व्यक्तियोंमें कृपणता का अर्थ समझा हुआ था, और रामदासजी नामके साधुसे मैंने बार-बार उनका नाम भी खताई था। मैं निर्यर्थ कृपणों को ज्ञान करने जाता था, अनेक कृतियां लिखीं थीं, जिससे व्यक्तियोंके चमत्कारों पर बार-बार मुग्ध होजाया करता था, और उन्हें पढ़ने का साधना था। X X X गुजराती भाषाकी पाठशाळाकी कृपणकीर्तन की एक कृति लिखी थी, जिसमें अनेक कृपणोंके लक्षण हैं, यह मुझे हद ही गया था। इस कृति में मैंने कृपणोंके लक्षण बहुत लिखे हैं, कोई पदार्थ किता बनाए नहीं बन सकता, कृपणोंके लक्षण हैं, कोई कृपण भी बन नहीं। उस समय प्रतिभा-पूजनके अभिप्राय के लिए मैंने कई कृतियां लिखीं थी, इमर्शन के लिये कृपणोंकी प्रतिभाके लक्षणोंके लक्षण बहुत लिखे थे, आरीके लक्षणोंके लक्षण नहीं थी।

उनका करना बन्द कर दिया था। इससे सहजमें ही अनुमान किया जा सकता है कि वे कीर्ति आदिसे कितने निरपेक्ष थे। उनके जीवनमें पद पद पर सच्ची धार्मिकता प्रकट दिताई देती थी।

वे २१ वर्षकी उम्र में व्यापारार्थ ववाणिया से बम्बई आए। वहां सेठ रेवाशंकर जगजीवनदासकी दुकानमें भागीदार रहकर जवाहरातका धन्धा करते रहे। वे व्यापारमें अत्यन्त कुशल थे। ज्ञानयोग तथा कर्मयोगका इनमें यथार्थ समन्वय देखा जाता था। व्यापार करते हुए भी श्रीमद्जीका लक्ष्य आत्माकी ओर खिंच था। इनके ही कारण उस समय मोतियोंके बाजारमें श्रीयुत रेवाशंकर जगजीवनदास की पैदी नामी पैदियोंमें एक गिनी जाती थी। स्वयं श्रीमद्जीके भागीदार श्रीयुत मानिकलाल भेलाभाई को इनकी व्यवहारकुशलताके लिये अपूर्व बहुमान था। उन्होंने अपने एक बचपनमें कहा था कि "श्रीमद् राजचन्द्रके साथ लगभग १५ वर्ष तक परिचय रहा। और घममें सात आठ वर्ष तो मेरा उनके साथ अत्यन्त परिचय रहा था। लोगोंमें कति परिचयमें परस्परका महत्त्व कम हो जाता है, परन्तु मैं कहता हूँ कि उनकी सेवा में आत्ममग्न थी कि उनके प्रति मेरा भद्राभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। व्यापारमें अनेक प्रकारकी कठिनाइयाँ आती थीं, उनके सामने श्रीमद्जी एक अडोळ पर्वणके समान खिंचे रहते थे। मैंने उन्हें जड़ वस्तुओंकी चिन्तासे चिन्तातुर नहीं देखा। वे हमेशा शांत और मन्मोह रहते थे। किसी विषयमें मतभेद होने पर भी हृदयमें रोदनका नहीं था। सदैव पूर्वमा व्यवहार करते थे।"

श्रीमद्जी व्यापारमें जैसे निष्णात थे उसमें अत्यन्त अधिक आत्मतत्त्वमें निष्णात थे। उनके आन्तरिकामें भौतिक पदार्थोंकी मट्टता नहीं थी। वे मोचते थे कि भन पाथिव व्यवहारका साधन है, परन्तु अनुयायी तथा आत्माको जात्यन शान्ति प्रदान करनेवाला नहीं है। व्यापार करते हुए भी उनके आन्तरिकामें यैराग्य-गंगा का अखण्ड प्रवाह निरन्तर बढ़ता बढ़ता था। मनुष्य-मर्षके एक एक समयको वे अमूल्य समझते थे। व्यापारमें अथवा न किचने ही वे कौड़े अपूर्व आत्मविवेचनार्थकी जीत ही जाते थे। विपत्तियोंके हुए आचरण जैसे घर भी पूर्वोक्त पुत्र पंथा विहित था जिसमें उनकी वायव्य प्रतीति रहती रहती।

श्रीमद्जी जवाहरातका साथ साथ मोतियोंका भी व्यापार करते थे। व्यापारी काम जैसे वे व्यवहार विचारवत्तन समझे जाते थे। एक समय एक आर्य अपने भाईके मरण रहकर अपनी ही जीवितकी आर्यका व्यापार करतीं थी। छोटे भाईके मरणे आया

इस श्लोकके अनुसार श्रीचामुण्ड नामा राजा महा अमात्य (बड़े मंत्री व मुपादिव) हुए। एक दिन राजमल श्रीचामुण्ड सहित सभामें विराज रहे थे। उस समय किसी सेठने^१ आकर प्रणाम करके कहा कि, “महाराज ! उत्तरदिशामें एक पोदनापुर नगर है, वहाँपर श्रीभरतचक्रवर्ती द्वारा स्थापित कायोत्सर्ग श्रीवाहुवलीका प्रतिविम्ब है, जोकि वर्तमानमें ‘गोमट्ट’ इस नवीन नामसे श्रुति है।” इत्यादि। इस वृत्तान्तको सुनकर राजा व श्रीचामुण्ड मंत्री दोनों अश्रुत हर्षित हुए। श्रीचामुण्ड उक्त प्रतिविम्बको भावनमस्कार करके घर गये और सब वृत्तान्त अपनी माना कालिका को कह सुनाया। जिसको श्रवण कर वह बहुत आनंदित हुई और तत्काल अपने पुत्र चामुण्डसहित जिनमंदिरमें जाकर श्रीजिनेन्द्रकी स्तुति करनेके पश्चात् अपने गुरु(अजितसेन)के गुरु श्रीसिंहनन्दी आचार्यको नमस्कार किया। तदनन्तर—

पञ्चात्सोऽजितसेनपण्डितमुनिं देशीगणाप्रेसरं

स्वस्याधिप्यसुखाब्धिवर्द्धनशशीं श्रौनन्दिस्त्रहाधिपम् ।

श्रीमद्भासुरसिंहनन्दिमुनिपाङ्कथम्भोजरोलम्भकं

चानभ्य प्रवदत्सुधीदनपुरीश्रीदोर्वल्लेवृत्तकम् ॥ वा.व.च. २८ ॥

इस श्लोकके अनुसार श्रीचामुण्डने देवीयगणमें^३ प्रधान श्राअजितसेन मुनिको नमस्कार करके श्रीवाहुवलीके प्रतिविम्ब संबंधी समाचार कहे। और “मैं जबतक श्रीवाहुवलीके प्रतिविम्बका दर्शन न करूंगा तबतक दूध नहीं पीऊंगा” इस प्रकारकी प्रतिज्ञा उनके समक्ष धारण की। वहाँसे आकर राजाको अपनी यात्राका मनोरथ प्रकट किया, और—

“सिद्धान्ताम्भोधिचन्द्रः प्रणुतपरमदेशीगणा^३म्भोधिचन्द्रः

स्याद्वादाम्भोधिचन्द्रः प्रकटितनयनिक्षेपवाराशिचन्द्रः ।

एकश्चक्रौघचन्द्रः पदनुत्कमलव्रातचन्द्रः प्रशस्तो

जीयाञ्जानाब्धिचन्द्रो मुनिपकुलचियञ्चन्द्रमा नेमिचन्द्रः ॥ वा.व.च. ६२ ॥

सिद्धान्तामृतसागरं स्वमतिमन्थक्षमाभृदालोड्य यः

लेभेऽभीष्टफलप्रदानपि सदा देशीगणाप्रेसरः ।

श्रीमद्गोमटलब्धिसारविलसत्त्रैलोक्यसारामर-

क्ष्माजश्रीसुरधेनुचिन्तितमणीन् श्रौनेमिचन्द्रो मुनिः ॥ वा. व. च. ६३ ॥

इत्यादि गुणोंके धारक श्रीनेमिचन्द्रस्वामी सहित श्रीचामुण्डने अपनी माताको, अनेक पिताओंकी तथा चतुरंगसेनाको साथ लेकर गोमट्टस्वामीकी यात्राके निमित्त उत्तर दिशाको गमन किया। कितने ही योजन गमन करके विव्याचल पर्वतके समीप पहुंचे। वहाँ किसीसे पर्वतपर स्थित जिनमंदिरका

(१) सेठको पोदनपुरमें गोमट्टस्वामीका अस्तित्व कैसे मालूम हुआ ?’ इस शंकाका समाधान नहीं हुआ।

(२) गोमट्टसारकी एक गथासे विदित होता है कि श्रीअजितसेनके विद्यागुरु श्रीआर्य मुनि थे।

(३) पूर्वं जैनमतागमाब्धिबिधुवच्छ्रीनन्दिसंघे भवन्, सुज्ञानर्द्धितपोधनाः कुवलयानन्दा मयूखा इव। सत्सङ्घे भुवि देशदेशनिकरे श्रीसुप्रसिद्धे सति, श्रोदेशीयगणो द्वितीयविलसन्नान्ता मियः कथ्यते ॥ वा.व.च. ८७ ॥” इसके अनुसार जब नंदिसंघके आचार्य और मुनि संपूर्ण देशोंमें व्याप्त तथा प्रसिद्ध हो गये, तब नंदिसंघ “देशीयगण” इस नामसे कहा जाने लगा।

पता भाकर वहां गये और श्रीजिनेन्द्रकी पूजा स्तुति करके रात्रिको उसी जिनमन्दिरके मंडपमें निवास किया। रात्रिके चतुर्थ प्रहरमें श्रीनेमिचन्द्र, चामुण्ड और चामुण्डकी माता इन तीनोंसे कूर्माण्डीने स्वप्नमें कहा कि, "पोदनपुर जानेका मार्ग कठिन है। इस पर्वतमें रावणद्वारा स्थापित श्री बाहुवलीका प्रतिविम्ब है। वह धनुषमें सुवर्णके बाण चढ़ाकर उनसे पर्वतको भेदनेपर प्रकट होगा।" प्रातःकाल चामुण्डने मुनिको स्वप्नका वृत्तान्त निवेदन किया। जिसको सुनकर मुनिने स्वप्नके अनुकूल प्रवृत्ति करनेका उपदेश दिया। तदनुसार चामुण्ड ने स्नान करके भूषणोंसे भूषित होकर, मुनिके समक्ष उपवास धारण करके, दक्षिणदिशामें खड़े होकर धनुषद्वारा सुवर्णका बाण चलाया। जिससे पर्वतमें छिद्र होकर वहांपर—

“द्विपञ्चतालसमलक्षणपूर्णगात्रो, विशच्छरासनसमोन्नतभासमूर्त्तिः ।

सन्माधवीव्रतविनागलसत्सुकायः, सद्यः प्रसन्न इति बाहुवली वभूव ॥ वा.व.च. ४३ ॥

इस श्लोकके अनुसार दशतालसम, लक्षणोंसे पूर्ण शरीरका धारक और २० धनुष परिमाण ऊंचा श्रीबाहुवलीका प्रतिविम्ब प्रकट हुआ। राजाने बड़ी भक्तिके दर्शन किये और विधिपूर्वक १००८ कलशोंसे श्री बाहुवलीके मस्तकपर पंचामृताभिषेक किया। और पूजन तथा नमस्कार करके धन्य हुआ। फिर वहांसे दक्षिणमें आकर—

कल्पवृद्धे षट्शताख्ये विनुतविभवसंवत्सरे मासि चैत्रे

पञ्चम्यां शुक्लपक्षे दिनमणिदिवसे कुम्भलग्ने सुयोगे ।

सौभाग्ये मस्तनाम्नि प्रकटितभ्रगणे सुप्रशस्तां चकार

श्रीमद्यामुण्डराजो वेल्गुलनगरे गोमदेशप्रतिष्ठाम् ॥ वा.व.च. ५५ ॥

इसके अनुसार कल्की^३ (शक)के संवत् ६०० (वि. सं. ७३५) में श्रीचामुण्डने चैत्र शुक्ल पंचमी रविवारके दिन श्रवणवेल्गुल नगरमें श्रीगोमटस्वामीकी प्रतिष्ठा की, और

“भास्वदेशीगणाश्रेसरसुरुचिरसिद्धान्तविभ्रामिचन्द्र-

श्रीपादाश्रे सदा पण्णवतिदशशतद्रव्यभूषामवर्यान् ।

दत्त्वा श्रीगोमटेशोत्सवसवननिमित्तार्चनावैभवाय

श्रीमद्यामुण्डराजो निजपुरमथुरां संजगाम क्षितीशः ॥ वा.व.च. ६१ ॥”

इस श्लोकके अनुसार श्रीचामुण्डने श्रीनेमिचन्द्रस्वामीके चरणोंकी साक्षीपूर्वक छयानव हजार दीनार^४ (मोहर)के गांव श्री गोमटस्वामीके उत्सव, अभिषेक व पूजन आदिके निमित्त देकर वहांसे गमन करके

(१) 'कूर्माण्डी' यह एक जिनशासन देवी है जयांत २२ वें तीर्थकर श्रीनेमिनाथस्वामीकी यक्षिणी है और वाक्कुर्माण्डिका, चण्डी, अम्बिका, इत्यादि इसीके नामान्तर हैं।

(२) ताल (हस्त) यह प्रतिमाके निर्माणमें परिमाणविशेषताका नाम है। क्योंकि, अन्यमतियोंके सूर्य-सिद्धान्तमें “भवद्बीजाङ्कुरमधना अप्रमहाप्रातिहायैविभवसमेताः। ते देवा दशतालाः शेषा देवा भवन्ति नवतालाः ॥१॥” अर्थात् श्रीजिनेन्द्रकी प्रतिमा दश १० तालकी होती है और अन्य सब देवोंकी प्रतिमा नौ ९ तालकी होती है। ऐसा लिखा हुआ है।

(३) यहाँ कल्की व कालिके संवत्से शकके संवत्को ग्रहण करना चाहिये।

(४) दीनार यह ३२ रस्ती भर सुवर्णका सिक्का है। ऐसा कोषोंपरसे जान पड़ता है।

गाजे बाजे सहित अपनी मथुरापुरीमें प्रवेश किया। और अपने स्वामी राजमल्लसे सब वृत्तान्त कहा। जिसको श्रवण कर महाराजा राजमल्लदेवने भी श्रीनेमिचंद्रस्वामीके समीप ठेढ़ लात १५००००० दीनारोंके गांव श्रीगोमटस्वामीकी सेवा आदिके निमित्त प्रदान किये। और चामुण्डमंत्रीको धन्य धन्य कहकर जिनमतके प्रभावनाथ 'राय' पद दिया। उसी दिनसे चामुण्ड "श्रीचामुण्डराय" इस नामसे आज तक प्रसिद्ध हैं।

इस उक्त कथापरसे निस्सन्देह विदित होता है कि, श्रीनेमिचंद्रस्वामी नंदितंधस्थ देवीमगणके मुनीश्वर थे। शक सं० ६०० (वि० सं० ७३५) में द्राविडदेशस्थ मथुरा नगरी किंवा दक्षिणप्रान्तकी भूमिको अपने चरणकमलोंसे पवित्र करते थे। तत्कालीन महाराजा राजमल्लदेव तथा श्रीचामुण्डरायराजाके अतिशय माननीय थे। श्रीसिंहनन्दी और श्रीअजितसेन नामक दो आचार्य भी आपके समकालीन थे। गोमट्टसार लब्धिसार और त्रिलोकसार आदि परमादरणीय सिद्धान्तशास्त्रोंके निर्माता भी ये ही श्रीनेमिचंद्र थे। इत्यादि, इत्यादि।

परंतु आजकलके समयमें एक कथासे इतिहाससंबन्धी विषयपर सर्वसाधारणको विश्वास नहीं होता है; अतः इस उक्त विषयको सिद्ध करनेके लिये यथाप्राप्त अन्य प्रमाण दे देना भी हम उचित समझते हैं। वे प्रमाण ये हैं :-

१. गोमट्टसारशास्त्रके अन्तमें स्वयं श्रीनेमिचंद्राचार्यने निम्नलिखित गायार्थे दी हैं :-

"जह्नि गुणा विस्संता गणहरदेवादिद्विपत्ताणं ।

सो अजियसेणणाहो जस्स गुरु जयउ सो राओ ॥ १ ॥

सिद्धंतुदयतडुग्गयणिम्मलंचरणेमिचंदकरकलिया ।

गुणरथणभूसणम्बुहिमइवेला भरहु भुअणतल ॥ २ ॥

गोमट्टसंगहपुत्तं गोमट्टसिहरुवरिगोमट्टजिणो य ।

गोमट्टरायविणिम्मिय दक्खिणकुक्कुडजिणो जयउ ॥ ३ ॥

जेण विणिम्मिय पडिभावयणं सव्वट्टसिद्धिदेवेहिं ।

सव्वपरमोहिजोगिहिं दिट्ठं सो गोम्मटो जयउ ॥ ४ ॥" इत्यादि ।

गोमट्टसारकी संकृतटीकानुसार इन गायार्थोंका भावार्थ यह है कि—“गणघर तथा ऋद्धिघारी मुनियोंके गुणोंके धारक श्रीअजितसेन^२ जिसके व्रत गुरु हैं, वह चामुण्डरायराजा जयवंता रहो । १ । सिद्धान्तरूपी उदयाचलसे उदयको प्राप्त हुए ऐसे श्रीनेमिचंद्ररूपी चंद्रमाकी वचनरूप किरणोंसे स्पक्षित गुणरत्नभूषण (श्रीचामुण्डराय) समुद्रकी बुद्धिरूप वेला (तट व किनारा) भुवनतलको पूर्ण करे । २ । गोमट्टसार, चामुण्डरायके मंदिरमें विराजमान एक हाथ परिमाण जंची इन्द्रनीलमणि^३ (नीलम) की श्रीनेमिनाथजिनेन्द्रकी प्रतिमा और चामुण्डराय द्वारा बनवाया हुआ दक्षि-

(१) सुनते हैं कि नेमिचंद्रसंहिता अथवा नेमिचंद्रप्रतिष्ठापाठके कर्ता भी ये नेमिचंद्र हैं !

(२) श्रवणवेलगुलकी गुफाके दक्षिणपार्श्वमें शाके १०५० का खुदा हुआ जो शिलालेख है, उसमें श्रीअजितसेनके विषयमें “गुणाः कुन्दस्पन्दोद्भरसमरा वागमृतथाः, प्लवप्रायःप्रेथः प्रसररसा कीर्त्तिरिव सा । नखेन्दुज्योत्सनाडध्रेनृपचयचकोरप्रणयिनी, न कासां श्लाधानां पद्म-व्रतसेनो व्रतिपतिः ॥ १ ॥” इत्यादि पद्य लिखे हुए हैं ।

(३) इस एक हाथकी नीलमकी प्रतिमाका वर्तमानमें कहीं भी पता नहीं लगता है। अतः प्रतीत होता है कि, बुष्ट राजाओंके समयमें यह भी खंड खंड हो गई।

णकुक्कुड जिन^१ ये तीनों जयवते रहें । ३ । जिसकी बनाई हुई प्रतिमाके मुखको सर्वोपसिद्धिके देवोंने और परमावधिज्ञानके धारक मुनियोंने देखा, वह 'गोमट्ट' (चामुण्ड) राजा जयवता रहो । ४ ।"

२. गोमट्टसारकी कर्णाटकवृत्तिके अनुसार संस्कृतटीकाकारने टीकाके प्रारंभमें निम्नलिखित गद्य दिया है :—

श्रीमदप्रतिहतप्रभावस्याद्वादशासनगुहाभ्यन्तरनिवासिप्रवादिस्सिन्धुरसिंहायमान-सिंह-
नन्दिनन्दितागङ्गवंशललाम--राजसत्वंज्ञासनेकगुणनामधेयभागधेय--श्रीमद्राजमल्लदेवमहीव-
ल्लभमहामात्यपदविराजमान-रणरङ्गमल्ल-असहायपरक्रम-गुणरत्नभूषण-सम्यक्त्वरत्ननि-
लयादिविविधगुणनामसमासादितकीर्त्तिकान्त-श्रीमन्चासुण्डरायप्रश्नानुरूप गोमट्टसारनाम-
धेयपञ्चसंप्रहृशास्त्रं प्रारभमाणः श्रीमान्नेमिचन्द्रसैद्धान्तिकचक्रवर्ती समस्तसैद्धान्तिकजन-
प्रख्यातविशदयशा विशालमूर्त्तिसौ भगवान् गोमट्टसारप्रथमावयवभूतं जीवकाण्डं विर-
चयंस्तदादौ मलगालनादिफलजननसमर्थं मङ्गलं कृतवान् ।

इसका संक्षिप्त भाव यह है कि, स्याद्वादमतरूपी गुफामें सिंहके समान विराजमान और श्रीसिंह-
नन्दी आचार्यके प्रभावसे वृद्धिको प्राप्त ऐसा जो गंगवंशतिलक राजमल्लदेव महाराजा है, उसके
महामात्य श्रीचामुण्डरायके प्रदत्तके अनुसार गोमट्टसार बनाने के इच्छुक श्रीनेमिचन्द्रसैद्धान्तिकचक्र-
वर्तीने निर्विघ्न समाप्तिके अर्थ मंगल किया ।

३. थॉमस सी राईसने मलवारकाटर्ली रिड्यूमें जो "कर्णाटकमें जैनियोंका निवास" नामक
लेख छपाया है, उसमें लिखा है कि, "मैसूरके जैनराजोंमें अतिप्रसिद्ध विल्लालवंशके राजा थे । जो
कि, पहिले द्वारासमुद्रमें राज्य करते थे । पीछे शृङ्गापटामके वारह १२ मील उत्तरको तोनूरके
शासक हुए । इनका आविपत्य पूर्ण कर्णाटकमें था । अर्थात् जहाँ जहाँ कनाडी भाषा बोली जाती
थी, उन्हीं प्रदेशोंके ये शासनकर्ता (राजा) थे । इस विल्लाल वंशके स्थापक चामुण्डराय थे ।
जिनका कि राज्य सन् ७१४ ईस्वीमें था ।

४. मराठी^३ भाषाके तत्त्वप्रसारक नामक समाचारपत्रमें जो श्रवणवेलगोलाका इतिहास
नामक लेख छपा है, उसमें स्थलपुराणके आधारसे यह लिखा हुआ है—

दक्षिण^४ मयुराका राजा चामुण्डराय जैनी था । वह क्षत्रियकुलके प्रसिद्ध पांडुवंशमें उत्पन्न हुआ था ।
एक बार वह अपने परिवारसहित राज्यचिन्होंको धारण किये हुए पोदनापुरके गोमट्टेश्वरकी वंदनाके
लियें चला । और उस समय उसने मार्गमें मिलकेवाले १२५४ जिनदेवोंके दर्शन करने का भी
निष्पन्न किया । तदनुसार जब, वह अनेक क्षेत्रोंकी वंदना करके मार्गातिक्रम कर रहा था, उस

(१) 'दक्षिण कुक्कुड जिन' यह श्रवणवेलगुलमें विराजमान श्रीगोमट्टस्वामीकी विशाल प्रतिमाका ही
नामान्तर प्रतीत होता है ।

(२) गोमट्टस्वामीकी प्रतिमा बनवानेसे लोगोंने चामुण्डरायका 'गोमट्ट' यह नाम प्रसिद्ध कर दिया ।
ऐसा अनुमान होता है ।

(३) इस चतुर्थ प्रमाणसे पूर्वोक्त कथाके कई अंशोंमें विरोध आता है । परंतु इन दोनोंमें कौन सत्य
है, इसका निर्णय करनेके लिये अभी हमारे पास कोई साधन नहीं है ।

(४) शास्त्रोंमें आगरेके पास जो मयुरा है वह उत्तर मयुरा और द्राविड देशकी मयुरा दक्षिण मयुरा
के नामसे प्रसिद्ध है ।

शिष्टो जीवः । “विस्ससोडुगई” यद्यपि व्यवहारेण चतुर्गतिजनककर्मोदयवशेनोर्ध्वाधस्ति-
र्यगतिस्वभावस्तथापि निश्चयेन केवलज्ञानाद्यनन्तगुणावाप्तिर्लक्षणभोक्ष्यगमनकाले विस्ससा
स्वभावोनोर्ध्वगतिश्चेति । अत्र पदखण्डनारूपेण शब्दार्थः कथितः, शुद्धाशुद्धनयद्वयविभागेन
नयार्थोऽप्युक्तः । इदानीं मतार्थः कथ्यते । जीवसिद्धिश्चार्वाकं प्रति, ज्ञानदर्शनोपयोगल-
क्षणं नैयायिकं प्रति, अमूर्त्तजीवस्थापनं भट्टचार्वकद्वयं प्रति, कर्मकर्तृत्वस्थापनं सांख्य-
प्रति, स्वदेहप्रमितिस्थापनं नैयायिकमीमांसकसांख्यत्रयं प्रति, कर्मभोक्तृत्वव्याख्यानं बौद्ध-
प्रति, संसारस्थव्याख्यानं सदाशिवं प्रति, सिद्धत्वव्याख्यानं भट्टचार्वकद्वयं प्रति, ऊर्ध्वग-
तिस्वभावकथनं माण्डलिकग्रन्थकारं प्रति, इति मतार्थो ज्ञातव्यः । आगमार्थः पुनः
“अस्त्यात्मानादिवद्धः” नाभावःसिद्धिरिष्टा इत्यादि प्रसिद्ध एव । शुद्धनयाश्रितं जीवस्वरूपमुपादेयं,
शेषं च हेयम् । इति हेयोपादेयरूपेण भावार्थोऽप्यवबोधव्यः । एवं शब्दनयमतागमभावार्थो
यथासम्भवं व्याख्यानकाले सर्वत्र ज्ञातव्यः । इति जीवादिनवाधिकारसूचनसूत्रगाथा ॥ २ ॥

अतः परं द्वादशगाथाभिर्नवाधिकारान् विवृणोति, तत्रादौ जीवस्वरूपं कथयतिः—

“विस्ससोडुगई” स्वभावसे ऊर्ध्वगमन करनेवाला है । यद्यपि व्यवहारसे चारगतियोंको
उत्पन्न करनेवाले कर्मोंके उदयके वशसे ऊंचा, नीचा तथा तिरछा गमन करनेवाला है
तथापि निश्चयसे केवलज्ञान आदि अनन्त गुणोंकी प्राप्ति स्वरूप जो मोक्ष है उसमें जानेके
समय स्वभावसे ऊर्ध्वगमन करनेवाला है । यहां पर पदखंडना रूपसे (खंडानवयकी रीतिसे)
शब्दका अर्थ कहा और शुद्ध तथा अशुद्ध इन दोनों नयोंके विभागसे नयका अर्थ भी
कहा है । अब मतका अर्थ कहते हैं । चार्वाकके प्रति जीवकी सिद्धि की गई है, नैयायिकके
प्रति जीवका ज्ञान तथा दर्शन उपयोगमय लक्षण है यह कथन है, भट्ट तथा चार्वाकके
प्रति जीवका अमूर्त्त स्थापन है, सांख्या के प्रति आत्मा कर्मका कर्त्ता है ऐसा व्याख्यान है,
आत्मा अपने शरीर प्रमाण है यह स्थापन नैयायिक, मीमांसक और सांख्य इन तीनोंके
प्रति है, आत्मा कर्मोंका भोक्ता है यह कथन बौद्धके प्रति है, आत्मा संसारस्थ है ऐसा
व्याख्यान सदाशिवके प्रति है, आत्मा सिद्ध है यह कथन भट्ट और चार्वाकके प्रति है,
जीवका ऊर्ध्वगमन करना स्वभाव है यह कथन इन सब मतोंके ग्रंथकारोंके प्रति है । ऐसा
मतका अर्थ जानना चाहिये । और अनादिकांठसे कर्मोंसे बंधा हुआ आत्मा है इत्यादि
आगमका अर्थ तो प्रसिद्ध ही है । शुद्धनयके आश्रित जो जीवका स्वरूप है वह तो उपा-
देय (ग्रहण करने योग्य) है और वाकी सब हेय है । इस प्रकार हेयोपादेयरूपसे भावार्थ
भी समझना चाहिये । ऐसे शब्द नय मत आगमार्थ भावार्थ यथासंभव व्याख्यानके
समयमें सब जगह जानना चाहिये । इस प्रकार जीव आदि नव अधिकारोंको सूचना कर-
नेवाली गाथा समाप्त हुई ॥ २ ॥

अब इसके आगे द्वादश (१२) गाथाओंसे नव अधिकारोंका विवरण करते हैं, उनमें
प्रथम ही जीव का स्वरूप कहते हैंः—

तिक्काले चटुपाणा इंदियवलमाउआणपाणो य ।

ववहारा सो जीवो णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्स ॥३॥

व्याख्या—“तिक्काले चटुपाणा” कालत्रये चत्वारः प्राणा भवन्ति । ते के “इंदियवल-
साउआणपाणो य” अतीन्द्रियशुद्धचैतन्यप्राणात्प्रतिशत्रुपक्षभूतः क्षायोपशमिक इन्द्रियप्राणः,
अनन्तवीर्यलक्षणवलप्राणादनन्तैकभागप्रमिता मनोवचनकायवलप्राणाः, अनाद्यनन्तशुद्धचै-
तन्यप्राणविपरीततद्विलक्षणः सादिः सान्तश्चायुः प्राणः, उच्छ्वासपरावर्त्तोत्पन्नखेदरहितवि-
शुद्धचित्प्राणाद्विपरीतसदृश आनपानप्राणः । “ववहारा सो जीवो” इत्थंभूतैश्चतुर्भिर्द्रव्य-
भावप्राणैर्यथासंभवं जीवति जीविष्यति जीवितपूर्वो वा यो व्यवहारनयात्स जीवः द्रव्ये-
न्द्रियादिर्द्रव्यप्राणा अनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण, भावेन्द्रियादिः क्षायोपशमिकभावप्राणाः
पुनरशुद्धनिश्चयेन । सत्ताचैतन्यबोधोधादिः शुद्धभावप्राणाः निश्चयनयेनेति “णिच्छयणयदो दु
चेदणा जस्स” शुद्धनिश्चयनयतः सकाशादुपादेयभूता शुद्धचेतना यस्य स जीवः, एवं
“वच्छरक्खमवसारिच्छ, सग्गणिरयपियराय । चुल्लयहंडिय पुण मडठ, णव दिट्ठता जाय
॥ १ ॥” इति दोहककथितनवचष्टान्तैश्चार्वाकमतानुसारिशिष्यसंबोधनार्थं जीवसिद्धि-
व्याख्यानेन गाथा गता ॥ ३ ॥

गाथाभावार्थः—तीनकालमें इन्द्रिय, बल, आयु, और आनपान इन चारों प्राणोंको
जो धारण करता है वह व्यवहारनयसे जीव है और निश्चयनयसे जिसके चेतना है वही
जीव है ॥ ३ ॥

व्याख्यार्थः—“तिक्काले चटुपाणा” तीनकालमें जीवके चार प्राण होते हैं । वे
कौनसे “इंदियवलमाउआणपाणो य” इन्द्रियोंके अगोचर जो शुद्ध चैतन्य प्राण है उसके
प्रति शत्रुपक्षभूत क्षायोपशमिक (क्षयोपशमसे उत्पन्न) इन्द्रिय प्राण है, अनन्त वीर्यरूप
जो बलप्राण है उसके अनन्त भागोंमेंसे एक भागके प्रमाण मनोबल, वचनबल और काय-
बलरूप प्राण हैं, अनादि, अनन्त तथा शुद्ध जो चैतन्य (ज्ञान) प्राण है उससे विपरीत
(चलटा) एवं विलक्षण सादि (आदिसहित) और अन्तसहित आयु प्राण है, आसो-
च्छ्वासके आवागमनसे उत्पन्न खेदसे रहित जो शुद्ध चित् प्राण है उससे विपरीत आन-
प्राण अर्थात् आसोच्छ्वास प्राण है । “ववहारा सो जीवो” इस पूर्वोक्तप्रकार रूप चार
द्रव्यप्राणों और भावप्राणोंसे जो जीता है, जीवेगा वा पहले जिया है वह व्यवहारनयसे जीव
है । अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनयसे द्रव्येन्द्रिय आदि द्रव्य प्राण हैं, और भावेन्द्रिय
आदि क्षायोपशमिक भावप्राण अशुद्ध निश्चयनयसे हैं, तथा सत्ता, चैतन्य बोध आदि
शुद्धभाव प्राण जो हैं वे निश्चयनयसे हैं । “णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्स” शुद्ध-
निश्चयनयके सबसे उपादेयभूत (ग्रहण करने योग्य) शुद्धचेतना जिसके हो वह जीव
माना गया है । इस प्रकार “वच्छरक्खमवसारिच्छ सग्गणिरय पियराय । चुल्लय हंडि-

१. इन बोहों का प्रारंभ हममें नहीं जाया (बगुवादक)

अथ गाथात्रयपर्यन्तं ज्ञानदर्शनोपयोगद्वयं कथ्यते । तत्र प्रथमगाथार्या मुख्यवृत्त्या दर्शनोपयोगव्याख्यानं करोति । यत्र मुख्यत्वमिति वदति तत्र यथासंभवमन्यदपि विवक्षितं लभ्यते इति ज्ञातव्यम् :—

उवओगो दुवियप्पो दंसणणाणं च दंसणं चदुधा ।

चक्खु अचक्खु ओही दंसणमध केवलं णेयं ॥ ४ ॥

व्याख्या—“उवओगो दुवियप्पो” उपयोगो द्विविकल्पः “दंसणणाणं च” निर्विकल्पकं दर्शनं सविकल्पकं ज्ञानं, च पुनः “दंसणं चदुधा” दर्शनं चतुर्धा भवति “चक्खु अचक्खु ओही दंसणमध केवलं णेयं” चक्षुर्दर्शनमचक्षुर्दर्शनमवधिदर्शनमथ अथो केवलदर्शनमिति विज्ञेयम् । तथाहि—आत्मा हि जगत्त्रयकालत्रयवृत्तिसमस्तवस्तुसामान्यग्राहकसकलविमलकेवलदर्शनस्वभावस्तावत् पञ्चादनादिकर्मबन्धाधीनः सन् चक्षुर्दर्शनावरणक्षयोपशमाद्बहिरङ्गद्रव्येन्द्रियालम्बनाच्च मूर्त्तसत्तासामान्यं निर्विकल्पं संव्यवहारेण प्रत्यक्षमपि निश्चयेन परोक्षरूपेणैकदेशेन यत्पश्यति तच्चक्षुर्दर्शनम् । तथैव स्पर्शनरसनघ्राणश्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमत्वात्त्वकीयस्वकीयबहिरङ्गद्रव्येन्द्रियालम्बनाच्च मूर्त्तं सत्तासामान्यं विकल्परहितं परोक्ष-

य पुण मडड णव दिट्ठंता जाय १ ” इस दोहेमें कहे हुए नव दृष्टान्तोंद्वारा चार्वाकमतानुयायी शिष्योंको समझानेके लिये जीवकी सिद्धिके व्याख्यानसे यह गाथा समाप्त हुई ॥ ३ ॥

अब तीन गाथा पर्यन्त ज्ञान तथा दर्शनरूप दो उपयोगोंका वर्णन करते हैं । उनमें भी प्रथम गाथामें मुख्यतासे दर्शनोपयोगका व्याख्यान करते हैं । जहाँपर यह कथन हो कि अमुक विषयका मुख्यता (प्रधानता) से वर्णन करते हैं, वहाँपर गौणतासे अन्य विषयका भी यथासंभव कथन मिलेगा, यह जानना चाहिये;—

गाथार्थः—दर्शन और ज्ञान इन भेदोंसे उपयोग दो प्रकारका है । उनमें चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन इन भेदोंसे दर्शनोपयोग चार प्रकारका जानना चाहिये ॥ ४ ॥

व्याख्यार्थः—दर्शन और ज्ञान इन भेदोंसे उपयोग दो प्रकारका है । उनमें दर्शन तो निर्विकल्पक है और ज्ञान सविकल्पक है । और दर्शनोपयोग चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन, अवधिदर्शन तथा केवलदर्शन इन भेदोंसे चार प्रकारका होता है, यह जानना चाहिये । इसका विशेष वर्णन इस प्रकार है कि प्रथम तो आत्मा तीनलोक और भूत, भविष्य तथा वर्त्तमानरूप तीनों कालोंमें रहनेवाले संपूर्ण द्रव्यसामान्यको ग्रहण करनेवाला जो पूर्ण निर्मल केवलदर्शन स्वभाव है उसका धारक है, पञ्चात् (फिर) अनादि कर्मबन्धके आधीन होके चक्षुर्दर्शनावरणके क्षयोपशमसे अर्थात् नेत्रद्वारा जो दर्शन होता है उस दर्शनको रोकनेवाले कर्मके क्षयोपशमसे तथा बहिरंग द्रव्येन्द्रियके आलम्बनसे मूर्त्त सत्तासामान्यको जो कि संव्यवहारसे प्रत्यक्ष है तो भी निश्चयसे परोक्षरूप है उसको एक देशसे विकल्परहित

रूपेणैकदेशेन यत्पश्यति तदचक्षुर्दर्शनम् । तथैव च मनइन्द्रियावरणक्षयोपशमात्सहकारि-
कारणभूताष्टदलपद्माकारद्रव्यमनोऽवलम्बनाच्च मूर्त्तामूर्त्तसमस्तवस्तुगतसत्तासामान्यं वि-
कल्परहितं परोक्षरूपेण यत्पश्यति तन्मानसमचक्षुर्दर्शनम् । स एवात्मा यदवधिदर्शनाव-
रणक्षयोपशमान्मूर्त्तवस्तुगतसत्तासामान्यं निर्विकल्परूपेणैकदेशप्रत्यक्षेण यत्पश्यति तदव-
धिदर्शनम् । यत्पुनः सहजशुद्धसदानन्दैकरूपपरमात्मतत्त्वसंविन्तिप्राप्तिवलेन केवलदर्शना-
वरणक्षये सति मूर्त्तामूर्त्तसमस्तवस्तुगतसत्तासामान्यं विकल्परहितं सकलप्रत्यक्षरूपेणैकस-
मये पश्यति तदुपादेयभूतं क्षायिकं केवलदर्शनं ज्ञातव्यमिति ॥४॥

अथाष्टविकल्पं ज्ञानोपयोगं प्रतिपादयतिः—

णाणं अट्टवियप्पं मदिसुदिओही अणाणणाणाणि ।

मणपज्जवकेवलमवि पच्चक्खपरोक्खभेयं च ॥ ५ ॥

व्याख्या—“णाणं अट्टवियप्पं” ज्ञानमष्टविकल्पं भवति । “मदिसुदिओहीअणाणणा-
णाणि” अत्राष्टविकल्पमध्ये मतिश्रुतावधयो मिथ्यात्वोदयवशाद्विपरीताभिनिवेशरूपाण्यज्ञा-

जैसे हो तैसे जो देखता है वह चक्षुर्दर्शन है; वैसेही स्पर्शन, रसन, घ्राण तथा श्रोत्रेन्द्रि-
यके आवरणके क्षयोपशमसे और निज निज बहिरंग द्रव्येन्द्रियके आलम्बनसे मूर्त्त सत्तासा-
मान्यको परोक्षरूप एकदेशसे जो विकल्परहित देखता है वह अचक्षुर्दर्शन है और इसी-
प्रकार मन इन्द्रियके आवरणके क्षयोपशमसे तथा सहकारी कारणभूत जो आठ पांखड़ीके
कमलके आकार द्रव्य मन है उसके अवलम्बनसे मूर्त्त तथा अमूर्त्त ऐसे समस्त द्रव्योंमें
विद्यमान सत्तासामान्यको परोक्षरूपसे विकल्परहित जो देखता है वह मानस अचक्षुर्दर्शन
है और वही आत्मा जो अवधिदर्शनावरणके क्षयोपशमसे मूर्त्तवस्तुमें प्राप्त सत्तासामान्यको
एकदेशप्रत्यक्षसे विकल्परहित देखता है वह अवधिदर्शन है और जो सहज शुद्ध चिदा-
नन्द रूप एक स्वरूपका धारक परमात्मा है उसके तत्त्वज्ञानके बलसे केवल दर्शनावरणके
क्षय होनेपर मूर्त्त अमूर्त्त समस्त वस्तुमें प्राप्त सत्तासामान्यको सकल प्रत्यक्षरूपसे एकसम-
यमें विकल्परहित जो देखता है उसको दर्शनावरणकर्मके क्षयसे उत्पन्न और ग्रहण करने
योग्य केवलदर्शन जानना चाहिये ॥४॥

अथ आठ विकल्प (भेद) सहित जो ज्ञानोपयोग है, उसका कथन करते हैंः—

गाथाभावार्थः—कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और
केवल ऐसे आठ प्रकारका ज्ञान है। इनमें कुअवधि, अवधि, मनःपर्यय तथा केवल ये
चार प्रत्यक्ष हैं और शेष चार परोक्ष हैं ॥५॥

व्याख्यार्थः—“णाणं अट्टवियप्पं” ज्ञान आठ प्रकारका है। “मदिसुदिओही
अणाणणाणाणि” उन आठ प्रकारके भेदोंके मध्यमें मति, श्रुत तथा अवधि ये तीन मिथ्या-
त्वके उदयके वशसे विपरीत अभिनिवेशरूप अज्ञान होते हैं (इसीसे कुमति, कुश्रुत तथा

नानि भवन्ति, तान्येव शुद्धात्मादितत्त्वविषये विपरीताभिनिवेशरहितत्वेन सम्यग्दृष्टिजीवस्य सम्यग्ज्ञानानि भवन्ति । “मणपञ्जवकेवलमवि” मनःपर्ययज्ञानं केवलज्ञानमप्येवमष्टविधं ज्ञानं भवति, “पञ्चकखपरोक्खभेयं च” प्रत्यक्षपरोक्षभेदं च अवधिमनःपर्ययद्वयमेकदेशप्रत्यक्षं, विभङ्गावधिरपि देशप्रत्यक्षं, केवलज्ञानं सकलप्रत्यक्षं शेषचतुष्टयं परोक्षमिति । इतो विस्तरः—आत्मा हि निश्चयनयेन सकलविमलाखण्डैकप्रत्यक्षप्रतिभासमयकेवलज्ञानरूपस्तावत् । स च व्यवहारेणानादिकर्मबन्धप्रच्छादितः सन्मतिज्ञानावरणीयक्षयोपशमाद्वीर्यान्तरायक्षयोपशमाच्च वहिरङ्गपञ्चेन्द्रियमनोऽवलम्बनाच्च मूर्त्तामूर्त्त वस्त्वेकदेशेन विकल्पाकारेण परोक्षरूपेण सांन्यवहारिकप्रत्यक्षरूपेण वा यज्जानाति तत्क्षायोपशमिकं मतिज्ञानम् । किञ्च लब्धस्थानां वीर्यान्तरायक्षयोपशमः केवलानां तु निरवशेषक्षये ज्ञानं चारित्राद्युत्पत्तौ सहकारी सर्वत्र ज्ञातव्यः । संन्यवहारलक्षणं कथ्यते—समीचीनो व्यवहारः संन्यवहारः । प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणः संन्यवहारो भण्यते । संन्यवहारे भवं सांन्यवहारिकं प्रत्यक्षम् । यथा घटरूपमिदं मया दृष्टमित्यादि । तथैव श्रुतज्ञानावरणक्षयोपशमाज्ञोइन्द्रियावलम्बनाच्च प्रकाशोपाध्यायादिवहिरङ्गसहकारिकारणाच्च मूर्त्तामूर्त्तवस्तुलोकालोकन्यासि-

कुञ्जवधि [विभंगावधि]) ये इनके नाम हैं तथा वे ही मति, श्रुत तथा अवधि ज्ञान शुद्ध आत्मा आदि तत्त्वके विषयमें विपरीत अभिनिवेशके अभावके कारण सम्यग्दृष्टि जीवके सम्यग्ज्ञान हो जाते हैं (इस रीतिसे मति आदि तीन अज्ञान और तीन ज्ञान उभयस्वरूप होनेसे ज्ञानके ६ भेद हुए) तथा “मणपञ्जवकेवलमवि” मनःपर्यय और केवलज्ञान ये दोनों मिलके ज्ञानके आठ भेद हुए । “पञ्चकखपरोक्खभेयं च” इन आठोंमें अवधि और मनःपर्यय ये दोनों तथा विभंगावधि तो देशप्रत्यक्ष हैं और केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, शेष (वाक्रीके) कुमति, कुश्रुत, मति और श्रुत ये चार परोक्ष हैं । अव.यहांसे विस्तरपूर्वक वर्णन करते हैं । जैसे—आत्मा निश्चयनयसे संपूर्णरूपसे विमल तथा अखंड जो एक प्रत्यक्षज्ञानस्वरूप केवलज्ञान है उस ज्ञानस्वरूप है और वही आत्मा व्यवहारनयसे अनादिकालके कर्मबंधसे आच्छादित होकर, मतिज्ञानके आवरणके क्षयोपशमसे तथा वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे और वहिरंग पांच इन्द्रिय तथा मनके अवलम्बनसे मूर्त्त और अमूर्त्तवस्तुको एक देशसे विकल्पाकार परोक्षरूपसे अथवा सांन्यवहारिक प्रत्यक्षरूपसे जो जानता है वह क्षायोपशमिक मतिज्ञान है । अब यहांपर विशेष यह जानना चाहिये कि लब्धस्थानोंके तो वीर्यान्तरायका क्षयोपशम सर्वत्र ज्ञान चारित्र आदिकी उत्पत्तिमें सहकारी कारण है और केवलियोंके वीर्यान्तरायका सर्वथा क्षय जो है वह ज्ञान चारित्र आदिकी उत्पत्तिमें सर्वत्र सहकारी कारण है । अब सांन्यवहारिक प्रत्यक्षका लक्षण लिखते हैं—समीचीन अर्थात् प्रवृत्ति और निवृत्तिरूप जो व्यवहार है वह संन्यवहार कहाता है, संन्यवहारमें जो हो सो सांन्यवहारिक प्रत्यक्ष है । जैसे—यह घटका रूप मैंने देखा इत्यादि । ऐसेही श्रुतज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे और नोइन्द्रियके अवलम्बनसे प्रकाश

ज्ञानरूपेण यदस्पष्टं जानाति तत्परोक्षं श्रुतज्ञानं भण्यते । किञ्च विशेषः—शब्दात्मकं श्रुत-
ज्ञानं परोक्षमेव तावत्, स्वर्गापवर्गादिवर्हिर्विषयपरिच्छित्तिपरिज्ञानं विकल्परूपं तदपि
परोक्षं, यत्पुनरभ्यन्तरे सुखदुःखविकल्परूपोऽहमनन्तज्ञानादिरूपोऽहमिति वा तदीषत्परो-
क्षम्, यच्च निश्चयभावश्रुतज्ञानं तच्च शुद्धात्माभिमुखसुखसंवित्तिस्वरूपं स्वसंवित्त्याकारेण
सविकल्पमपीन्द्रियमनोजनितरागादिविकल्पजालरहितत्वेन निर्विकल्पम्, अभेदनयेन तदे-
वात्मशब्दवाच्यं वीतरागसम्यक्चारित्राविनाभूतं केवलज्ञानापेक्षया परोक्षमपि संसारिणां
क्षाधिकज्ञानाभावात् क्षायोपशमिकमपि प्रत्यक्षमभिधीयते । अत्राह शिष्यः—आद्ये परोक्ष-
मिति तत्त्वार्थसूत्रे मतिश्रुतद्वयं परोक्षं भणितं तिष्ठति कथं प्रत्यक्षं भवतीति । परिहारमाह-
तदुत्सर्गव्याख्यानम्, इदं पुनरपवादव्याख्यानं, यदि तदुत्सर्गव्याख्यानं न भवति तर्हि
मतिज्ञानं कथं तत्त्वार्थं परोक्षं भणितं तिष्ठति । तर्कशास्त्रे सांख्यवहारिकं प्रत्यक्षं कथं जातं ।
यथा अपवादव्याख्यानेन मतिज्ञानं परोक्षमपि प्रत्यक्षज्ञानं तथा स्वात्माभिमुखं भावश्रुत-
ज्ञानमपि परोक्षं सत्प्रत्यक्षं भण्यते । यदि पुनरेकान्तेन परोक्षं भवति तर्हि सुखदुःखादिसं-

और अध्यापक आदि सहकारी कारणके संयोगसे मूर्त्त तथा अमूर्त्त वस्तुको लोक तथा
अलोककी व्याप्तिरूप ज्ञानसे जो अस्पष्ट जानता है उसको परोक्ष श्रुतज्ञान कहते हैं और
इसमें भी विशेष यह है कि शब्दात्मक (शब्दरूप) जो श्रुतज्ञान है वह तो परोक्ष ही है
तथा स्वर्ग, मोक्ष आदि बाह्य विषयमें बोध करानेवाला विकल्परूप जो ज्ञान है वह भी
परोक्ष है और जो आभ्यन्तरमें सुख दुःख विकल्परूप है अथवा मैं अनन्त ज्ञान आदिरूप
हूँ इत्यादि ज्ञान है वह ईषत् (किञ्चित्) परोक्ष है तथा जो भावश्रुत ज्ञान है वह शुद्ध
आत्माके अभिमुख (सन्मुख) होनेसे सुखसंवित्ति (ज्ञान) स्वरूप है और वह निज
आत्मज्ञानके आकारसे सविकल्प है तो भी इन्द्रिय तथा मनसे उत्पन्न जो विकल्पसमूह
हैं उनसे रहित होनेके कारण निर्विकल्प है और अभेद नयसे वही आत्मज्ञान इस शब्दसे
कहा जाता है । तथा वह रागरहित जो सम्यक्चारित्र है उसके विना नहीं होता है ।
यद्यपि यह केवलज्ञानकी अपेक्षा परोक्ष है तथापि संसारियों को क्षायिक ज्ञानकी प्राप्ति न
होनेसे क्षायोपशमिक होनेपर भी प्रत्यक्ष कहलाता है । यहांपर शिष्य आशंका करता है
कि हे गुरो, “आद्ये परोक्षम् ” इस तत्त्वार्थसूत्र में मति और श्रुत इन दोनों ज्ञानोंको परोक्ष
कहा है फिर आप इसको प्रत्यक्ष कैसे कहते हो ? अब शंकाका परिहार इस प्रकार करते
हैं कि “आद्ये परोक्षम् ” इस सूत्रमें जो श्रुतको परोक्ष कहा है सो उत्सर्ग व्याख्यान है
और यह जो हमने कहा है कि भाव श्रुतज्ञान प्रत्यक्ष है सो उस उत्सर्गका वाधक जो
अपवाद है उसकी अपेक्षा से है । यदि तत्त्वार्थसूत्रमें उत्सर्गका कथन न होता तो
तत्त्वार्थसूत्रमें मतिज्ञान परोक्ष कैसे कहा गया है ? और यदि वह सूत्रमें परोक्ष ही कहा
गया है तो तर्कशास्त्रमें सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष कैसा हुआ ? इसलिये जैसे अपवाद व्याख्यानसे
परोक्षरूप भी मतिज्ञानको प्रत्यक्ष ज्ञान कहा गया है वैसेही निज आत्माके सन्मुख जो

वेदनमपि परोक्षं प्राप्नोति न च तथा । तथैव च स एवात्मा अवधिज्ञानावरणीयक्षयोपश-
मान्मूर्त्तं वस्तु यदेकदेशप्रत्यक्षेण सविकल्पं जानाति तदवधिज्ञानम् । यत्पुनर्मनःपर्ययज्ञा-
नावरणक्षयोपशमाद्वीर्यान्तरायक्षयोपशमाच्च स्वकीयमनोऽवलम्बनेन परकीयमनोगतं मूर्त्त-
मर्थमेकदेशप्रत्यक्षेण सविकल्पं जानाति तदीहामतिज्ञानपूर्वकं मनःपर्ययज्ञानम् । तथैव
निजशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणलक्षणैकाग्रध्यानेन केवलज्ञानावरणादिघातिचतु-
ष्टयक्षये सति यत्समुत्पद्यते तदेव समस्तद्रव्यक्षेत्रकालभावग्राहकं सर्वप्रकारोपादेयभूतं
केवलज्ञानमिति ॥५॥

अथ ज्ञानदर्शनोपयोगद्वयव्याख्यानस्य नयविभागेनोपसंहारः कथ्यतेः—

अद्भु चद्दु णाण दंसण सामणं जीवलक्खणं भणियं ।

ववहारा सुद्धणया सुद्धं पुण दंसणं णाणं ॥६॥

व्याख्या—“अद्भु चद्दु णाण दंसण सामणं जीवलक्खणं भणियं” अष्टविधं ज्ञानं चतु-
र्विधं दर्शनं सामान्यं जीवलक्षणं भणितम् । सामान्यमिति कोऽर्थः संसारिजीवमुक्तजीव-

भावश्रुतज्ञान है वह परोक्ष है तो भी उसको प्रत्यक्ष कहते हैं । और यदि एकान्तसे ये मति, श्रुत दोनों परोक्षही होवें तो सुख दुःख आदिका जो संवेदन (ज्ञान) है वह भी परोक्षही होगा और वह संवेदन परोक्ष नहीं है । इसी रीतिसे वही आत्मा अवधिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे मूर्त्त वस्तुको जो एकदेश प्रत्यक्षद्वारा सविकल्प जानता है वह अवधिज्ञान है । और जो मनःपर्ययज्ञानावरणके क्षयोपशमसे और वीर्यान्तरायके क्षयोपशमसे अपने मनके अवलम्बनद्वारा परके मनमें प्राप्त हुए मूर्त्त पदार्थको एकदेश प्रत्यक्षसे सविकल्प जानता है वह ईहामतिज्ञानपूर्वक मनःपर्यय ज्ञान कहलाता है । इसी प्रकार अपना शुद्ध जो आत्मद्रव्य है उसका भले प्रकार श्रद्धान करना, जानना और आचरण करना इन रूप जो एकाग्र ध्यान उससे केवलज्ञानावरणादि चार घातिया कर्मोंका नाश होनेपर जो उत्पन्न होता है वह एक समय में समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भावको ग्रहण करने-वाला और सब प्रकारसे उपादेयभूत (ग्रहण करने योग्य) केवलज्ञान है ॥५॥

अब ज्ञान तथा दर्शन इन दोनों उपयोगोंके व्याख्यानका नयके विभागसे उपसंहार कहते हैंः—

गाथाभावार्थः—आठ प्रकारके ज्ञान और चार प्रकारके दर्शनका जो धारक है वह जीव है । यह व्यवहार नयसे सामान्य जीवका लक्षण है और शुद्ध नयसे शुद्ध जो ज्ञान दर्शन है वह जीवका लक्षण कहा गया है ।

व्याख्यार्थः—“अद्भु चद्दु णाण दंसण सामणं जीवलक्खणं भणियं” आठ प्रकारका ज्ञान तथा चार प्रकारका दर्शन जो है सो सामान्य रूपसे जीवका लक्षण कहा है । यहांपर सामान्य इस कथनका यह तात्पर्य है इस लक्षणमें संसारी जीव व मुक्त जीवको

वर्णा रस पंच गंधा दो फासा अट्ट णिच्छया जीवे ।

णो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति वंधादो ॥७॥

व्याख्या—“वर्णा रस पञ्च गंधा दो फासा अट्ट णिच्छया जीवे णो संति” श्वेतपीत-नीलारुणकृष्णसंज्ञाः पञ्च वर्णाः, तिक्तकटुककषायाम्लमधुरसंज्ञाः पञ्च रसाः, सुगन्धदु-र्गन्धसंज्ञाः द्वौ गन्धौ, शीतोष्णस्निग्धरूक्षमृदुकर्कशगुरुलघुसंज्ञा अष्टौ स्पर्शाः, “णिच्छया” शुद्ध निश्चयनयात् शुद्धबुद्धैकस्वभावे शुद्धजीवे न सन्ति । “अमुत्ति तदो” ततः कारणाद-मूर्त्तः, यद्यमूर्त्तस्तर्हि तस्य कथं कर्मबन्ध इति चेत् “व्यवहारा मुत्ति” अनुपचरितासद्ब्रूतव्य-वहारान्मूर्त्तौ यतस्तदपि कस्मात् “बंधादो” अनन्तज्ञानाद्युपलम्भलक्षणमोक्षविलक्षणादनादि-कर्मबन्धनादिति । तथा चोक्त-कथंचिन्मूर्त्तामूर्त्तजीवलक्षणम्—“बंधं पडि पयत्तं लक्खणदो ह्वदि तस्स भिण्णत्तं । तस्मा अमुत्तिभावो णेगंतो होदि जीवस्स । १।” अयमत्रार्थः—यस्यैवामूर्त्तस्यात्मनः प्राप्त्यभावादानादिसंसारे भ्रमितोऽयं जीवः स एवामूर्त्तौ मूर्त्तपञ्चे-न्द्रियविषयत्यागेन निरन्तरं ध्यातव्यः । इति भट्टचार्याकमतं प्रत्यमूर्त्तजीवस्थापनमुख्यत्वेन सूत्रं गतम् ॥७॥

उसके उदयसे व्यवहार नयकी अपेक्षासे जीव मूर्त्त है तो भी निश्चयसे अमूर्त्त है ऐसा उपदेश देते हैं;—

गाथाभावार्थः—निश्चयसे जीवमें पांच वर्ण, पांच रस, दो गंध, और पाठ स्पर्श नहीं हैं इसलिये जीव अमूर्त्त है और बंधसे व्यवहारकी अपेक्षा करके जीव मूर्त्त है ॥ ७ ॥

व्याख्यार्थः—“वर्णा रस पंच गंधा दो फासा अट्ट णिच्छया जीवे णो संति” श्वेत, नील, पीत (पीला), रक्त (लाल) तथा कृष्ण (काला) ये पांच वर्ण; चरपरा, कडुवा, कषायला, खट्टा और मीठा ये पांच रस; सुगन्ध और दुर्गन्ध नामक दो गंध तथा ठंडा गरम, चिकना, रूखा, मुलायम, कठोर (कड़ा), भारी और हल्का यह आठ प्रकारका स्पर्श शुद्ध निश्चय नयसे शुद्ध, बुद्ध एक स्वभावका धारक जो शुद्ध जीव है उसमें नहीं है । “अमुत्ति तदो” इस हेतुसे यह जीव अमूर्त्ति है अर्थात् मूर्त्तिरहित है । शंका—यदि जीव मूर्त्तिरहित है तो मूर्त्तिसे शून्य जीवके कर्मका बंध कैसे होता है ? उत्तर—“व्यवहारा मुत्ति” यद्यपि अमूर्त्त है तथापि अनुपचरितअसद्ब्रूतव्यवहारसे मूर्त्त है अतः कर्मबंध होता है । शंका—यह मूर्त्त भी किस कारणसे है ? उत्तर—“बंधादो” अनन्तज्ञानादिकी प्राप्तिरूप जो मोक्ष है उस मोक्षसे विपरीत अनादिकर्मोंके बंधनसे है । और कथंचित् मूर्त्त तथा अमूर्त्तका लक्षण कहा भी है, जैसे—“बंधके प्रति जीवकी एकता है और लक्षणसे उसकी भिन्नता है इसलिये जीवके अमूर्त्तभाव एकान्तसे नहीं है । १।” यहाँपर तात्पर्य यह है कि जिस अमूर्त्त आत्माकी प्राप्तिके अभावसे इस जीवने अनादि संसारमें परिभ्रमण किया है उसी अमूर्त्त शुद्धस्वरूप आत्माको मूर्त्त पांचों इन्द्रियोंके विषयोंका त्याग कर ध्याना चाहिये । इसप्रकार भट्ट और चार्याकके मतके प्रति जीवको मुख्यतासे अमूर्त्त स्थापन करनेवाला सूत्र समाप्त हुआ ॥७॥

अथ निष्क्रियामूर्च्छतङ्कोत्कीर्णं ह्यायकैकस्वभावेन कर्मादिकर्तृत्वरहितोऽपि जीवो व्यवहारादिनयविभागेन कर्त्ता भवतीति कथयति;—

पुग्गलकम्मादीणं कत्ता व्यवहारदो दु णिच्छयदो ।

चेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावाणं ॥८॥

व्याख्या—अत्र सूत्रे भिन्नप्रकरूपव्यवहितसम्बन्धेन मध्यपदं गृहीत्वा व्याख्यानं क्रियते । “आदा” आत्मा “पुग्गलकम्मादीणं कत्ता व्यवहारदो दु” पुद्गलकर्मादीनां कर्त्ता व्यवहारतस्तु पुनः, तथाहि—मनोवचनकायव्यापारक्रियारहितनिजशुद्धात्मतत्त्वभावनाशून्यः सन्ननुपचरितासद्गतव्यवहारेण ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मणांमादिशब्देनोदारिकवैक्रियिकाहारकशरीरत्रयाहारादिषट्पर्याप्तियोग्यपुद्गलपिण्डरूपनो(ईपत्) कर्मणां तथैवोपचरितासद्गतव्यवहारेण वहिर्विषयघटपटादीनां च कर्त्ता भवति । “णिच्छयदो चेदणकम्माणादा” निश्चयनयतश्चेतनकर्मणां तद्यथा रागादिविकल्पोपाधिरहितनिष्क्रियपरमचैतन्यभावनारहितेन यदुपार्जितं रागाद्युत्पादकं कर्म तदुदये सति निष्क्रियनिर्मलस्वसंवित्तिमलभमानो भावकर्मशब्दवाच्यरागादिविकल्परूपचेतनकर्मणामशुद्धनिश्चयेन कर्त्ता भवति । अशुद्धनिश्चयस्यार्थः

अव क्रियारहित, अमूर्च्छ, टङ्कोत्कीर्ण (शुद्ध), ज्ञानरूप एक स्वभावसे जीव यद्यपि कर्म आदिके कर्त्तापनेसे रहित है तथापि व्यवहार आदि नयके विभागसे कर्त्ता होता है ऐसा कथन करते हैं;—

गाथाभावार्थः—आत्मा व्यवहारसे पुद्गल कर्म आदिका कर्त्ता है, निश्चयसे चेतन कर्मका कर्त्ता है और शुद्ध नयसे शुद्ध भावोंका कर्त्ता है ॥८॥

व्याख्यार्थः—इस सूत्रमें भिन्न प्रकरूप व्यवहित संबंधसे मध्य (बीचके) पदको ग्रहण करके व्याख्यान किया जाता है । “आदा” आत्मा “पुग्गलकम्मादीणं कत्ता व्यवहारदो दु” व्यवहार नयकी अपेक्षासे पुद्गल कर्म आदिका कर्त्ता है । जैसे—मन, वचन तथा शरीरके व्यापाररूप क्रियासे रहित निज शुद्ध आत्मतत्त्वकी जो भावना है उस भावनासे शून्य होकर उपचरित असद्गत व्यवहार नयसे ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मोंका तथा आदिशुद्ध से औदारिक, वैक्रियक और आहारकरूप तीन शरीर तथा आहार आदि ६ पर्याप्तियोंके योग्य जो पुद्गल पिण्डरूप नो (ईपत्) कर्म हैं उनका तथा उसी प्रकार उपचरित असद्गत व्यवहारसे बाह्य विषय घट, पट आदिका भी यह जीव कर्त्ता है । “णिच्छयणयदो चेदणकम्माणादा” और निश्चय नयकी अपेक्षासे तो यह आत्मा चेतन कर्मोंका कर्त्ता है । सो ऐसे ही कि रागआदि विकल्परूप उपाधिसे रहित निष्क्रिय, परमचैतन्यभावनासे रहित ऐसे जीवने जो राग आदिको उत्पन्न करनेवाले कर्मोंका उपार्जन किया उन कर्मोंका उदय होनेपर निष्क्रिय और निर्मल आत्मज्ञानको नहीं प्राप्त होता हुआ यह जीव भावकर्म इस शब्दसे वाच्य जो रागादि विकल्परूप चेतन कर्म हैं उनका अशुद्ध निश्चय नयसे कर्त्ता

कथ्यते-कर्मोपाधिसमुत्पन्नत्वादशुद्धः, तत्काले तन्नायःपिण्डवत्तन्मयत्वाच्च निश्चयः, इत्युभयमेलापकेनाशुद्धनिश्चयो भण्यते । “शुद्धणया सुद्धभावाणं” शुभाशुभयोगत्रयव्यापाररहितेन शुद्धबुद्धैकस्वभावेन यदा परिणमति तदानन्तज्ञानसुखादिशुद्धभावानां छद्मस्थावस्थायां भावनारूपेण विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयेन कर्त्ता, मुक्तावस्थायां तु शुद्धनयेनेति । किन्तु शुद्धाशुद्धभावानां परिणममानानामेव कर्त्तृत्वं ज्ञातव्यम्, न च हस्तादिव्यापाररूपानामिति । यतो हि नित्यनिरञ्जननिष्क्रयनिजात्मस्वरूपभावनारहितस्य कर्मादिकर्त्तृत्वं व्याख्यातम्, ततस्तत्रैव निजशुद्धात्मनि भावना कर्त्तव्या । एवं सांख्यमतं प्रत्येकान्ताकर्त्तृत्वनिराकरणमुख्यत्वेन गाथा गता ॥८॥

अथ यद्यपि शुद्धनयेन निर्विकारपरमाह्लादैकलक्षणसुखामृतस्य भोक्ता तथाप्यशुद्धनयेन सांसारिकसुखदुःखस्यापि भोक्तात्मा भवतीत्याख्यातिः—

ववहारा सुहृदुक्त्वं पुगलकम्मप्फलं पभुंजेदि ।

आदा णिच्छयणयदा चेदणभावं सु आदस्स ॥९॥

व्याख्या—“ववहारा सुहृदुक्त्वं पुगलकम्मप्फलं पभुंजेदि” व्यवहारात्सुखदुःखरूपं पुद्-

होता है । अब अशुद्ध निश्चयका अर्थ कहते हैं । कर्मरूप उपाधिसे उत्पन्न होनेसे अशुद्ध कहलाता है और उस समय अग्निमें तपे हुये लोहके गोलेके समान तन्मय (उसीरूप) होनेसे निश्चय कहा जाता है, इस रीतिसे अशुद्ध और निश्चय इन दोनोंको मिलाके अशुद्ध निश्चय कहा जाता है । “शुद्धणया सुद्धभावाणं” जीव जब शुभ तथा अशुभ मन, वचन, और कायरूप तीनों योगोंके व्यापारसे रहित शुद्ध, बुद्ध, एक स्वभावसे परिणमता है तब अनन्त ज्ञान, सुख आदि शुद्ध भावोंका छद्मस्थ अवस्थामें भावनारूप विवक्षित एकदेश शुद्ध निश्चय नयसे कर्त्ता होता है और मुक्त अवस्थामें तो शुद्ध निश्चय नयसे अनन्त ज्ञानादि शुद्ध भावोंका कर्त्ता है । यहां विशेष यह है कि शुद्ध अशुद्ध भावोंका जो परिणमन है उन्हींका कर्त्तृत्व जीवमें जानना चाहिये और हस्त आदिके व्यापाररूप परिणमनोंका न समझना चाहिये । क्योंकि नित्य, निरञ्जन, निष्क्रय ऐसे अपने आत्मस्वरूपकी भावनासे रहित जो जीव है उसीके कर्म आदिका कर्त्तृत्व कहा गया है । इसलिये उस निज शुद्ध आत्मामें ही भावना करनी चाहिये । ऐसे सांख्यमतके प्रति “एकान्तसे जीव कर्त्ता नहीं है” इस मतके निराकरणकी मुख्यतासे गाथा समाप्त हुई ॥८॥

अब यद्यपि आत्मा शुद्ध नयसे विकाररहित परम आनंदरूप एक लक्षणका धारक जो सुखरूपी अमृत है उसको भोगनेवा है तथापि अशुद्ध नयसे संसारमें उत्पन्न हुये जो सुख दुःख हैं उनका भी भोगनेवाला है ऐसा कथन करते हैं,—

गाथाभावार्थः—आत्मा व्यवहारसे सुख दुःखरूप पुद्गल कर्मोंको भोगता है और निश्चय नयसे आत्मा चेतन स्वभावको भोगता है ॥९॥

व्याख्या—“अणुगुरुदेहप्रमाणो” निश्चयेन स्वदेहाद्भिन्नस्य केवलज्ञानाद्यनन्तगुणराशेर-
भिन्नस्य निजशुद्धात्मस्वरूपस्वोपलब्धेरभावात्तथैव देहममत्वमूलभूताहारभयमैथुनपरिग्रहसं-
ज्ञाप्रभृतिसमस्तरागादिविभावानामासक्तिसद्भावाच्च यदुपार्जितं शरीरनामकर्म तदुदये सति
अणुगुरुदेहप्रमाणो भवति । स कः कर्ता “चेदा” चेतयिता जीवः । कस्मात् “उवसंहार-
प्पसप्पदो” उपसंहारप्रसर्पतः शरीरनामकर्मजनितविस्तारोपसंहारधर्माभ्यामित्यर्थः । कोऽ-
त्र दृष्टान्तः, यथा प्रदीपो महद्भाजनप्रच्छादितस्तद्भाजनान्तरं सर्वं प्रकाशयति लघुभाजन-
प्रच्छादितस्तद्भाजनान्तरं प्रकाशयति । पुनरापि कस्मात् “असमुद्दो” असमुद्धातात् वेदना-
कृपायविक्रियाभारणान्तिकतैजसाहारककेवलिंसंज्ञसप्तसमुद्धातवर्जनात् । तथा चोक्तं सप्त-
समुद्धातलक्षणम्—“वेयणकसायवेउव्वियमारणंतिओसमुग्घादो । तेजाहारो छट्ठो सत्तमओ

अव यद्यपि आत्मा निश्चय नयसे लोकप्रमाण असंख्यात प्रदेशोका धारक है तथापि
व्यवहारसे देहप्रमाण है यह कथन करते हैं;—

गाथाभावार्थः—व्यवहार नयसे समुद्धात अवस्थाके विना यह जीव संकोच तथा
विस्तारसे छोटे और बड़े शरीरके प्रमाण रहता है और निश्चय नयसे जीव असंख्यात
प्रदेशोका धारक है ॥१०॥

व्याख्यार्थः—“अणुगुरुदेहप्रमाणो” निश्चय नयसे अपने देहसे भिन्न तथा केवलज्ञान
आदि अनन्त गुणोंकी राशिसे अभिन्न जो अपना शुद्ध आत्मस्वरूप है उसकी प्राप्तिके
अभावसे तथा इसी प्रकार देहकी समताके मूल कारणस्वरूप आहार, भय, मैथुन, परिग्रह
रूप जो संज्ञा उनको आदि ले जो समस्त राग आदि विभाव हैं उनमें आसक्तिके होनेसे
जो जीवने शरीर नाम कर्म उपार्जन किया उसका उदय होनेसे सूक्ष्म (छोटा) तथा
गुरु (बड़ा) जो देह उसके प्रमाण होता है । वह शरीर प्रमाण होनेवाला कौन है ? “चेदा”
चेतनावाला यह जीव है । किस निमित्तसे ? “उवसंहारप्पसप्पदो” उपसंहार तथा प्रसर्पण स्वभा-
वसे अर्थात् संकोच तथा विस्तार स्वभावसे । तात्पर्य यह कि शरीर नाम कर्मसे उत्पन्न जो
विस्तार तथा संकोचरूप जीवके धर्म हैं उनसे यह जीव देहप्रमाण होता है । इसमें दृष्टान्त
क्या है ? कि जैसे दीपक किसी बड़े पात्रमें रख दिया जाता है तो वह उस पात्रके अभ्यन्तर
(अन्तर्गत) जो पदार्थ हैं उन सबको प्रकाशित करता है और जो छोटे पात्रमें रख दिया
जाता है तो उस पात्रके अन्तर्गत जो पदार्थ हैं उनको प्रकाशित करता है । फिर किस निमित्तसे
यह जीव देहप्रमाण है ? “असमुद्दो” समुद्धातके न होनेसे अर्थात् वेदना, कृपाय, विक्रिया,
भारणान्तिक, तैजस, आहारक और केवली नामक जो सात समुद्धात हैं उनको छोड़नेसे
अर्थात् समुद्धात अवस्थामें तो जीव देहप्रमाण नहीं रहता है और असमुद्धात दशमें देह
प्रमाणही रहता है और सप्त (सात) समुद्धातोंका लक्षण इस प्रकार कहा है कि “वेदना १
कृपाय २ विक्रिया ३ भारणान्तिक ४ तैजस ५ आहार ६ और ७ केवली ये सात समुद्धात

केवलीणं तु ।१।" तद्यथा 'मूलशरीरमच्छन्दिय उत्तरदेहस्त जीवपिंडस्त । णिग्गमणं देहादो हवदि समुग्घादयं णाम ॥१॥" तीव्रवेदनानुभवान्मूलशरीरमत्यक्त्वा आत्मप्रदेशानां वहिर्निर्गमनमिति वेदनासमुद्घातः ।१। तीव्रकषायोदयान्मूलशरीरमत्यक्त्वा परस्य घातार्थमात्मप्रदेशानां वहिर्गमनमिति कषायसमुद्घातः ।२। मूलशरीरमपरित्यज्य किमपि विकर्तुमात्मप्रदेशानां वहिर्गमनमिति विक्रियासमुद्घातः ।३। मरणान्तममये मूलशरीरमपरित्यज्य यत्र कुत्रचिद्ब्रह्म।युस्तत्प्रदेशं स्फुटितुमात्मप्रदेशानां वहिर्गमनमिति मारणान्तिकसमुद्घातः ।४। स्वस्य मनोनिष्टजनकं किञ्चित्कारणान्तरमवलोक्य समुत्पन्नक्रोधस्य संयमनिधानस्य महामुनेर्मूलशरीरमत्यज्य सिन्दूरपुञ्जप्रभो दीर्घत्वेन द्वादशयोजनप्रमाणः सूच्यङ्गुलसंख्येयभागमूलविस्तारो नवयोजनाप्रविस्तारः काहलाकृतितपुरुषो वामस्कन्धान्निर्गत्य वामप्रदक्षिणेन हृदये निहितं विरुद्धं वस्तु भस्मसात्कृत्य तेनैव संयमिना सह स च भस्म व्रजति द्वीपायनवत्, असावशुभस्तेजःसमुद्घातः । लोकं व्याधिदुर्भिक्षादिपीडितमवलोक्य समुत्पन्नरूपस्य परमसंयमनिधानस्य महर्षेर्मूलशरीरमत्यज्य शुभ्राकृतिः प्रागुक्तदेहप्रमाणः पुरुषो दक्षिणप्रदक्षिणेन व्याधिदुर्भिक्षादिकं स्फोटयित्वा पुनरपि

हैं" सो ऐसे हैं कि "अपने मूल शरीरको न छोड़कर जो आत्माके प्रदेश देहसे निकलकर उत्तरदेहके प्रति गमन करते हैं उसको समुद्घात कहते हैं" इन सातों समुद्घातोंको क्रमसे दर्शाते हैं । जैसे-तीव्र वेदना (पीडा) के अनुभवसे मूल शरीरका त्याग न करके जो आत्माके प्रदेशोंका शरीरसे बाहर जाना सो वेदना समुद्घात है । १ । तथा तीव्र क्रोधादिक कषायोंके उदयसे मूल अर्थात् धारण किये हुए शरीरको न छोड़कर जो आत्माके प्रदेश दूसरेको मारनेके लिये शरीरके बाहर जाते हैं उसको कषाय समुद्घात कहते हैं । २ । किसी प्रकारकी विक्रिया (कामादिजनित विकार) उत्पन्न करने वा करानेके अर्थ मूल शरीरको न त्यागकर जो आत्माके प्रदेशोंका बाहर जाना है उसको विकुर्वणा अथवा विक्रिया समुद्घात कहते हैं । ३ । तथा मरणान्त समयमें मूल शरीरको न त्याग करके जहां कहीं इस आत्माने आयु बांधा है उसके स्पर्शनेको जो प्रदेशोंका शरीरसे बाह्य गमन करना सो मारणान्तिक समुद्घात है । ४ । अपने मनको अनिष्ट (बुरा) उत्पन्न करनेवाले किसी कारणको देखकर उत्पन्न हुआ है क्रोध जिसके ऐसा जो संयमका निधान महामुनि उसके बान (बायें) कंधेसे सिन्दूरके ढेरकीसी क्रान्तिवाला, वारह योजन लम्बा, सूच्यंगुलके संख्येय भाग प्रमाण मूल विस्तार और नव योजनके अग्र विस्तारको धारण करनेवाला काहल (विलाय) के आकारका धारक पुरुष निकल करके वाम प्रदक्षिणा देकर मुनिके हृदयमें स्थित जो विरुद्ध पदार्थ है उसको भस्म करके और उसी मुनिके साथ आप भी भस्म होजाय; जैसे द्वीपायन मुनिके शरीरसे पुतला निकलके द्वारिकाको भस्म कर उसीने द्वीपायन मुनिको भस्म किया और वह पुतला आप भी भस्म होगया, उसीकी तरह जो हो सो अशुभ नैजस समुद्घात है । तथा जगत्को रोग अथवा दुर्भिक्ष आदिसे पीडित देखकर उत्पन्न हुई

स्वस्थाने प्रविशति, असौ शुभरूपस्तेजःसमुद्घातः । समुत्पन्नपदपदार्थभ्रान्तेः परम-
द्विसंपन्नस्य महर्षिर्मूलशरीरमत्यज्य शुद्धस्फटिकाकृतिरेकहस्तप्रमाणः पुरुषो मस्तकम-
भ्रान्तिर्गत्य यत्र कुत्रचिदन्तर्मुहूर्त्तमध्ये केवलज्ञानिनं पश्यति तद्दर्शनाच्च स्वाश्रयस्य
मुनेः पदपदार्थनिश्चयं समुत्पाद्य पुनः स्वस्थाने प्रविशति, असावाहारसमुद्घातः । सप्तमः
केवलिनां दण्डकपाटप्रतरपूरणः सोऽयं केवलिसमुद्घातः । नयविभागः कथ्यते ।
“वचहारा” अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयात् “णिच्छयणयो असंखदेसो वा” निश्चयनयतो
लोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशप्रमाणः वा शब्देन तु स्वसंवित्तिसमुत्पन्नकेवलज्ञानोत्पत्तिप्र-
स्तावे ज्ञानापेक्षया व्यवहारनयेन लोकालोकव्यापकः न च प्रदेशापेक्षया नैयायिकमीमांस-
कसांख्यमतवत् । तथैव पञ्चेन्द्रियमनोविषयविकल्परहितसमाधिकाले स्वसंवेदनलक्षणत्रो-
भसद्भूतवेऽपि वहिर्विषययेन्द्रियबोधाभावज्जडः न च सर्वथा सांख्यमतवत् । तथा रागादिवि-
भावपरिणामापेक्षया शून्योऽपि भवति न चानन्तज्ञानाद्यपेक्षया बौद्धमतवत् । किञ्च अणु-
मात्रशरीरशब्देनात्र उत्सेधघनाङ्गुलासंख्येयभागप्रमितं लब्धपूर्णसूक्ष्मनिगोदशरीरं ग्राह्यं

है कृपा जिसके ऐसा जो परमसंयमनिधान महाऋषि उसके मूल शरीरको नहीं त्यागकर
पूर्वोक्त देहके प्रमाणको धारण करनेवाला अच्छी सौम्य आकृतिका धारक पुरुष दक्षिण
स्कंधसे निकलकर दक्षिण प्रदक्षिणाकर रोग दुर्भिक्ष आदिको दूर कर फिर अपने स्थानमें
प्रवेश कर जाय यह शुभ रूप तैजस समुद्घात है । ५ । उत्पन्न हुई है पद और पदार्थमें
भ्रान्ति (संशय) जिसके ऐसा जो परम ऋद्धिका धारक महर्षि उसके मस्तकमेंसे मूल
शरीरको न छोड़कर निर्मल स्फटिक (विल्लोर) की आकृति (रंग) को धारण करनेवाला
एक हाथका पुरुष निकलकर अन्तर्मुहूर्त्तके बीचमें जहां कहीं भी केवलीको देखता है और
उन केवलीके दर्शनसे अपना आश्रय जो मुनि उसके पद और पदार्थका निश्चय उत्पन्न
कर फिर अपने स्थानमें प्रवेश कर जाय सो यह आहार समुद्घात है । ६ । केवलियोंके
जो दंड कपाट प्रतर पूरण होता है सो सातवां केवलि समुद्घात है । ७ । अब नयोंका
विभाग कहते हैं । “वचहारा” यह जो गुरुलघुदेहप्रमाणता जीवकी दर्शाई गई है वह
अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नयसे है तथा “णिच्छयणयो असंखदेसो वा” निश्चय-
नयसे लोकाकाश प्रमाण जो असंख्येय प्रदेश हैं उन प्रमाण अर्थात् लोकाकाश प्रमाण
असंख्यात प्रदेशोंका धारक यह आत्मा है और “असंखदेसो वा ” यहां जो गाथाके अंतमें
वा शब्द दिया गया है उस वा शब्दसे ग्रंथकर्त्ताने यह सूचित किया है कि स्वसंवित्ति
(आत्मज्ञान) से उत्पन्न हुआ जो केवलज्ञान उसकी उत्पत्तिके प्रस्तावमें अर्थात् केवल
ज्ञानावस्थामें ज्ञानकी अपेक्षासे व्यवहारनयद्वारा आत्माको लोक और अलोकमें व्यापक माना
है और जैसे नैयायिक, मीमांसक तथा सांख्य मतवाले आत्माको प्रदेशोंको अपेक्षासे
व्यापक मानते हैं वैया नहीं । इसी प्रकार पांचों इन्द्रियों और मनके विषयोंके जो विकल्प
-चनसे रहित जो समाधिकाल (ध्यानका समय) है उसमें आत्मज्ञानरूप ज्ञानके विद्यमान

दयेन जीवा भवन्ति । कथंभूता भवन्ति “पुढविजलतेयवाओवणफ्फदी विविहथावरेइंदी” पृथिव्यग्नेजोवायुवनस्पतयः । कतिसंख्योपेता, विविधा आगमकथितस्वकीयस्वकीयान्तर्भेदैर्व-
हुविधाः स्थावरनामकर्मोदयेन स्थावरा एकेन्द्रियजातिनामकर्मोदयेन स्पर्शनेन्द्रिययुक्ता एके-
न्द्रिया, न केवलमित्थंभूताः स्थावरा भवन्ति । “विगतिगचटुपंचक्खा तसजीवा” द्वित्रिचतुः-
पञ्चाक्षास्त्रसनामकर्मोदयेन त्रसजीवा भवन्ति । ते च कथंभूताः “संखादी” शङ्खादयः
स्पर्शनरसनेन्द्रियद्वययुक्ताः शङ्खशुक्तिक्कम्पादयो द्वीन्द्रियाः, स्पर्शनरसनघ्राणेन्द्रिययुक्ताः
कुन्थुपिपीलिकायूकामत्कुणादयस्त्रीन्द्रियाः, स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुरिन्द्रियचतुष्टययुक्ता दंशम-
शकमक्षिकाभ्रमरादयश्चतुरिन्द्रियाः, स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्रेन्द्रियपञ्चयुक्ता मनुष्यादयः
पञ्चेन्द्रिया इति । अयमत्रार्थः—विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजपरमात्मस्वरूपभावजोत्पन्नपा-
रमार्थिकसुखमलभमाना इन्द्रियसुखासक्ता एकेन्द्रियादिजीवानां वधं कृत्वा त्रसस्थावरा
भवन्तीत्युक्तं पूर्वं तस्मात्त्रसस्थावरोत्पत्तिविनाशार्थं तत्रैव परमात्मनि भावना कर्त्तव्येति ॥११॥

तदेव त्रसस्थावरत्वं चतुर्दशजीवसमासरूपेण व्यक्तीकरोति;—

सुख है उसकी अभिलाषा करते हैं और अज्ञानतासे उस इन्द्रियजनित सुखमें आसक्त
होकर एकेन्द्रिय आदि जीवोंका घात करते हैं, उस घातसे उपार्जन किया जो त्रस तथा
स्थावर नामकर्म उसके उदयसे होते हैं । “पुढविजलतेयवाऊवणफ्फदीविविहथावरेइंदी”
पृथिवी, जल, तेज, वायु, तथा वनस्पति जीव, कितने-अनेक प्रकारके अर्थात् शास्त्रमें
कहे हुए जो अपने २ भेद हैं उनसे बहुत प्रकारके, स्थावर नाम कर्मके उदयसे स्थावर,
एकेन्द्रिय जाति नामकर्मके उदयसे स्पर्शन इन्द्रिय सहित एकेन्द्रिय होते हैं । केवल इस
प्रकारके स्थावर ही नहीं होते हैं; किन्तु “विगतिगचउपंचक्खा तसजीवा” दो, तीन, चार
तथा पांच इन्द्रियोंके धारक त्रस नामकर्मके उदयसे त्रस जीव होते हैं । वे कैसे हैं कि
“संखादी” शंख आदिक अर्थात् स्पर्शन और रसन इन दो इन्द्रियों सहित शंख, कुमि
आदि दो इन्द्रियोंके धारक जीव हैं; स्पर्शन, रसन, तथा घ्राण (नासिका) इन तीन इन्द्रियां
सहित कुन्थु, पिपीलिका (कीड़ी), यूका (जू), मत्कुण (खटमल) आदि त्रीन्द्रिय
हैं; स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु (नेत्र) इन चार इन्द्रियों सहित दंश (डांसर), मशक
(माछर), मक्षिका (मक्खी) और भौरा आदि चतुरिन्द्रिय जीव हैं; स्पर्शन, रसन, घ्राण,
चक्षुः और श्रोत्र (कर्ण) इन पांच इन्द्रियों सहित मनुष्य आदि पंचेन्द्रिय हैं । यज्ञपर
तात्पर्य यह है कि निर्मल ज्ञान तथा दर्शन स्वभावका धारक जो निज परमात्मस्वरूप
उसकी भावनासे उत्पन्न जो पारमार्थिक सुख है उसको नहीं प्राप्त होते हुए जीव इन्द्रियोंके
सुखमें आसक्त होकर जो एकेन्द्रियादि जीवोंका वध करते हैं उससे त्रस तथा स्थावर होते
हैं, ऐसा पहले कह चुके हैं, इसलिये त्रस और स्थावरोंमें जो उत्पत्ति होती है उसके
नाशके लिये उसी पूर्वोक्त प्रकारसे परमात्मामें भावना करनी चाहिये ॥११॥

अब उसी त्रस तथा स्थावरपनेको चतुर्दश १४ जीवसमासोंद्वारा व्यक्त(प्रकट)करते हैं;-

एवं चतुर्दशजीवसमासा ज्ञातव्यास्तेषां च “इन्द्रियाकायाऊणिय पुष्णापुष्णेषु पुष्णो आणा । वेइन्द्रियादि पुष्णे सुत्रचिमणोसण्णि पुष्णेय । १ । दस सण्णीणं पाणा सेसे-गुणंति मण्णवे ऊणा । पज्जत्ते मिदरेसुयसत्तदुगे सेसगेगूणा । २ ।” इति गाथाद्वयकथित-क्रमेण यथासंभवमिन्द्रियादिदशप्राणाश्च विज्ञेयाः । अत्रैतेभ्यो भिन्नं निजशुद्धात्मतत्त्वमुपा-देयमिति भावार्थः ॥१२॥

अथ शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेण शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन शुद्धबुद्धैकस्वभावा अपि जीवाः पश्चादशुद्धनयेन चतुर्दशमार्गणास्थानचतुर्दशगुणस्थानसहिता भवन्तीति प्रति-पादयति;—

मग्गणगुणठाणेहि य चउदसहि हवंति तह असुद्धणया ।

विण्णेया संसारी सव्वे सुद्धा हु सुद्धणया ॥ १३ ॥

व्याख्या—“मग्गणगुणठाणेहि य हवंति तह विण्णेया” यथा पूर्वसूत्रोदितचतुर्दशजी-वसमासैर्भवन्ति मार्गणागुणस्थानैश्च तथा भवन्ति संभवन्तीति विज्ञेया ज्ञातव्याः । कति-

होती हैं, संज्ञी पंचेन्द्रियोंके चार ये पूर्वोक्त, और भाषा तथा मन ये छहों पर्याप्तियें होती हैं और शेष जीवोंके मनरहित पांच पर्याप्तियें होती हैं ।” इस गाथामें कहे हुए क्रमसे वे सब हरएक अपनी २ पर्याप्तियोंके होनेसे सात तो पर्याप्त हैं और सात अपर्याप्त हैं । ऐसे चौदह जीवसमास जानने चाहिये ।” पर्याप्त अवस्थामें संज्ञी पंचेन्द्रियोंके १० प्राण, असंज्ञी पंचेन्द्रियोंके मनके बिना ९ प्राण, चौईन्द्रियोंके मन और कर्णके बिना ८ प्राण, तेइन्द्रि-योंके मन, कर्ण और चक्षुके बिना ७ प्राण, दोइन्द्रियोंके मन, कर्ण, चक्षु और घ्राणके बिना ६ प्राण और एकेंद्रियोंके मन, कर्ण, चक्षु, घ्राण, रसना तथा वचनबलके बिना ४ प्राण होते हैं । अपर्याप्त अवस्थाके धारक जीवोंमें संज्ञी तथा असंज्ञी इन दोनों पंचेन्द्रियोंके श्वासोश्वास, वचनबल और मनोबलके बिना ७ प्राण होते हैं और चौईन्द्रिय आदि एकेन्द्रियपर्यंत शेष जीवोंके क्रमानुसार एक एक प्राण घटता हुआ है । २ । इन दो गाथाओंद्वारा कहे हुए क्रमसे यथासंभव इन्द्रियादि दश प्राण समझने चाहिये । यहांपर कथनका अभिप्राय यह है कि इन पूर्वोक्त पर्याप्तियों तथा प्राणोंसे भिन्न जो अपना शुद्ध आत्मतत्त्व है उसको ग्रहण करना चाहिये ॥१२॥

अथ शुद्ध पारिणामिक परम भावका ग्राहक जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है उससे सब जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभावके धारक हैं तो भी अशुद्धनयसे चौदह मार्गणास्थान और चौदह गुणस्थानोंसहित होते हैं ऐसा कथन करते हैं;—

गाथाभावार्थः—संसारी जीव अशुद्ध नयसे चौदह मार्गणास्थानोंसे तथा चौदह गुणस्थानोंसे चौदह २ प्रकारके होते हैं और शुद्धनयसे तो सब संसारी जीव शुद्ध ही हैं ।

व्याख्यानार्थः—“मग्गणगुणठाणेहि य हवंति तह विण्णेया” जिस प्रकार “समणा

संख्योपेतैः “चउदसहि” प्रत्येकं चतुर्दशभिः । कस्मात् “असुद्धणया” अशुद्धनयात् सकाशात् । इत्थंभूताः के भवन्ति । “संसारी” सांसारिजीवाः । “संवे सुद्धा हु सुद्धणया” त एव सर्वे संसारिणः शुद्धाः सहजशुद्धज्ञायकैकस्वभावाः । कस्मात् शुद्धनयात् शुद्धनिश्चयनयादिति । अथागमप्रसिद्धगाथाद्वयेन गुणस्थाननामानि कथयति । “मिच्छो सासणमिस्सो अविरदसम्मो य देसविरदोय । विरया पमत्त इयरो अपुंवं अणियट्ठि सुहमो य । १ । उवसंतखीणमोहो सजोगिकेवलजिणो अजोगीया । चउदसगुणठाणाणि य कमेण सिद्धा य णायठ्वा । २ ।” इदानीं तेषामेव गुणस्थानानां प्रत्येकं संक्षेपलक्षणं कथ्यते । तथाहि—सहजशुद्धकेवलज्ञानदर्शनरूपाखण्डैकप्रत्यक्षप्रतिभासमयनिजपरमात्मप्रभृतिषड्द्रव्यपञ्चास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थेषु मूढत्रयादिपञ्चविंशतिमलरहितं वीतरागसर्वज्ञप्रणीतनयविभागेन यस्य श्रद्धानं नास्ति स मिथ्यादृष्टिर्भवति । पापाणरेखासदृशानन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभान्यतरोदयेन प्रथममौपशमिकसम्यक्त्वात्पतितो मिथ्यात्वं नाद्यापि गच्छतीत्यन्तरालवर्त्ती सासादनः । निजशुद्धात्मादितत्त्वं वीतरागसर्वज्ञप्रणीतं परप्रणीतं

अमणा” इत्यादि पूर्व गाथाभेमें कहे हुये चतुर्दश १४ जीवसमासोंसे जीवोंके चतुर्दश १४ भेद होते हैं उसी प्रकार मार्गणा और गुणस्थानोंसे भी होते हैं, ऐसा जानना चाहिये । कितनी संख्याके धारक मार्गणा और गुणस्थानोंसे होते हैं? “चउदसहि” प्रत्येक चतुर्दश १४ संख्याके धारकोंसे । किस अपेक्षासे ? “असुद्धणया” अशुद्ध नयकी अपेक्षासे । चतुर्दश मार्गणा और चतुर्दश गुणस्थानोंसे अशुद्ध नयकी अपेक्षा चौदह चौदह प्रकारके होनेवाले कौन हैं ? “संसारी” संसारी जीव हैं । “संवे सुद्धा हु सुद्धणया” वेही सब संसारी जीव शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षासे शुद्ध अर्थात् स्वभावसे उत्पन्न जो शुद्ध ज्ञायक (जाननेवाला) रूप एक स्वभाव उसके धारक हैं । अब शास्त्रोंमें प्रसिद्ध जो दो गाथा हैं, उनके द्वारा गुणस्थानोंके नाम कहते हैं । गाथार्थः— “मिथ्यात्व १ सासादन २ मिश्र ३ अविरतसम्यक्त्व ४ देशविरत ५ प्रमत्तविरत ६ अप्रमत्तविरत ७ अपूर्वकरण ८ अनिवृत्तिकरण ९ सूक्ष्मसांपराय १० उपशान्तमोह ११ क्षीणमोह १२ सयोगि केवलजि जिन १३ और अयोगि केवलजि जिन १४, इस प्रकार क्रमानुसार चौदह गुणस्थान जानने चाहिये । २ ।” अब इन गुणस्थानोंमेंसे प्रत्येकका संक्षेप लक्षण कहते हैं,—जैसे स्वाभाविक शुद्ध केवल ज्ञान और केवल दर्शनरूप जो अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभास है तादृश प्रत्यक्ष प्रतिभासमय जो निजपरमात्मा (अपना शुद्ध जीव) वह है आदिमें जिसके ऐसे जो षट् द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात सत्त्व और नव पदार्थ उनमें तीन मूढता आदि पचीस २५ मल (दोष) रहितत्वपूर्वक वीतराग सर्वज्ञ द्वारा कहे हुये नयविभागसे जिस जीवके श्रद्धान नहीं है वह जीव मिथ्यादृष्टि होता है । १ । पापाणरेखा (पत्यरमें की हुई लकीर) के समान जो अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और होम ये चार कपाय हैं; उनमेंसे किसी एकके उदयसे प्रथम जो औपशमिक सम्यक्त्व

च मन्यते यः स दर्शनमोहनीयभेदमिश्रकर्मोदयेन दधिगुडमिश्रभाववत् मिश्रगुणस्थान-
वर्त्ती भवति । अथ मत्तं-येन केनाप्येकेन मम देवेन प्रयोजनं तथा सर्वं देवा वन्दनीया न
च निन्दनीया इत्यादिवैतन्यिकमिथ्यादृष्टिः संशयमिथ्यादृष्टिर्वा तथा मन्यते तेन सह
सम्यग्मिथ्यादृष्टेः को विशेष इति । अत्र परिहारः—“स सर्वदेवेषु सर्वसमयेषु च भक्ति-
परिणामेन येन केनाप्येकेन मम पुण्यं भविष्यतीति मत्वा संशयरूपेण भक्तिं कुरुते
निश्चयो नास्ति । मिश्रस्य पुनरुभयत्र निश्चयोऽस्तीति विशेषः । स्वाभाविकानन्तज्ञाना-
द्यनन्तगुणाधारभूतं निजपरमात्मद्रव्यमुपादेयम्, इन्द्रियसुखादिपरद्रव्यं हि हेयमित्यह-
स्वर्वाङ्गप्रणीतनिश्चयव्यवहारनयसाध्यसाधकभावेन मन्यते परं किन्तु भूमिरेखादिसदृश-
क्रोधादिद्वितीयकपायोदयेन मारणनिमित्तं तलवरगृहीततस्करवदात्मनिन्दादिसहितः सन्नि-
न्द्रियसुखमनुभवतीत्यविरतसम्यग्दृष्टेर्लक्षणम् । यः पूर्वोक्तप्रकारेण सम्यग्दृष्टिः सन्
भूमिरेखादिसमानक्रोधादिद्वितीयकपायोदयाभावे सत्यभ्यन्तरे निश्चयनयेनैकदेशरागादि-
रहितस्वाभाविकसुखानुभूतिलक्षणेपु वहिर्विषयेषु पुनरेकदेशहिंसानृतास्तेयाब्रह्मपरिग्रहनि-

है उससे जीव गिरके जवतक मिथ्यात्वको प्राप्त न हो तवतक सम्यक्त्व और मिथ्यात्व
इन दोनोंके बीचमें विद्यमान जो जीव है वह सासादन है । २ । जो अपने शुद्ध आत्मा
आदि तत्त्वको धीतराग सर्वज्ञका कहा हुआ भी मानता है और अन्य मतके आचार्योंद्वारा
कहा हुआ भी मानता है वह दर्शनमोहनीय कर्मका भेद जो मिश्रकर्म है उसके उदयसे
दही और गुड़ मिले हुए पदार्थकी भांति तीसरा जो मिश्रगुणस्थानहै उसमें रहनेवाला जीव
है । ३ । अब कोई शंका करे कि चाहे जिससे हो सुझे तो एक देवसे प्रयोजन है अथवा
सब देवोंकी वन्दना करनी योग्य है, निन्दा किसीभी देवकी न करनी चाहिये” इस प्रकार
वैतन्यिक मिथ्यादृष्टि और संशयमिथ्यादृष्टि मानता है तब उसके साथ मिश्रगुणस्थानवर्त्ती
सम्यग् मिथ्यादृष्टिका क्या भेद है अर्थात् वैतन्यिक वा संशयमिथ्यादृष्टिमें और सम्यग्मिथ्या-
दृष्टिमें क्या भेद है जिससे उसको जुदा कहा ? इस शंकाका खण्डन यह है कि-वैतन्यिक
मिथ्यादृष्टि अथवा संशयमिथ्यादृष्टि तो संपूर्ण देवोंमें तथा सब शास्त्रोंमें किसी एककी
भक्तिके परिणामसे सुझे पुण्य होगा अर्थात् इन सबकी सेवा करनेसे किसी एककी तो सेवा
सफल होगी ऐसा मानकर संशयरूपसे भक्ति करता है; क्योंकि, उसको किसी देवमें निश्चय
नहीं है कि यह सत्य है और मिश्रगुणस्थानवर्त्ती जीवके दोनोंमें निश्चय है । वस, यही
विशेष है । जो स्वभावसे उत्पन्न जो अनन्त ज्ञान आदि अनन्त गुण हैं उनका आधारभूत
निज परमात्मद्रव्य तो उपादेय है और इंद्रियोंके सुख आदि परद्रव्य हेय (त्याज्य) हैं
ऐसे अर्हत् सर्वज्ञ देवसे प्रणीत निश्चय तथा व्यवहारनयको साध्य साधक भावसे मानता
है, परन्तु भूमिकी रेखाके तुल्य क्रोध आदि द्वितीय कपायभेदके अर्थात् प्रत्याख्यानकपायके
उदयसे मारनेके लिये कौतवालसे पकड़े हुए चोरकी भांति आत्मनिन्दादि सहित होकर
इन्द्रियोंके सुखोंका अनुभव करता है वह अबिरत सम्यग्दृष्टि नामक चतुर्थ गुणस्थानवर्त्ती

द्वितीयकषयाद्येकविंशतिभेदभिन्नचारित्रमोहप्रकृतीनामुपशमक्षपणसमर्था नवमगुणस्थान-
वर्त्तिनो भवन्ति । ९ । सूक्ष्मपरमात्मतत्त्वभावनावलेन सूक्ष्मक्लिष्टगतलोभकषायस्योपश-
मकाः क्षपकाश्च दशमगुणस्थानवर्त्तिनो भवन्ति । १० । परमोपशममूर्त्तिनिजात्मस्वभाव-
संवित्तिवलेन सकलोपशान्तमोहा एकादशगुणस्थानवर्त्तिनो भवन्ति । ११ । उपशमश्रेणि-
विलक्षणेन क्षपकश्रेणिमार्गेण निष्कषायशुद्धात्मभावनावलेन क्षीणकषया द्वादशगुणस्था-
नवर्त्तिनो भवन्ति । १२ । मोहक्षपणानन्तरमन्तमुहूर्त्तकालं स्वशुद्धात्मसंवित्तिलक्षणैकत्व-
वित्तर्कविचारद्वितीयशुक्लध्याने स्थित्वा तदन्त्यसमये ज्ञानावरणदर्शनावरणान्तरायत्रयं
युगपदेकसमयेन निर्मूल्य मेघपञ्जरविनिर्गतदिनकर इव सकलविमलकेवलज्ञानकिरणै-
र्लोकालोकप्रकाशकास्त्रयोदशगुणस्थानवर्त्तिनो जिनभास्करा भवन्ति । १३ । मनोवचन-
कायवर्गणालम्बनकर्मादाननिमित्तात्मप्रदेशपरिस्पन्दलक्षणयोगरहिताश्चतुर्दशगुणस्थानवर्त्ति-
नोऽयोगिजिना भवन्ति । १४ । ततश्च निश्चयरत्नत्रयात्मकारणभूतसमयसारसङ्गेन
परमयथाख्यातचारित्रेण चतुर्दशगुणस्थानातीताः ज्ञानावरणाद्यष्टकर्मरहिताः सम्यक्त्वा-
द्यष्टगुणान्तर्भूतनिर्नामगोत्राद्यनन्तगुणाः सिद्धा भवन्ति । अत्राह शिष्यः—केवलज्ञाना-

परस्पर पृथक्का करनेमें नहीं आती वे वर्ण तथा अवयवरचनाका भेद होनेपर भी अनि-
वृत्तिकरणौपशमिक क्षपक संज्ञाके धारक, द्वितीय कषाय आदि इकीस २१ भेदोंसे भिन्न
अर्थात् इकीस प्रकारकी चारित्रमोहनीय कर्मकी प्रकृतियोंके उपशमन और क्षपणमें समर्थ
नवम गुणस्थानवर्त्ती जीव हैं । ९ । सूक्ष्म परमात्मतत्त्वको भावनाके बलसे जो सूक्ष्म क्लिष्ट
गत लोभ कषायके उपशामक और क्षपक हैं वे दशम गुणस्थानवर्त्ती हैं । १० । परम उप-
शममूर्त्ति निज आत्माके स्वभावके ज्ञानके बलसे संपूर्ण मोहको उपशान्त करनेवाले ग्यार-
हवें गुणस्थानवर्त्ती जीव होते हैं । ११ । उपशमश्रेणीसे विलक्षण (भिन्नरूप) जो क्षपक
श्रेणीका मार्ग उसके द्वारा कषायोंसे रहित शुद्ध आत्माकी भावनाके बलसे क्षीण (नष्ट)
हो गये हैं कषाय जिनके ऐसे वारहवें गुणस्थानवर्त्ती जीव होते हैं । १२ । मोहके नाश
होनेके पश्चात् अन्तमुहूर्त्त कालमें ही निज शुद्ध आत्माके ज्ञानरूप एकत्र वित्तर्क विचार
संज्ञक द्वितीय शुक्ल ध्यानमें स्थित होके उसके अंतिम समयमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा
अन्तराय इन तीनोंको एक कालमें ही सर्वथा निर्मूल करके मेघपटलसे निकले हुए सूर्यके
संदृश संपूर्ण रूपसे निर्मल केवलज्ञान किरणोंसे लोक तथा अलोकके प्रकाशक तेरहवें गुण-
स्थानवर्त्ती जिन भास्कर (सूर्य) होते हैं । १३ । वेही मन, वचन और कायवर्गणाके
आलम्बनसे कर्मोंके ग्रहण करनेमें कारण जो आत्माके प्रदेशोंका परिस्पन्द (संचलन) रूप
योग है उससे रहित चौदहवें गुणस्थानवर्त्ती अयोगि जिन होते हैं । १४ ॥ और इसके
पश्चात् निश्चय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक् चारित्ररूप रत्नत्रयका कारणभूत
समयसार संज्ञक जो परम यथाख्यात चारित्र है उससे पूर्वोक्त चौदह गुणस्थानोंसे रहित,
ज्ञानावरण आदि अष्ट कर्मोंसे वजित तथा सम्यक्त्व आदि अष्ट गुणोंमें गमित तिनोम

पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतित्रसकायभेदेन पञ्चभेदा कायमार्गणा । ३ । निर्व्यापारशुद्धात्म-
पदार्थविलक्षणमनोवचनकाययोगभेदेन त्रिधाः योगमार्गणा; अथवा विस्तरेण सत्यासत्यो-
भयानुभयभेदेन चतुर्विधो मनोयोगो वचनयोगश्च, औदारिकौदारिकमिश्रवैक्रियिकवैक्रियिक-
मिश्राहारकाहारकमिश्रकर्मणकायभेदेन सप्तविधो काययोगश्चेति समुदायेन पञ्चदशविधा
वा योगमार्गणा । ४ । वेदोदयोद्भवरागादिदोषरहितपरमात्मद्रव्याद्धिन्ना स्त्रीपुंनपुंसकभेदेन
त्रिधा वेदमार्गणा । ५ । निष्कपायशुद्धात्मस्वभावप्रतिकूलक्रोधलोभमायामानभेदेन चतु-
र्विधा कषायमार्गणा, विस्तरेण कषायनोकषायभेदेन पञ्चविंशतिविधा वा । ६ । मत्यादि-
संज्ञापञ्चकं कुमत्याद्यज्ञानत्रयं चेत्यष्टविधा ज्ञानमार्गणा । ७ । सामायिकच्छेदोपस्थापन-
परिहारविशुद्धिसूक्ष्मसांपराययथाख्यातभेदेन चारित्रं पञ्चविधम्, संयमासंयमस्तथैवा-
संयमश्चेति प्रतिपक्षद्वयेन सह सप्तप्रकारा संयममार्गणा । ८ । चक्षुरचक्षुरवधिकेवलदर्श-
नभेदेन चतुर्विधा दर्शनमार्गणा । ९ । कषायोदयरञ्जितयोगप्रवृत्तिसदृशपरमात्मद्र-
व्यप्रतिपन्थिनी कृष्णनीलकापोततेजःपद्मशुक्लभेदेन षड्विधा लेश्यामार्गणा । १० ।

स्वरूपकी धारक पृथिवी, जल, तेज, वायु, वनस्पति और त्रस कायभेदसे कायमार्गणा छै
प्रकारकी होती है । ३ । व्यापाररहित शुद्ध आत्मतत्त्वसे विलक्षण मनोयोग, वचनयोग
तथा काययोग इन भेदोंसे योग मार्गणा तीन प्रकारकी है । अथवा विस्तारसे सत्यमनोयोग,
असत्यमनोयोग, सत्यासत्यमनोयोग और सत्यासत्यमनोयोगसे विलक्षण मनोयोग इन भेदोंसे
चार प्रकारका मनोयोग है । ऐसेही सत्य, असत्य, सत्यासत्य तथा सत्यासत्यविलक्षण इन
चार भेदोंसे वचनयोग भी चार प्रकारका है । एवम् औदारिक, औदारिकमिश्र, वैक्रि-
यिक, वैक्रियिकमिश्र, आहारक, आहारकमिश्र और कर्मण इन भेदोंसे काययोग सात
प्रकारका है । सब मिलके योगमार्गणा पन्द्रह प्रकारकी हुई । ४ । वेदके उदयसे उत्पन्न
होनेवाले रागादि दोषोंसे रहित जो परमात्मद्रव्य है उससे भिन्न स्त्रीवेद, पुंवेद और नपुं-
सकवेद इन भेदोंसे वेदमार्गणा तीन प्रकारकी है । ५ । कषायोंसे रहित शुद्ध आत्माके
स्वभावसे प्रतिकूल (विरुद्ध) क्रोध, मान, माया तथा लोभ इन भेदोंसे चार प्रकारकी
कषायमार्गणा है । और विस्तारसे अनन्तानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान तथा संज्वलन
भेदसे कषाय १६ और हास्यादि भेदसे नोकषाय नव ९ सब मिलके पच्चीस २५ प्रकारकी
कषायमार्गणा है । ६ । मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल ये पांच ज्ञान तथा
कुमति, कुश्रुत और विभंगावधि ये तीन अज्ञान ऐसे ८ प्रकारकी ज्ञानमार्गणा है । ७ ।
सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसांपराय तथा यथाख्यात भेदसे पांच
प्रकारका चारित्र और संयमासंयम तथा असंयम ये दो प्रतिपक्ष ऐसे संयममार्गणा सात
७ प्रकारकी है । ८ । चक्षुः, अचक्षुः, अवधि और केवलदर्शन इन भेदोंसे दर्शनमार्गणा
चार प्रकारकी है । ९ । कषायोंके उदयसे रंजित (रंगी हुई) जो काय आदि योगोंकी
प्रवृत्ति है उससे भिन्न जो शुद्ध आत्मतत्त्व है उससे विरोध करनेवाली कृष्ण, नील,

मव्याभव्यभेदेन द्विविधा भव्यमार्गणा । ११ । अत्राह शिष्यः—शुद्धपारिणामिकपरम-
भावरूपशुद्धनिश्चयेन गुणस्थानमार्गणास्थानरहिता जीवा इत्युक्तं पूर्वम्, इदानीं पुनर्भ-
व्याभव्यरूपेण मार्गणामध्येऽपि पारिणामिकभावो भणित इति पूर्वापरविरोधः । अत्र
परिहारमाह—पूर्वं शुद्धपारिणामिकभावापेक्षया गुणस्थानमार्गणानिषेधः कृतः, इदानीं
पुनर्भव्याभव्यत्वद्वयमशुद्धपारिणामिकभावरूपं मार्गणामध्येऽपि घटते । ननु—शुद्धा-
शुद्धभेदेन पारिणामिकभावो द्विविधो नास्ति किन्तु शुद्ध एव नैवं—यद्यपि सामान्यरूपे-
णोत्सर्गव्याख्यानेन शुद्धपारिणामिकभावः कथ्यते तथाप्यपवादव्याख्यानेनाशुद्धपारिणा-
मिकभावोऽप्यस्ति । तथाहि—“जीवभव्याभव्यत्वानि च” इति तत्त्वार्थसूत्रे त्रिधा पारि-
णामिकभावो भणितः, तत्र—शुद्धचैतन्यरूपं जीवत्वमविनश्वरत्वेन शुद्धद्रव्याश्रितत्वाच्छु-
द्धद्रव्यार्थिकसंज्ञः शुद्धपारिणामिकभावो भण्यते, यत्पुनः कर्मजनितदशप्राणरूपं
जीवत्वं, भव्यत्वम्, अभव्यत्वं चेति त्रयं, तद्विनश्वरत्वेन पर्यायाश्रितत्वात्पर्यायार्थिकसं-
ज्ञस्त्वशुद्धपारिणामिकभाव उच्यते । अशुद्धत्वं कथमिति चेत्—यद्यप्येतदशुद्धपारिणा-
मिकत्रयं व्यवहारेण संसारिजीवेऽस्ति तथापि “सव्वे सुद्धा हु सुद्धणया” इति वचनाच्छु-

कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल इन भेदोंसे ६ प्रकारकी लेश्यामार्गणा है । १० । भव्य और
अभव्य भेदसे भव्यमार्गणा दो प्रकारकी है । ११ । यहां शिष्य प्रश्न करता है कि “शुद्ध-
पारिणामिक परमभावरूप जो शुद्ध निश्चयनय है उसकी अपेक्षासे जीव गुणस्थान तथा
मार्गणास्थानोंसे रहित हैं” यह पूर्व प्रकरणमें आपने कहा है और अब यहां भव्य अभव्य
रूपसे मार्गणामें भी आपने पारिणामिक भाव कहा सो यह पूर्वापरविरोध है । अब इस
शंकाका परिहार (खंडन) कहते हैं कि पूर्वप्रसंगमें तो शुद्ध पारिणामिक भावकी अपेक्षासे
गुणस्थान और मार्गणास्थानका निषेध किया है और यहां अशुद्ध पारिणामिक भाव रूपसे
भव्य तथा अभव्य ये दोनों मार्गणामें भी कहे हैं सो नयभेदसे यह कथन घटता (संगत)
ही है । अब कदाचित् यह कही कि “शुद्ध अशुद्ध भेदसे पारिणामिक भाव दो प्रकारका
नहीं है किन्तु पारिणामिक भाव शुद्ध ही है” सो योग्य नहीं; क्योंकि यद्यपि सामान्यरूप
उत्सर्गव्याख्यानसे पारिणामिक भाव शुद्ध है ऐसा कहा जाता है तथापि अपवाद व्याख्या-
नसे अशुद्ध पारिणामिक भाव भी है । इसी हेतुसे “जीवभव्याभव्यत्वानि च”
अ. २ सू. ७) इस तत्त्वार्थसूत्रमें जीवत्व, भव्यत्व तथा अभव्यत्व इन भेदोंसे पारिणा-
मिक भावको तीन प्रकारका कहा है । उनमें शुद्ध चैतन्यरूप जो जीवत्व है वह अविनाशो
होनेसे शुद्ध द्रव्यके आश्रित है इस कारणसे शुद्ध द्रव्यार्थिकनामा शुद्ध पारिणामिक भाव
कहा जाता है । और जो कर्मसे उत्पन्न दश प्रकारके प्राणों स्वरूप जीवत्व है वह जीवत्व,
भव्यत्व तथा अभव्यत्व भेदसे तीन प्रकारका है और ये तीनों विनाशशील होनेसे पर्यायके
आश्रित हैं इसलिये पर्यायार्थिक संज्ञक अशुद्ध पारिणामिक भाव कहा जाता है । “इसकी
अशुद्धता किस प्रकारसे कहते हो” ऐसा कही तो उत्तर यह है कि यद्यपि ये तीनों अशुद्ध
पारिणामिक व्यवहारनयमे संसारो जीवमें हैं तथापि “सव्वे सुद्धा हु सुद्धणया” इस

द्वनिश्चयेन नास्ति त्रयं, मुक्तजीवे पुनः सर्वथैव नास्ति, इति हेतोरशुद्धत्वं भण्यते । तत्र शुद्धाशुद्धपारिणामिकमध्ये शुद्धपारिणामिकभावो ध्यानकाले ध्येयरूपो भवति ध्यानरूपो न भवति, कस्मात् ध्यानपर्यायस्य विनश्चरत्वात्, शुद्धपारिणामिकस्तु द्रव्यरूपत्वादवि-
नश्चरः इति भावार्थः । औपशमिकक्षायोपशमिकक्षायिकसम्यक्त्वभेदेन त्रिधा सम्यक्त्व-
मार्गणा मिथ्यादृष्टिसासादनमिश्रसंज्ञविपक्षत्रयभेदेन सह षड्विधा ज्ञातव्या । १२ । संज्ञि-
त्वासंज्ञित्वविसदृशपरमात्मस्वरूपाद्भिन्ना संज्ञ्यसंज्ञिभेदेन द्विधा संज्ञिमार्गणा । १३ ।
आहारकानाहारकजीवभेदेनाहारकमार्गणापि द्विधा । १४ । इति चतुर्दशमार्गणास्वरूपं
ज्ञातव्यम् । एवं “पुढविजलतेयवाऊ” इत्यादिगाथाद्वयेन, तृतीयगाथापादत्रयेण च
“गुणजीवापञ्जती पाणा सण्णा य मगगणाओय । उवओगो विय कमसो वीसं तु परुवणा
भणिया । १ ।” इति गाथाप्रभृतिकथितस्वरूपं धवलजयधवलमहाधवलप्रवन्धाभिधान-
सिद्धान्तत्रयबीजपदं सूचितम् । “सन्वे सुद्धा हु सुद्धणया” इति शुद्धात्मतत्त्वप्रकाशकं
तृतीयगाथाचतुर्थपादेन पञ्चास्तिकायप्रवचनसारसमयसाराभिधानप्राभृतत्रयस्यापि बीज-
पदं सूचितमिति । अत्र गुणस्थानमार्गणादिमध्ये केवलज्ञानदर्शनद्वयं क्षायिकसम्यक्त्व-

वचनसे ये तीनों भाव शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षासे नहीं हैं, और मुक्त जीवमें तो सर्वथा ही
नहीं हैं; इसी कारण उनकी अशुद्धता कही जाती है । उन शुद्ध तथा अशुद्ध पारिणामिक
भावोंमेंसे जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वह ध्यानके समयमें ध्येय (ध्यान करनेके
योग्य) रूप होता है और ध्यानरूप नहीं होता । क्योंकि ध्यान पर्याय विनाशशील है और
शुद्धपारिणामिक द्रव्यरूप है इस कारण अविनाशी है यह भावार्थ है । औपशमिक, क्षायो-
पशमिक तथा क्षायिक सम्यक्त्वके भेदसे सम्यक्त्वमार्गणा तीन प्रकारकी है । तथा मिथ्या-
दृष्टि, सासादन और मिश्र इन तीनों विपक्ष भेदोंसहित छे प्रकारकी भी सम्यक्त्वमार्गणा
जाननी चाहिये । १२ । संज्ञित्व तथा असंज्ञित्वसे विलक्षण जो परमात्माका स्वरूप है उससे
भिन्न संज्ञी तथा असंज्ञी भेदसे दो प्रकारकी संज्ञिमार्गणा है । १३ । और आहारक तथा
अनाहारक जीवके भेदसे आहारमार्गणा भी दो प्रकारकी समझनी चाहिये । १४ । ऐसे
चौदह मार्गणाओंका स्वरूप जानना योग्य है । इस रीतिसे “पुढविजलतेयवाऊ” इत्यादि दो
गाथाओंसे और तीसरी गाथा जो “णिक्कम्मा अट्टगुणा” इत्यादि है उसके तीन पादोंसे
“गुण जीवा पञ्जती पाणासण्णायमगगणाओय । उवओगो विय कमसो वीसं तु परुवणा भणिया”
इत्यादि गाथामें कहा हुआ स्वरूप धवल, जयधवल और महाधवल प्रवन्ध नामक जो तीन
सिद्धान्त हैं उनके बीज पदकी सूचना ग्रन्थकारने की और “सन्वे सुद्धा हु सुद्धणया” इस
तृतीय गाथाके चौथे पादद्वारा शुद्ध आत्मतत्त्वको प्रकाश करनेवाले जो पंचास्तिकाय, प्रव-
चनसार तथा समयसार नामक तीन प्राभृत (पाहुड) उनका भी बीजपद सूचित किया ।
इन गुणस्थान और मार्गणाओंके मध्यमें केवलज्ञान और केवलदर्शन ये दोनों तथा
क्षायिक सम्यक्त्व और अनाहारक शुद्ध आत्माका स्वरूप ये तो साक्षात् उपादेय हैं और

मनाहारकशुद्धात्मस्वरूपं च साक्षादुपादेयं; यत्पुनश्च शुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचर-
णलक्षणं कारणसमयसारस्वरूपं तत्तस्यैवोपादेयभूतस्य विवक्षितैकदेशशुद्धनयेन साधक-
त्वात्पारम्पर्येणोपादेयं, शेषं तु हेयमिति । यच्चाध्यात्मग्रन्थस्य बीजपदभूतं शुद्धात्मस्वरूप-
मुक्तं तत्पुनरुपादेयमेव । अनेन प्रकारेण जीवाधिकारमध्ये शुद्धाशुद्धजीवकथनमुख्यत्वेन
सप्तमस्थले गाथात्रयं गतम् ॥ १३ ॥

अथेदानीं गाथापूर्वाद्धेन सिद्धस्वरूपमुत्तराद्धेन पुनरुर्ध्वगतिस्वभावं च कथयति;—

णिक्कम्मा अट्टगुणा किंचूणा चरमदेहदो सिद्धा ।

लोयग्गठिदा णिच्चा उप्पादवएहिं संजुत्ता ॥१४॥

व्याख्या—सिद्धाः सिद्धा भवन्तीति क्रियाध्याहारः । किं विशिष्टाः “णिक्कम्मा अट्टगुणा
किंचूणा चरमदेहदा” निष्कर्माणोऽष्टगुणाः किञ्चिद्दूनाश्चरमदेहतः सकाशादिति सूत्रपू-
र्वाद्धेन सिद्धस्वरूपमुक्तम् । ऊर्ध्वगमनं कथ्यते “लोयग्गठिदा णिच्चा उप्पादवएहिं संजुत्ता”
ते च सिद्धा लोकाग्रस्थिता नित्या उत्पादन्ययाभ्यां संयुक्ताः । अतो विस्तरः । कर्मरिवि-

जो शुद्ध आत्माका सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान और आचरण करनेरूप लक्षणका धारक कारण
समयसार है वह उसी पूर्वाक्त उपादेय भूतका विवक्षित एकदेश शुद्धनयसे साधक है इस-
लिये परंपरासे उपादेय है, इनके बिना सब त्याज्य हैं; और जो अध्यात्मग्रन्थका बीज पदभूत
शुद्ध आत्माका स्वरूप है वह तो उपादेय ही है । इस प्रकारसे जीवाधिकारके मध्यमें शुद्ध
तथा अशुद्ध जीवके कथनकी मुख्यतारूप जो सप्तम स्थल है उसमें तीन गाथा समाप्त
हुई ॥ १३ ॥

अब इसके पश्चात् गाथाके पूर्वाद्धेसे तो सिद्धोंके स्वरूपका और उत्तराद्धेसे उनका जो
ऊर्ध्वगमन स्वभाव है उसका कथन करते हैं;—

गाथाभावार्थः—जो जीव ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंसे रहित हैं, सम्यक्त्व आदि आठ
गुणोंके धारक हैं तथा अन्तिम शरीरसे कुछ कम हैं वे सिद्ध हैं और ऊर्ध्वगमन स्वभावसे
लोकके अग्रभागमें स्थित हैं, नित्य हैं तथा उत्पाद और व्यय इन दोनोंसे युक्त हैं ॥ १४ ॥

व्याख्यार्थः—“सिद्धा” सिद्ध होते हैं इस रीतिसे यहाँ “भवन्ति” इस क्रियाका
अध्याहार करना चाहिये । किन् विशेषणोंसे विशिष्ट सिद्ध होते हैं “णिक्कम्मा अट्टगुणा
किंचूणा चरमदेहदो” कर्मोंसे रहित आठ गुणोंसे सहित तथा अन्तिम शरीरसे किञ्चित्
ऊन (कुछ छोटे) ऐसे सिद्ध होते हैं । इस प्रकार सूत्रके पूर्वाद्धेसे सिद्धोंका स्वरूप कहा ।
अब उनका ऊर्ध्वगमन स्वभाव कहते हैं । लोयग्गठिदा णिच्चा उप्पादवएहिं संजुत्ता”
और ये सिद्धलोकके अग्रभागमें स्थित हैं, नित्य हैं तथा उत्पाद और व्यय इनसे संयुक्त हैं ।
अब यहाँसे विस्तारपूर्वक इस गाथाकी व्याख्या करते हैं;—कर्मरूपी शत्रुओंके विध्वंस
करनेमें समर्थ अपने शुद्ध आत्माके बलसे ज्ञानावरण आदि समस्त मूल प्रकृति और

ध्वंसकस्वशुद्धात्मसंविन्नित्वेन ज्ञानावरणादिमूलोत्तरगतसमस्तकर्मप्रकृतिविनाशकत्वादष्ट-
 कर्मरहिताः “सम्मत्तगणदंसणवीरियसुहुमं तहेव अत्रंगहणं । अगुरुलहुअब्बवाहं अट्ट-
 गुणां हुंति सिद्धाणं । १ ।” इति गाथाकथितक्रमेण तेषामष्टकर्मरहितानामष्टगुणाः
 कथ्यन्ते । तथाहि—केवलज्ञानादिगुणांस्पदनिजशुद्धात्मैवोपादेय इति रुचिरूपं निश्चयस-
 म्यक्त्वं यत्पूर्वं तपश्चरणावस्थायां भावितं तस्य फलभूतं समस्तजीवादितत्त्वविषये विपरी-
 ताभिनवेशरहितपरिणतिरूपं परमक्षाधिकसम्यक्त्वं भण्यते ॥ पूर्वं छद्मस्थावस्थायां भावि-
 तस्य निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानस्य फलभूतं युगपल्लोकालोकसमस्तवस्तुगतविशेषपरिच्छेदकं
 केवलज्ञानम् । निर्विकल्पस्वशुद्धात्मसत्तावलोकनरूपं यत्पूर्वं दर्शनं भावितं तस्यैव फलभूतं
 युगपल्लोकालोकसमस्तवस्तुगतसामान्यग्राहकं केवलदर्शनम् ॥ कस्मिंश्चित्स्वरूपचलनकारणे
 जाते सति घोरपरीपहोपसर्गादौ निजनिरञ्जनपरमात्मध्याने पूर्वं धैर्यमवलम्बितं तस्यैव
 फलभूतमनन्तपदार्थपरिच्छित्तिविषये खेदरहितत्वमनन्तवीर्यम् ॥ सूक्ष्मातीन्द्रियकेवलज्ञा-
 नविषयत्वात्सिद्धस्वरूपस्य सूक्ष्मत्वं भण्यते । एकदीपप्रकाशे नानादीपप्रकाशवदेकसिद्ध-
 क्षेत्रे सङ्करव्यतिकरदोषपरिहारेणानन्तसिद्धावकाशदानसामर्थ्यमवगाहनगुणो भण्यते ।

उत्तरप्रकृतियोंके विनाशक होनेसे अष्टविध कर्मोंसे रहित सिद्ध होते हैं । तथा “सम्यक्त्व,
 ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्म, अवगाहन, अगुरुलघु और अव्यावाध ये आठ गुण सिद्धोंके
 होते हैं ।” इस गाथोक्त क्रमसे उन अष्टकर्मरहित सिद्धोंके आठ गुण कहे जाते हैं । अब
 उन गुणोंको विस्तारसे दर्शाते हैं:—केवलज्ञान आदि गुणोंका स्थानरूप जो निज शुद्ध
 आत्मा है वही ग्राह्य है इस प्रकारकी रुचिरूप निश्चयसम्यक्त्व जो कि पहले तपश्चरण
 करनेकी अवस्थामें उत्पादित किया था उसका फलभूत, समस्त जीव आदि तत्त्वोंके विष-
 यमें विपरीत अभिनवेश (जो पदार्थ जिसरूप है उसके विरुद्ध आग्रह) से शून्य परिणाम-
 रूप परम क्षायिक सम्यक्त्व नामा प्रथम गुण सिद्धोंके कहा जाता है । पूर्व कालमें छद्मस्थ
 अवस्थामें भावनागोचर किये हुये विकाररहित स्वानुभवरूप ज्ञानका फलभूत एकही
 समयमें लोक तथा अलोकके संपूर्ण पदार्थोंमें प्राप्त हुए विशेषोंको जाननेवाला दूसरा केवल-
 ज्ञाननामा गुण है । संपूर्ण विकल्पोंसे शून्य निजशुद्ध आत्माकी सत्ताका अवलोकन (दर्शन)
 रूप जो पहले दर्शन भावित किया था उसी दर्शनका फलभूत, एक कालमें ही लोक अलो-
 कके संपूर्ण पदार्थोंमें प्राप्त हुए सामान्यको ग्रहण करानेवाला केवलदर्शन नामा तृतीय गुण
 है । अतिघोर परीपह तथा उपसर्ग आदिके आनेके समयमें जो पहले अपने निरञ्जन पर-
 मात्माके ध्यानमें धैर्यका अवलम्बन किया उसीका फलभूत अनन्त पदार्थोंके ज्ञानमें खेदके
 अभावरूप लक्षणका धारक चतुर्थ अनन्तवीर्यनामक गुण है । सूक्ष्म अतीन्द्रिय केवल-
 ज्ञानका विषय होनेसे सिद्धोंके स्वरूपको सूक्ष्म कहते हैं । यह सूक्ष्मत्व पंचम गुण है । एक
 दीपके प्रकाशमें जैसे अनेक दीपोंके प्रकाशका समावेश हो जाता है उसी प्रकार एक
 सिद्धके क्षेत्रमें संकर तथा व्यतिकर दोषके परिहार पूर्वक जो अनन्त सिद्धोंको अवकाश

यदि सर्वथा गुरुत्वं भवति तदा लोहपिण्डवदधः पतनं, यदि च सर्वथा लघुत्वं भवति तदा वाताहताकर्तूलवत्सर्वदैव भ्रमणमेव स्यान्न च तथा तस्माद्गुरुलघुत्वगुणोऽभिधीयते । सहजशुद्धस्वरूपानुभवसमुत्पन्नरागादिविभावरहितसुखामृतस्य यदेकदेशसंवेदनं कृतं पूर्वं तस्यैव फलभूतमव्यावाधानमनन्तसुखं भण्यते । इति मध्यमरुचिशिष्यापेक्षया सम्यक्त्वादिगुणाष्टकं भणितम् । मध्यमरुचिशिष्यं प्रति पुनर्विशेषभेदनयेन निर्गतित्वं, निरिन्द्रियत्वं, निष्कायत्वं, नियोगित्वं, निर्वदत्वं, निष्कषायत्वं, निर्नामत्वं, निर्गोत्रत्वं, निरायुष्यत्वमित्यादिविशेषगुणास्तथैवास्तित्ववस्तुत्वप्रमेयत्वादि सामान्यगुणाः स्वागमाविरोधेनानन्ता ज्ञातव्याः । संक्षेपरुचिशिष्यं प्रति पुनर्विवक्षिताभेदनयेनानन्तज्ञानादिचतुष्टयम्, अनन्तज्ञानदर्शनसुखत्रयं, केवलज्ञानदर्शनद्वयं, साक्षादभेदनयेन शुद्धचैतन्यमेवैको गुण इति । पुनरपि कथंभूताः सिद्धाः चरमशरीरात् किञ्चिद्भूता भवन्ति तत् किञ्चिद्भूतत्वं शरीरोपाङ्गजनितनासिकादिच्छिद्राणामपूर्णत्वे सति यस्मिन्नेव क्षणे सयोगिचरमसमये त्रिंशत्प्रकृत्युदयविच्छेदमध्ये शरीरोपाङ्गनामकर्मविच्छेदो जातस्तस्मिन्नेव क्षणे जातमिति ज्ञातव्यम् ।

देनेका सामर्थ्य है वही लठा अचगाहन गुण कहा जाता है । यदि सिद्धस्वरूप सर्वथा गुरु (भारी) हो तो लोहपिण्डके समान उसका अधःपतन (नीचे गिरना) ही होता रहे और यदि सर्वथा लघु (हलका) हो तो वायुसे ताडित आक वृक्षको रुईके समान उसका निरन्तर भ्रमण ही होता रहै, परन्तु सिद्धस्वरूप ऐसा नहीं है इसलिये सातवां अगुरुलघुगुण कहा जाता है । स्वभावसे उत्पन्न और शुद्ध जो आत्मस्वरूप है उससे उत्पन्न तथा राग आदि विभावोंसे रहित ऐसे सुखरूपी अमृतका जो एकदेश अनुभव पहले किया उसीका फलरूप अव्यावाध अनन्त सुख नामक अष्टम गुण सिद्धोंमें कहा जाता है । ये जो सम्यक्त्व आदि अष्ट गुण कहे गये हैं सो मध्यमरुचिके धारक शिष्योंके लिये हैं और विस्तारमें मध्यमरुचिके धारक शिष्यके प्रति तो विशेष भेदनयका अवलम्बन करनेसे गतिरहितता, इन्द्रियरहितता, शरीररहितत्व, योगरहितत्व, वेदरहितता, कषायरहितत्व, नामरहितत्व, गोत्ररहितत्व तथा आयुरहितत्व आदि विशेष गुण और इसी प्रकार अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्वादि सामान्य गुण ऐसे अपने जैनागमके अनुसार अनन्त गुण जानने चाहिये । और संक्षेपरुचि शिष्यके प्रति तो विवक्षित अभेद नयसे अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख तथा अनन्त वीर्य ये चार गुण अथवा अनन्त ज्ञान, दर्शन सुखरूप तीन गुण वा केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दो गुण हैं और साक्षात् अभेदनयसे शुद्ध चैतन्य यह एक ही गुण सिद्धोंका है । पुनः वे सिद्ध कैसे हैं इसलिये कहते हैं कि वे सिद्ध चरम (अन्तके) शरीरसे कुछ छोटे होते हैं और वह जो किंचित् उन्नता है सो शरीरोपाङ्गकर्मसे उत्पन्न नासिका आदि छिद्रोंके अपूर्ण होनेपर जिस क्षणमें सयोगिके अन्त समयमें त्रिंशत् प्रकृतियोंके उदयका नाश हुआ अन्तमें शरीरगोपाङ्गकर्मका भी विच्छेद होगया अतः उसी समय हुआ है यह जानना चाहिये । अच यहाँ

कश्चिदाह—यथा प्रदीपस्य भाजनाद्यावरणे गते प्रकाशस्य विस्तारो भवति तथा देहाभावे लोकप्रमाणेन भाव्यमिति । तत्र परिहारमाह—प्रदीपसंबन्धी योऽसौ प्रकाशविस्तारः पूर्वं स्वभावेनैव तिष्ठति पश्चादावरणं जातं जीवस्य तु लोकमात्रासंख्येयप्रदेशत्वं स्वभावो भवति यस्तु प्रदेशानां संबन्धी विस्तारः स स्वभावो न भवति । कस्मादिति चेत्, पूर्वं लोकमात्रप्रदेशा विस्तीर्णा निरावरणास्तिष्ठन्ति पश्चात् प्रदीपवदावरणं जातमेव । तत्र, किन्तु पूर्वमेवानादिसन्तानरूपेण शरीरेणावृतास्तिष्ठन्ति ततः कारणात्प्रदेशानां संहारो न भवति, विस्तारश्च शरीरनामकर्माधीन एव न च स्वभावस्तेन कारणेन शरीराभावे विस्तारो न भवति । अपरमप्युदाहरणं दीयते—यथा हस्तचतुष्टयप्रमाणवत्त्वं पुरुषेण सुष्टौ वद्धं तिष्ठति पुरुषाभावे सङ्कोचविस्तारो वा न करोति, निष्पत्तिकाले साद्रं मृन्मयभाजनं वा शुष्कं सज्जलाभावे सति; तथा जीवोऽपि पुरुषस्थानीयजलस्थानीयशरीराभावे विस्तारसंकोचौ न करोति । यत्रैव मुक्तस्तत्रैव तिष्ठतीति ये केचन वदन्ति तन्निषेधार्थं पूर्वप्रयोगादमङ्गत्वाद्बन्धच्छेदान्तथागतपरिणामाच्चेति हेतुचतुष्टयेन तथैवाविद्धकुलालचक्रवद् व्यपगतले-

कोई शंका करता है कि जैसे दीपकके आवरण करनेवाले पात्र आदिके हटा लेनेसे उस दीपकके प्रकाशका विस्तार हो जाता है उसी प्रकार देहका अभाव होनेपर सिद्धोंका आत्मा लोकप्रमाण होना चाहिये । अब इसका परिहार कहते हैं—जो यह दीपकसंबन्धी प्रकाशका विस्तार है वह तो पहले स्वभावसे ही दीपकमें रहता है और पीछे उस दीपकके आवरण होता है; और जीवके तो लोकमात्र असंख्यात प्रदेशत्व स्वभाव है और जो प्रदेशोंका विस्तार है वह स्वभाव नहीं है । कदाचित् यह कहो कि जीवके पहले लोकमात्र प्रदेश विस्तृत हुए आवरणरहित रहते हैं और फिर जैसे प्रदीपके आवरण होना है वैसेही जीव-प्रदेशोंके भी आवरण हुआ है; सो नहीं, किन्तु जीवके प्रदेश तो पूर्वकालसे ही अनादिकालसे सन्तानरूप चले आये हुये शरीरसे आवरणसहितही रहते हैं । इस हेतुसे जीवके प्रदेशोंका संहार तथा विस्तार शरीर नामक नामकर्मके आधीन ही हैं और जीवका स्वभाव नहीं है इस कारणसे जीवके शरीरका अभाव होनेपर प्रदेशोंका विस्तार नहीं होता है । इस विषयमें और भी उदाहरण देते हैं कि जैसे पुरुषको सुष्टीमें चार हाथका वस्त्र बंधा हुआ है, अब वह वस्त्र यदि पुरुष हो तब ही तो उसकी प्रेरणासे सकोच व विस्तार कर सकता है और पुरुषके अभावमें संकोच तथा विस्तार नहीं कर सकता; जैसा उस पुरुषने छोड़ा वैसाही रहता है । अथवा गीला मृत्तिकाका भाजन बनते समय तो संकोच तथा विस्तारको प्राप्त हो जाता है और जब वह शुष्क हो जाता है तब जलका अभाव होनेसे संकोच व विस्तारको नहीं प्राप्त होता है, इसी प्रकार जीव भी पुरुषके स्थानभूत अथवा जलके स्थानभूत शरीरके अभावमें संकोच विस्तारको नहीं प्राप्त होता है । अब कितनेही कहते हैं कि “जीव जिस स्थानमें कर्मोंसे मुक्त होता है वहाँही रहता है ।” इसके निषेधके लिये कहते हैं । पूर्वप्रयोगसे, असंग होनेसे, बंधका नाश होनेसे तथागतिके परि-

स्वशुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पन्नवास्तवसुखात्प्रतिपक्षभूतेनेन्द्रियसुखेनासक्तो वहिरात्मा, तद्विलक्षणोऽन्तरात्मा । अथवा देहरहितनिजशुद्धात्मद्रव्यभावनालक्षणभेदज्ञानरहितत्वेन देहादिपरद्रव्येष्वेकत्वभावनापरिणतो वहिरात्मा, तस्मात्प्रतिपक्षभूतोऽन्तरात्मा । अथवा हेयोपादेयविचारकचित्तनिर्दोषपरमात्मनो भिन्ना रागादयो दोषाः शुद्धचैतन्यलक्षण आत्मन्युक्तलक्षणेषु चित्तदोषात्मसु त्रिषु वीतरागसर्वज्ञप्रणीतेषु अन्येषु वा पदार्थेषु यस्य परस्परसापेक्षनयविभागेन श्रद्धानं ज्ञानं च नास्ति स वहिरात्मा, तस्माद्विसदृशोऽन्तरात्मेति रूपेण वहिरात्मान्तरात्मनोर्लक्षणं ज्ञातव्यम् ॥ परमात्मलक्षणं कथ्यते—सकलविमलकेवलज्ञानेन येन कारणेन समस्तं लोकालोकं जानाति व्याप्नोति तेन कारणेन विष्णुर्भण्यते । परमब्रह्मसंज्ञनिजशुद्धात्मभावनासमुत्पन्नसुखामृतवृत्तस्य सत् सर्वशीरन्भातिलोचमाभिर्देवकन्याभिरपि यस्य ब्रह्मचर्यव्रतं न खण्डितं स परमब्रह्म भण्यते । केवलज्ञानादिगुणैश्वर्ययुक्तस्य सतो देवेन्द्रादयोऽपि तत्पदाभिलाषिणः सन्तो यस्याज्ञां कुर्वन्ति स ईश्वराभिधानो भवति । केवलज्ञानशब्दवाच्यं गतं ज्ञानं यस्य स सुगतः, अथवा शोभनमविनश्वरं मुक्ति-

(यथार्थ) सुख उससे विरुद्ध जो इन्द्रियसुख उससे आसक्त वहिरात्मा है; उससे विलक्षण अन्तरात्मा है । अथवा देहरहित जो निजशुद्ध आत्मारूप द्रव्य उस आत्माद्रव्यकी भावनारूप जो भेद-ज्ञान है उससे रहित होनेके कारण देह आदि पर (अन्य) द्रव्योंमें जो एकत्व भावनासे परिणत है अर्थात् देह आदिमें यह भावना करता है कि देह आदि में ही हूं वह वहिरात्मा है । और इस वहिरात्मासे विरुद्ध अर्थात् निज शुद्ध आत्माहीको आत्मा जाननेवाला अन्तरात्मा है । अथवा हेय तथा उपादेयका विचार करनेवाला जो चित्त तथा निर्दोष परमात्मासे भिन्न राग आदि दोष और शुद्ध चैतन्यरूप लक्षणका धारक आत्मा ऐसे इन पूर्वोक्त लक्षणोंके धारक जो चित्त, दोष और आत्मा हैं इन तीनोंमें अथवा वीतराग सर्वज्ञकथित अन्य पदार्थोंमें जिसके परस्पर अपेक्षाके धारक नयोंके विभागसे श्रद्धान और ज्ञान नहीं है वह वहिरात्मा है और उस वहिरात्मासे भिन्न लक्षणका धारक अन्तरात्मा है, इस प्रकार वहिरात्मा और अन्तरात्माका लक्षण जानना चाहिये । अब परमात्माका लक्षण कहते हैं—संपूर्ण तथा निर्मल ऐसे केवलज्ञान द्वारा जिस कारणसे समस्त लोक अलोकको जानता है अर्थात् व्याप्त होता है, इस हेतुसे वह परमात्मा विष्णु कहाता है । परब्रह्म नामक निज शुद्ध आत्माकी भावनासे उत्पन्न सुखामृतसे वृत्त होनेसे सर्वशी, तिलोत्तमा तथा रंभा आदि देवकन्याओंने भी जिसके ब्रह्मचर्य व्रतको खंडित नहीं किया वह परमब्रह्म कहलाता है । केवलज्ञान आदि गुणरूप ऐश्वर्य युक्त होनेसे जिसके पदकी अभिलाषा (चाह) करते हुए देवोंके इन्द्र आदि भी जिसकी आज्ञाका पालन करते हैं, इसलिये वह परमात्मा ईश्वर इस नामका धारक होता है । केवलज्ञान इस शब्दसे वाच्य (कहने योग्य) है सु (उत्तम) गत (ज्ञान) जिसका वह सुगत है । अथवा सु कहिये शोभायमान अविनश्वर (नाशरहित) मुक्तिके स्थानको जो प्राप्त हुआ सो सुगत

रात्मावस्थायां तु वहिरात्मा भूतपूर्वन्यायेन घृतघटवत्, परमात्मस्वरूपं तु शक्तिरूपेण भाविनेगमनयेन व्यक्तिरूपेण च । परमात्मावस्थायां पुनरन्तरात्मवहिरात्मद्वयं भूतपूर्वनयेनेति । अथ त्रिधात्मानं गुणस्थानेषु योजयति । मिथ्यासासादनमिश्रगुणस्थानत्रये तारतम्यन्यूनाधिकभेदेन वहिरात्मा ज्ञातव्यः, अविरतगुस्थाने तद्योग्याशुभलेऽयापरिणतो जघन्यान्तरात्मा, क्षीणकपायगुणस्थाने पुनरुत्कृष्टः, अविरतक्षीणकपाययोर्मध्ये मध्यमः, सयोग्ययोगिगुणस्थानद्वये विवक्षितैकदेशशुद्धनयेन सिद्धसदृशः परमात्मा, सिद्धस्तु साक्षात्परमात्मेति । अत्र वहिरात्मा हेयः, उपादेयभूतस्यानन्तसुखसाधकत्वाद्न्तरात्मोपादेयः, परमात्मा पुनः साक्षादुपादेय इत्यभिप्रायः । एवं पदुद्रव्यपञ्चास्तिकायप्रतिपादकप्रथमाधिकारमध्ये नमस्कारादिचतुर्दशगाथाभिर्नवमिरन्तरस्थलैर्जीवद्रव्यकथनरूपेण प्रथमोऽन्तराधिकारः समाप्तः ॥१४॥

अतःपरं यद्यपि शुद्धबुद्धैकस्वभावं परमात्मद्रव्यमुपादेयं भवति तथापि हेयरूपस्याजीवद्रव्यस्य गाथाष्टकेन व्याख्यानं करोति । कस्मादिति चेत्—हेयतत्त्वपरिज्ञाने सति पञ्चादुपादेयस्वीकारो भवतीति हेतोः । तद्यथा—

समान और परमात्माका स्वरूप शक्तिरूपसे तथा भावी नैगम नयकी अपेक्षासे व्यक्तिरूपसे समझना चाहिए । और परमात्माकी अवस्थामें अन्तरात्मा तथा वहिरात्मा ये दोनों भूतपूर्वनयसे जानने चाहिये । अब तीनों प्रकारके आत्माओंको गुणस्थानोंमें योजित करते हैं—मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र इन तीनों गुणस्थानोंमें तारतम्य न्यूनाधिक भावसे वहिरात्मा जानना चाहिये, अविरत नाम चतुर्थ गुणस्थानमें उसके योग्य अशुद्ध लेऽयाओंसे परिणत जघन्य अन्तरात्मा है और क्षीणकपाय नामक चारहवें गुणस्थानमें उत्कृष्ट अन्तरात्मा है । अविरत और क्षीणकपाय अर्थात् चतुर्थ तथा चारहवें गुणस्थानोंके मध्यमें जो सात गुणस्थान हैं उनमें मध्यम अन्तरात्मा है तथा सयोगी और अयोगी इन दोनों गुणस्थानोंमें विवक्षित एकदेश शुद्धनयसे सिद्धके सदृश परमात्मा है और सिद्ध तो साक्षात् परमात्मा ही है । यहाँ वहिरात्मा तो हेय है और उपादेयभूत अनन्त सुखका साधक होनेसे अन्तरात्मा उपादेय है तथा परमात्मा साक्षात् उपादेय है, यह अभिप्राय है । इस प्रकार पदुद्रव्य और पञ्च अस्तिकायका प्रतिपादन करनेवाले प्रथम अधिकारमें नमस्कार गाथाको आदि ले चौदह गाथाओंसे नव ९ अन्तर (मध्य) स्थलोंद्वारा जीव द्रव्यके कथन रूपसे प्रथम अन्तर अधिकार समाप्त हुआ ॥१४॥

अब इसके पश्चात् यद्यपि शुद्धबुद्ध एक स्वभावका धारक परमात्मा द्रव्य ही उपादेय है तथापि हेयरूप जो अजीव द्रव्य है उसका आठ गाथाओंद्वारा व्याख्यान (निरूपण) करते हैं । क्योंकि पहले हेयतत्त्वका ज्ञान होनेपर पीछे उपादेय पदार्थका स्वीकार होता है । यह इस प्रकार है—

अजीवो पुण णेओ पुग्गलधम्मो अधम्म आयासं ।

कालो पुग्गल मुत्तो रूवादिगुणो अमुत्ति सेसा हु ॥ १५ ॥

व्याख्या—“अजीवो पुण णेओ” अजीवः पुनर्ज्ञेयः । सकलविमलकेवलज्ञानदर्शन-
द्रव्यं शुद्धोपयोगः, मतिज्ञानादिरूपो विकलोऽशुद्धोपयोग इति द्विविधोपयोगः, अव्यक्त-
सुखदुःखानुभवनरूपा कर्मफलचेतना, तथैव मतिज्ञानादिमनःपर्ययपर्यन्तमशुद्धोपयोग
इति, स्वेहापूर्वेष्टानिष्टविकल्परूपेण विशेषरागद्वेषपरिणामनं कर्मचेतना, केवलज्ञानरूपा
शुद्धचेतना इत्युक्तलक्षणोपयोगश्चेतना च यत्र नास्ति स भवत्यजीव इति त्रिज्ञेयः । पुनः
पश्चाज्जीवाधिकारानन्तरं “पुग्गलधम्मो अधम्म आयासं कालो” स च पुद्गलधर्माधर्मा-
काशकालद्रव्यभेदेन पञ्चधा । पूरणगलनस्वभावत्वात्पुद्गल इत्युच्यते । गतिस्थित्यवगा-
हवर्त्तनालक्षणा धर्माधर्माकाशकालाः, “पुग्गलमुत्तो” पुद्गलो मूर्त्तः । कस्मात् “रूवादि-
गुणो” रूपादिगुणसहितो यतः । “अमुत्ति सेसा हु” रूपादिगुणाभावादमूर्त्ता भवन्ति
पुद्गलान्छेषाश्चत्वार इति । तथाहि—यथा अनन्तज्ञानदर्शनसुखवीर्यगुणचतुष्टयं सर्वजीव-

गाथामावार्थः—और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल इन पांचोंको अजीव
द्रव्य जानना चाहिये । इनमें पुद्गल तो मूर्त्तिमान् है, क्योंकि रूप आदि गुणोंका धारक
है, और शेष (बाकी के) चारों अमूर्त्त हैं ॥१५॥

व्याख्यार्थः—अव जीवाधिकारके अनन्तर “अजीवो पुण णेओ” अजीव पदार्थको
वक्ष्यमाण प्रकारका जानना चाहिये । संपूर्ण रूपसे विमल अर्थात् संपूर्ण द्रव्य पर्यायका
प्रकाशक केवलज्ञान तथा दर्शन ये दोनों शुद्ध उपयोग हैं और मतिज्ञान आदिरूप विकल
अशुद्ध उपयोग है । इस रीतिसे शुद्ध तथा अशुद्ध भेदसे उपयोग दो प्रकारका है ।
अव्यक्त (अस्पष्ट) सुखदुःखानुभवस्वरूप कर्मफलचेतना तथा मतिज्ञानसे आदि लेकर मनः-
पर्यय पर्यन्त चारों ज्ञानरूप अशुद्ध उपयोग तथा निजचेष्टापूर्वक इष्ट तथा अनिष्ट रूपसे
संपूर्ण रागद्वेष रूपसे जो परिणाम हैं वह कर्मचेतना है, केवल ज्ञानरूप शुद्ध चेतना है ।
इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणका धारक उपयोग तथा चेतना ये जिसमें नहीं हैं वह अजीव है
इस प्रकार जानना चाहिये । “पुग्गल धमो अधम्म आयासं कालो” और वह अजीव पुद्गल,
धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्यके भेदसे पांच प्रकारका है । पूरण तथा गलन स्वभाव
सहित होनेसे पुद्गल कहा जाता है, अर्थात् पूर्ण करने और छोड़नेका स्वभाव जिसमें है
वह पृथिवी आदि सब पुद्गल पर्याय है । तथा क्रमसे गति, स्थिति, अवगाह और वर्त्तना
लक्षण सहित धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल ये चारों द्रव्य हैं; अर्थात् गतिलक्षण धर्म,
स्थितिलक्षण अधर्म, अवगाह देनेके लक्षणका धारक आकाश तथा वर्त्तना लक्षण युक्त
कालद्रव्य है । “पुग्गल मुत्तो” पुद्गल मूर्त्त है । क्योंकि वह “रूवादिगुणो” रूप आदि
गुणोंसे सहित है । “अमुत्ति सेसा हु” पुद्गलके विना बाकी धर्म, अधर्म, आकाश और काल
ये चारों रूप आदि गुणोंका अभाव होनेसे अमूर्त्त हैं । जैसे अनन्त ज्ञान, अनन्त

साधारणं तथा रूपरसगन्धस्पर्शागुणचतुष्टयं सर्वपुद्गलसाधारणं, यथा च शुद्धबुद्धैकस्व-
भावसिद्धजीवे अनन्तचतुष्टयमतीन्द्रियं तथैव शुद्धपुद्गलपरमाणुद्रव्ये रूपादिचतुष्टयमती-
न्द्रियं । यथा रागादिस्नेहगुणेन कर्मबन्धावस्थायां ज्ञानादिचतुष्टयस्याशुद्धत्वं तथा स्निग्ध-
रूक्षत्वगुणेन द्व्यणुकादिबन्धावस्थायां रूपादिचतुष्टयस्याशुद्धत्वं । यथा निस्नेहनिजपरमा-
त्मभावनावलेन रागादिस्निग्धत्वविनाशे सत्यन-तचतुष्टयस्य शुद्धत्वं तथा जघन्यगुणानां
बन्धो न भवतीति वचनात्परमाणुद्रव्ये स्निग्धरूक्षत्वगुणस्य जघन्यत्वे सति रूपादिचतु-
ष्टयस्य शुद्धत्वमवत्रोद्भव्यमित्याभिप्रायः ॥१५॥

अथ पुद्गलद्रव्यस्य विभावव्यञ्जनपर्यायान्प्रतिपादयति;—

सहो बंधो सुहुमो धूलो संठाण भेद तम छाया ।

उजादादवसहिया पुग्गलदव्वस्स पज्जाया ॥१६॥

व्याख्या-शब्दबन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्छायातपोद्योतसहिताः पुद्गलद्रव्यस्य
पर्याया भवन्ति । अथ विस्तरः—भापात्मकोऽभापात्मकश्च द्विविधः शब्दः । तत्रा-
क्षरानक्षरात्मकभेदेन भापात्मको द्विधा भवति । तत्राप्यक्षरात्मकः संस्कृतप्राकृतापभ्रंशपैशा-

दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य ये चारों गुण सब जीवोंमें साधारण हैं; उसी प्रकार
रूप, रस, गंध तथा स्पर्श ये चार गुण सब पुद्गलोंमें साधारण हैं । और जैसे शुद्ध बुद्ध
एक स्वभावके धारक सिद्ध जीवमें अनन्त चतुष्टय अतीन्द्रिय है; उसी प्रकार शुद्ध, पुद्गल
परमाणु द्रव्यमें रूप आदि चतुष्टय अतीन्द्रिय है । जैसे राग आदि स्नेह गुणसे कर्मबन्धा-
वस्थामें ज्ञान, दर्शन, सुख तथा वीर्य इन चारोंकी अशुद्धता है; उसी प्रकार स्निग्ध सूक्ष्मत्व
गुणसे द्व्यणुक आदि बन्धावस्थामें रूप आदि चतुष्टयकी अशुद्धता है । जैसे स्नेहरहित निज
परमात्माकी भावनाके बलसे राग आदि स्निग्धताका विनाश होनेपर अनन्त चतुष्टयका
शुद्धत्व है, वैसे "जघन्य गुणोंका बन्ध नहीं होता है", इस वचनसे परमाणु द्रव्यमें स्निग्ध
रूक्षत्व गुणकी जघन्यता होनेपर रूप आदि चतुष्टयका शुद्धत्व समझना चाहिये, यह
अभिप्राय है ॥१५॥

अब पुद्गल द्रव्यके विभाव व्यंजन पर्यायोंका प्रतिपादन करते हैं;—

गाथामावार्थः—शब्द, बन्ध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, उद्योत और
जातप इन सहित जो हैं वे सब पुद्गल द्रव्यके पर्याय हैं ॥१६॥

व्याख्यार्थः—शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान, भेद, तम, छाया, उद्योत और
जातप इन सहित पुद्गल द्रव्यके पर्याय होते हैं । अब इस विषयको विस्तारसे कहते हैं—
भापात्मक तथा अभापात्मक इस प्रकार शब्द दो प्रकारका है । उनमें भापात्मक शब्द
अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक भेदसे दो प्रकारका है । उनमें भी संस्कृत, प्राकृत तथा उनके
अपभ्रंशरूप पैशाची आदि भाषाओंके भेदसे आर्य, म्लेच्छ मनुष्योंके व्यवहारका कारण

चिकादिभाषाभेदेनार्यस्तेच्छमनुष्यादिव्यवहारहेतुर्वहुधा । अनक्षरात्मकस्तु द्वीन्द्रियादि-
तिर्यगजीवेषु सर्वज्ञदिव्यध्वनौ च । अभाषात्मकोऽपि प्रायोगिकवैश्रसिकभेदेन द्विविधः ।
“तत् वीणादिकं ज्ञेयं विततं पटहादिकम् । घनं तु कांस्यतालादि वंशादि सुपिरं विदुः
। १ ।” इति श्लोककथितक्रमेण प्रयोगे भवः प्रायोगिकश्चतुर्था भवति । विश्रसा स्वभावेन
भत्रो वैश्रसिको मेघादिप्रभवो बहुधा । किञ्च शब्दातीतनिजपरमात्मभावनाच्युतेन शब्दा-
दिमनोज्ञामनोज्ञपञ्चेन्द्रियविषयासक्तन च जीवेन यदुपार्जितं सुस्वरदुःस्वरनामकर्म तदु-
दयेन यद्यपि जीवे शब्दो दृश्यते तथापि स जीवसंयोगेनोत्पन्नत्वाद् व्यवहारेण जीव-
शब्दो भण्यते, निश्चयेन पुनः पुद्गलस्वरूप एवेति । बन्धः कथ्यते—मृत्पिण्डादिरूपेण
योऽसौ बहुधा बन्धः स केवलः पुद्गलबन्धः, यस्तु कर्मनोकर्मरूपः स जीवपुद्गलसंयोग-
बन्धः । किञ्च विशेषः—कर्मबन्धपृथग्भूतस्वशुद्धात्मभावनारहितजीवस्थानुपचरितासद् -
तव्यवहारेण द्रव्यबन्धः, तथैवाशुद्धनिश्चयेन योऽसौ रागादिरूपो भावबन्धः कथ्यते
सोऽपि शुद्धनिश्चयनयेन पुद्गलबन्ध एव । विल्वाद्यपेक्षया वदरादीनां सूक्ष्मत्वं, परमाणुः
साक्षादिति । वदराद्यपेक्षया विल्वादीनां स्थूलत्वं, जगद्व्यापिनि महास्कन्धे सर्वोत्कृष्ट-

अक्षरात्मक भेद भी अनेक प्रकारका है । और अनक्षरात्मक भेद द्वीन्द्रिय आदि त्रस जीवोंमें
तथा सर्वज्ञकी दिव्य ध्वनिमें है । अभाषात्मक शब्द भी प्रायोगिक तथा वैश्रसिक भेदसे
दो प्रकारका है । उनमें “वीणा आदिसे उत्पन्न शब्दको तत, ढोल आदिसे उत्पन्न शब्दको
वितत, मंजीरे तथा तालसे उत्पन्न हुए शब्दको घन और बांसके छिद्र आदिसे अर्थात्
वंशी आदिसे उत्पन्न शब्दको सुपिर कहते हैं,” इस श्लोकमें कथित क्रमके अनुसार प्रायो-
गिक (प्रयोगसे उत्पन्न होनेवाला) शब्द चार प्रकारका है, और विश्रसा अर्थात् स्वभावसे
उत्पन्न वैश्रसिक शब्द जो कि मेघ आदिसे उत्पन्न होता है वह अनेक प्रकारका है ।
विशेष यहां यह है कि शब्दसे रहित जो निज परमात्मा है उसकी भावनासे गिरे हुए
और शब्द आदि जो मनोज्ञ तथा असनोज्ञ पांचों इन्द्रियोंके विषय हैं उनमें आसक्त
हुए जीवने जो सुस्वर तथा दुःस्वर नामकर्मका उपार्जन किया उस कर्मके उदयसे यद्यपि
जीवमें शब्द दीख पड़ता है तथापि वह शब्द जीवके संयोगसे उपन्न होनेके कारण
व्यवहार नयसे जीवका शब्द कहा जाता है और निश्चयनसे तो वह शब्द पुद्गल स्वरूप
ही है । अब बंधका निरुग करते हैं—मृत्तिका आदिके पिंडरूपसे जो घट, गृह, मोदक
आदि बंध है वह तो केवल पुद्गलबंध ही है और जो कर्म नोकर्म रूप बंध है वह जीव
तथा पुद्गलके संयोगसे उत्पन्न बंध है । और यहांपर विशेष यह जानना चाहिये कि कर्म-
बंधसे भिन्न जो निज शुद्ध आत्मा है उसकी भावनासे रहित जीवके अनुपचरित असद्रूप
व्यवहार नयसे द्रव्य बंध है, और इसी प्रकार अशुद्ध निश्चयनयका अपेक्षासे जो यह
रागादिरूप भावबंध कहा जाता है वह भी शुद्ध निश्चयनयसे पुद्गलका ही बंध है । विल्व-
फल (विल) आदिकी अपेक्षा वदर (वीर) आदि फलोंमें सूक्ष्मता है और परमाणुमें साक्षात्

मिति । समचतुरस्रन्यग्रोधसातिककुञ्जवामनहुण्डभेदेन षट्प्रकारसंस्थानं यद्यपि व्यवहारनयेन जीवस्यास्ति तथाप्यसंस्थानाच्चित्रमत्कारपरिणतेभिन्नत्वान्निश्चयेन पुद्गलसंस्थानमेव । यद्यपि जीवादन्वयत्र वृत्तत्रिकोणचतुष्कोणादिव्यक्तान्वयस्वरूपं बहुधा संस्थानं तदपि पुद्गल एव । गोधूमैर्द्विचूर्णरूपेण घृतखण्डादिरूपेण बहुधा भेदो ज्ञातव्यः । दृष्टिप्रतिबन्धकोऽन्धकारस्तम इति भण्यते । वृक्षाद्याश्रयरूपा मनुष्यादिप्रतिबिम्बरूपा च छाया विज्ञेया । उद्योतश्चन्द्रविमाने खद्योतादितिर्यग्जीवेषु च भवति । आतप आदित्यविमाने अन्यत्रापि सूर्यकान्तमणिविशेषादौ पृथ्वीकाये ज्ञातव्यः । अयमत्रार्थः—यथा जीवस्य शुद्धनिश्चयेन स्वात्मोपलब्धिलक्षणे सिद्धस्वरूपे स्वभावव्यञ्जनपर्याये विद्यमानेऽप्यनादिकर्मबन्धवशात् स्निग्धरूक्षस्यानीयरगद्वेषपरिणामे सति स्वाभाविकपरमानन्दकैवल्यस्वस्थभावभ्रष्टस्य नरनारकादिविभावव्यञ्जनपर्याया भवन्ति तथा पुद्गलस्यापि निश्चयनयेन शुद्धपरमाणुववस्थालक्षणे स्वभावव्यञ्जनपर्याये सत्यपि स्निग्धरूक्षत्वाद्ग्रन्थो भवतीति वचनाद्भागद्वेषस्थानीयबन्धयोग्यस्निग्धरूक्षत्वपरिणामे सत्युक्तलक्षणान्छब्दादन्येऽपि आग-

सूक्ष्मता है अर्थात्-वह किसीकी अपेक्षासे नहीं है ऐसी सूक्ष्मता है । चदर आदि फलोंकी अपेक्षा त्रिल्व आदि फलोंमें स्थूलत्व (बड़ापना) है और तीन लोकमें व्याप्त महास्कन्धमें सर्वोत्कृष्ट (सबसे अधिक) स्थूलत्व है । समचतुरस्र (चतुष्कोण), न्यग्रोध, सातिक, कुञ्ज, वामन और हुंड इन भेदोंसे षट् ६ प्रकारका संस्थान यद्यपि व्यवहारनयसे जीवके है तथापि संस्थानशून्य जो चेतनचमत्कार परिणाम है उससे भिन्न होनेके कारण निश्चयकी अपेक्षासे पुद्गलका ही संस्थान है; और जो जीवसे अन्य स्थानोंमें गोल त्रिकोण, चौकोर आदि प्रकट तथा अप्रकट रूप अनेक प्रकारका संस्थान है वह भी पुद्गलमें ही है । गोधूम (गेहूँ) आदिके चूर्ण रूपसे तथा घी, खांड आदि रूपसे अनेक प्रकारका भेद जानना चाहिये । दृष्टिका प्रतिबन्धक (रोकनेवाला) जो अंधकार है उसको तम कहते हैं । वृक्ष आदिके आश्रयसे होनेवाली तथा मनुष्य आदिके प्रतिबिम्बरूप जो है वह छाया जाननी चाहिये । चन्द्रमाके विमानमें तथा खद्योत (जुगनू व आग्या) आदि तिर्यञ्च जीवोंमें उद्योत होता है । सूर्यके विमानमें तथा और इससे भिन्न जो सूर्यकान्त आदि मणिके भेद हैं उन रूप पृथ्वीकायमें आतप जानना चाहिये । यहाँपर यह आशय है कि जैसे शुद्धनिश्चयनयसे जीवके निज आत्माकी प्राप्तिरूप सिद्ध स्वरूपमें स्वभाव व्यञ्जनपर्याय विद्यमान है तो भी अनादि कालके कर्मबन्धनके वशासे पुद्गलके स्निग्ध तथा रूक्ष गुणके स्थानभूत राग द्वेष परिणाम होनेपर स्वाभाविक परमानन्दरूप स्वास्थ्य भावसे भ्रष्ट हुए जीवके मनुष्य, नारक आदि विभाव व्यंजन पर्याय होते हैं; उसी प्रकार पुद्गलके भी निश्चय नयसे शुद्ध परमाणु अवस्थारूप स्वभाव व्यंजन पर्यायके विद्यमान होते हुए भी "स्निग्ध तथा रूक्षतासे बंध होता है," इस वचनसे राग और द्वेषके स्थानको प्राप्त हुए स्निग्धत्व तथा रूक्षत्व परिणामके होनेपर पूर्वोक्त लक्षण शब्द आदिके अतिरिक्त अन्य भी

मोक्तलक्षणा आकुञ्चनप्रसारणदधिदुग्धादयो विभावव्यञ्जनपर्याया ज्ञातव्याः । एवम-
जीवाधिकारमध्ये पूर्वसूत्रोदितरूपदिगुणचतुष्टययुक्तस्य तथैवात्र सूत्रोदितशब्दादिपर्याय-
सहितस्य संक्षेपेणाणुस्कन्धभेदभिन्नस्य पुद्गलद्रव्यस्य व्याख्यानमुख्यत्वेन प्रथमस्थले गाथा-
द्वयं गतम् ॥१६॥

अथ धर्मद्रव्यमाख्यातिः—

गहपरिणयाण धम्मो पुग्गलजीवाण गमणसहयारी ।

तोयं जह मच्छाणं अच्छंताणेव सो णेई ॥१७॥

व्याख्या—गतिपरिणतानां धर्मो जीवपुद्गलानां गमनसहकारिकारणं भवति । दृष्टान्त-
माह—तोयं यथा मत्स्यानाम् । स्वयं तिष्ठतो नैव स नयति तानिति । तथाहि—यथा
सिद्धो भगवानमूर्त्तोऽपि निष्क्रियस्तथैवाप्रेरकोऽपि सिद्धवदनन्तज्ञानादिगुणस्वरूपोऽहमि-
त्यादिव्यवहारेण सविकल्पसिद्धभक्तियुक्तानां निश्चयेन निर्विकल्पसमाधिरूपस्वकीयोपा-
दानकारणपरिणतानां भव्यानां सिद्धगतेः सहकारिकारणं भवति । तथा निष्क्रियोऽमूर्त्तो-

शास्त्रोक्त लक्षणके धारक आकुञ्चन, प्रसारण, दधि, तथा दुग्ध आदि विभावव्यञ्जन-
पर्याय जानने चाहिये ॥

इस प्रकार अजीव अधिकारके मध्यमें “अज्जीवो” इत्यादि पूर्वसूत्रमें कथित रूप, रस
आदि चार गुणोंसे युक्त तथा इस “सदो वंधो” इत्यादि सूत्रमें कथित जो शब्द वंध आदि
पर्याय हैं उन सहित तथा अणु, स्कन्ध आदि भेदोंसे भिन्न जो पुद्गलद्रव्य है उसका
संक्षेपसे मुख्यपनेसे निरूपण करनेके द्वारा प्रथम स्थलमें दो गाथायें समाप्त हुई ॥१६॥

अब धर्मद्रव्यकी व्याख्या करते हैं—

गाथाभावार्थः—गति (गमनमें) परिणत जो पुद्गल और जीव हैं उनके गमनमें
धर्मद्रव्य सहकारी है, -जैसे मत्स्योंके गमनमें जल सहकारी है । और नहीं गमन करते हुए
पुद्गल और जीवोंको वह धर्मद्रव्य कदापि गमन नहीं कराता है ॥१७॥

व्याख्यार्थः—गतिमें परिणत अर्थात् गमनक्रियासहित जीव तथा पुद्गलोंके धर्म-
द्रव्य गमनमें सहकारी कारण अर्थात् गतिमें सहायक होता है । इसमें दृष्टान्त देते हैं कि
जैसे मत्स्योंके गमन करनेमें जल सहायक है । परन्तु स्वयं ठहरे हुए जीव पुद्गलोंको वह
धर्मद्रव्य गमन नहीं कराता है । अब इस विषयको अन्य दृष्टान्त द्वारा पुष्ट करते हैं । जैसे
सिद्ध भगवान् अमूर्त्त हैं, क्रियारहित हैं तथा किसीको प्रेरणा करनेवाले भी नहीं हैं; तो भी
“मैं सिद्धोंकी भांति अनन्त ज्ञान आदि गुणरूप हूँ” इत्यादि व्यवहारसे सविकल्प सिद्ध-
भक्तिके धारक और निश्चयसे निर्विकल्प ध्यानरूप अपने उपादान कारणसे जो परिणत हैं ऐसे
भव्यजायोंके वे सिद्ध भगवान् सिद्ध गतिमें सहकारी कारण होते हैं । इसी प्रकार क्रिया-
रहित, अमूर्त्त और प्रेरणारहित जो धर्मास्तिकाय-है वह भी अपने अपने उपादान कार-

निष्प्रेरकोऽपि धर्मास्तिकायः स्वकीयोपादानकारणेन गच्छतां जीवपुद्गलानां गतेः सहकारिकारणं भवति । लोकप्रसिद्धदृष्टान्तेन तु मत्स्यादीनां जलादिवदित्यभिप्रायः ॥ एवं धर्मद्रव्यव्याख्यानरूपेण गाथा गता ॥१७॥

अथ धर्मद्रव्यमुपदिशति;—

ठाणजुदाण अधम्मो पुग्गलजीवाण ठाणसहयारो ।

छाया जह पहियाणं गच्छंता णेव सो धरई ॥ १८ ॥

व्याख्या-स्थानयुक्तानामधर्मः पुद्गलजीवानां स्थितेः सहकारिकारणं भवति । तत्र दृष्टान्तः—छाया यथा पथिकानाम् । स्वयं गच्छतो जीवपुद्गलान्स नैव धरतीति । तद्वथा—स्वसंवित्तिसमुत्पन्नसुखामृतरूपं परमस्वास्थ्यं यद्यपि निश्चयेन स्वरूपे स्थितिकारणं भवति तथा “सिद्धोऽहं सुद्धोऽहं अणंतपाणादिगुणसमिद्धोऽहं । देहपमाणो णिच्चो असंखदेसो अमुत्तो य । १ ।” इति गाथाकथितसिद्धभक्तिरूपेणैव पूर्व सविकल्पावस्थायां सिद्धोऽपि यथा भव्यानां बहिरङ्गसहकारिकारणं भवति तथैव स्वकीयोपादानकारणेन स्वयमेव तिष्ठतां जीवपुद्गलानामधर्मद्रव्यं स्थितेः सहकारिकारणम् । लोकव्यवहारेण तु छायावद्वा पृथिवीवद्वेति सूत्रार्थः ॥ एवमधर्मद्रव्यकथनेन गाथा गता ॥१८॥

गोसे गमन करते हुए जीव और पुद्गलोंके गमनका सहकारी कारण होता है । लोकमें प्रसिद्ध ऐसे दृष्टान्तसे तो जैसे मत्स्य आदिके गमनमें जल आदि सहकारी कारण हैं वैसे ही जीव पुद्गलके गमनमें धर्मद्रव्य सहकारी कारण हैं ऐसा जानना चाहिये । यह अभिप्राय है ॥ इस प्रकार धर्मद्रव्यके व्याख्यान रूपसे यह गाथा समाप्त हुई ॥१७॥

अथ अधर्मद्रव्यका उपदेश करते हैं;—

गाथाभावार्थः—स्थितिसहित जो पुद्गल और जीव हैं उनको स्थितिमें सहकारी कारण अधर्म द्रव्य है, जैसे पथिकों (वटोहियों) की स्थितिमें छाया सहकारी है । और गमन करते हुए जीव तथा पुद्गलोंको वह अधर्म द्रव्य नहीं ठहराता है ॥१८॥

व्याख्यार्थः—स्थितिसहित जो पुद्गल तथा जीव हैं उनको स्थितिमें सहकारी कारण अधर्म द्रव्य है । उसमें दृष्टान्त—जैसे छाया पथिकोंकी स्थितिमें सहकारी कारण है । और स्वयं गमन करते हुए जीव पुद्गलोंको वह अधर्म द्रव्य कदापि नहीं ठहराता है । सो ऐसे हैं—यद्यपि निश्चयसे अपने आत्मज्ञानसे उत्पन्न सुखामृतरूप जो परमस्वास्थ्य है वह निजरूपमें स्थितिका कारण होता है; परन्तु “मैं सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, अनन्त ज्ञान आदि गुणोंका धारक हूँ, शरीरप्रमाण हूँ, नित्य हूँ, असंख्यात प्रदेशोंका धारक हूँ तथा अमूर्त हूँ । १ ।” इस गाथामें कही हुई सिद्धभक्तिके रूपसे इस संसारमें पहले सविकल्प अवस्थामें सिद्ध भो जैसे भव्य जीवोंके बहिरंग सहकारी कारण होते हैं उसी प्रकार अपने उपादान कारणसे स्वयं ही ठहरते हुए जीव पुद्गलोंके अधर्म द्रव्य स्थितिका सहकारी

तिष्ठन्ति तथाप्युपचरितासद्गतव्यवहारेण लोकाकाशे तिष्ठन्तीत्यभिप्रायो भगवतां श्रीने-
मिचन्द्रसिद्धान्तदेवानामिति ॥१९॥

तमेव लोकाकाशं विशेषेण दृश्यति;—

धर्माऽधर्मा कालो पुद्गलजीवा य संति जावदिये ।

आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्तो ॥२०॥

व्याख्या—धर्माधर्मकालपुद्गलजीवाश्च सन्ति यावत्याकाशे स लोकः । तथा चोक्तं—
लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादिपदार्था यत्र स लोक इति । तस्मान्नोकाकाशात्परतो वहिर्भागे
पुनरनन्ताकाशमलोक इति । अत्राह मोमाभिधानो राजश्रेष्ठो । हे भगवन् ! केवलज्ञान-
स्यानन्तभागप्रमितमाकाशद्रव्यं तस्याप्यनन्तभागे सर्वमध्यमप्रदेशे लोकस्तिष्ठति । स
चानादिनिधनः केनापि पुरुषविशेषेण न कृतो न हृतो न धृतो न च रक्षितः । तथैवासं-
ख्यातप्रदेशस्तत्रासंख्यातप्रदेशे लोकेऽनन्तजीवास्तेभ्योऽप्यनन्तगुणाः पुद्गलाः, लोकाकाश-
प्रमितासंख्येयकालाणुद्रव्याणि प्रत्येकं लोकाकाशप्रमाणं धर्माधर्मद्वयमित्युक्तलक्षणाः
पदार्थाः कथमवकाशं लभन्त इति ? भगवानाह—एकप्रदीपप्रकाशे नानाप्रदीपप्रकाशव-

गमन कर मुक्त जीव जिस हेतुसे लोकके अग्रभागमें जाके निवास करते हैं उस हेतुसे
लोकका जो अग्रभाग है वह भी उपचारसे मोक्ष कहलाता है । जैसे कि तीर्थभूत पुरुषोंकरके
सेवित भूमि तथा जल आदिरूप स्थान भी उपचारसे तीर्थ होता है । यह वर्णन यहाँपर
शिष्योंको सुखसे समझानेके लिए किया गया है । जैसे सिद्ध निजप्रदेशोंमें रहते हैं उसी
प्रकार निश्चयनयसे यद्यपि सभी द्रव्य अपने अपने प्रदेशोंमें स्थित रहते हैं, तथापि उप-
चरित असद्गत व्यवहार नयसे लोकाकाशमें सब द्रव्य तिष्ठते हैं ऐसा यहाँपर भगवान्
श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीका अभिप्राय जानना चाहिये ॥१९॥

अब उसी लोकाकाशको विशेषणरूपसे दृढ़ करते हैं;—

गाथाभावार्थः—धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल और जीव ये पाँचों द्रव्य जितने आका-
शमें हैं वह तो लोकाकाश है और उस लोकाकाशके आगे अलोकाकाश है ॥२०॥

व्याख्यार्थः—धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल तथा जीव ये पाँचों द्रव्य जितने आकाशके
भागमें रहते हैं उतने आकाशके भागका नाम लोक अथवा लोकाकाश है । ऐसा कहा भी
है कि—जहाँपर जीव आदि पदार्थ देखनेमें आते हैं वह लोक है । उस लोकाकाशसे परे
अर्थात् वाह्य भागमें जो अनन्त आकाश है वह अलोक अथवा अलोकाकाश है । अब
यहाँपर मोम है नाम जिसका ऐसा राजश्रेष्ठो प्रश्न करता है कि हे भगवन् ! केवल ज्ञानका
जो अनन्त भाग है उस प्रमाण तो आकाश द्रव्य है और उस आकाशके अनन्त भागों-
मेंसे एक भागमें सबके विचले भागमें लोक है और वह लोक आदि तथा अनन्तसे रहित
है, न किसी पुरुषका बनाया हुआ है, न किसीसे विनाशित है, न किसीसे धारण किया

देकगूढरसनागगद्याणके बहुसुवर्णवद्भस्मघटमध्ये सूचिकोपद्रुग्धवद्रित्यादिदृष्टान्तेन विशिष्टावगाहनशक्तिवाशदसंख्यातप्रदेशेऽपि लोकेऽवस्थानमवगाहो न विरुध्यते । यदि पुनरित्यंभूतावगाहनशक्तिर्न भवति तर्ह्यसंख्यातप्रदेशेष्वसंख्यातपरमाणूनामेव व्यवस्थानं, तथा सति सर्वे जीवा यथा शुद्धनिश्चयेन शक्तिरूपेण निरावरणाः शुद्धबुद्धैकस्वभावास्तथा व्यक्तिरूपेण व्यवहारनयेनापि, न च तथा प्रत्यक्षविरोधादागमविरोधाच्चेति । एवमाकाशद्रव्यप्रतिपादनरूपेण सूत्रद्वयं गतम् ॥२०॥

अथ निश्चयव्यवहारकालस्वरूपं कथयति;—

दन्वपरिवट्टरूवो जो सो कालो हवेइ ववहारो ।

परिणामादीलक्खो वट्टणलक्खो य परमट्टो ॥२१॥

व्याख्या—“दन्वपरिवट्टरूवो जो” द्रव्यपरिवर्त्तरूपो यः “सो कालो हवेइ ववहारो” स कालो भवति व्यवहाररूपः । स च कथंभूतः “परिणामादीलक्खो” परिणामक्रिया-

हुआ है और न किसीसे रक्षा किया हुआ है । और असंख्यात प्रदेशोंका धारक है । उस असंख्यात प्रदेशोंके धारक लोकमें अनन्तों जीव, अनन्त गुणे पुद्गल, लोकाकाश-प्रमाण-असंख्यात कालाणु द्रव्य, लोकाकाश प्रमाण धर्मद्रव्य तथा लोकाकाश प्रमाण ही अधर्मद्रव्य इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणके धारक पदार्थ कैसे अवकाशको प्राप्त होते हैं ? इस शंकाका उत्तर कृपा कर दीजिये । अब भगवान् इसके उत्तरमें कहते हैं कि जैसे एक दीपकके प्रकाशमें अनेक दीपोंका प्रकाश अवकाशको पाता है उस तरह, अथवा जैसे एक गूढ़ रसविशेषसे भरे हुए शीशेके भांडमें बहुतसा सुवर्ण अवकाश पाता है उस प्रकार, अथवा भस्मसे भरे हुए घटमें जैसे सूई और ऊंटनीका दूध आदि समाजाते हैं उस प्रकार विशिष्ट अवगाहन शक्तिके वशसे असंख्यात प्रदेशवाले लोकमें पूर्वोक्त जीव पुद्गलादिकोंका रहना विरोधको प्राप्त नहीं होता । और यदि इस प्रकार अवगाहनशक्ति न हो तो लोकके असंख्यात प्रदेशोंमें असंख्यात परमाणुओंका ही निवास हो । और ऐसा होनेपर जैसे शक्तिरूप शुद्ध निश्चयनयसे सब जीव आवरणरहित तथा शुद्ध बुद्ध एक स्वभावके धारक हैं; वैसेही व्यक्ति-रूप व्यवहारनयसे भी हो जाँय; और ऐसे हैं नहीं । क्योंकि इस माननेमें प्रत्यक्षसे और आगमसे विरोध है ॥ इस प्रकार आकाश द्रव्यके निरूपणसे दो सूत्र चरितार्थ हुए ॥२०॥

अथ निश्चयकाल तथा व्यवहारकालके स्वरूपका वर्णन करते हैं;—

गाथामावार्थः—जो द्रव्योंके परिवर्त्तन रूप, परिणाम रूप देखा जाता है वह तो व्यवहारकाल है और वर्त्तना लक्षणका धारक जो काल है वह निश्चयकाल है ॥२१॥

व्याख्यार्थः—“दन्वपरिवट्टरूवो जो” जो द्रव्य परिवर्त्तरूप है “सो कालो हवेइ ववहारो” वह व्यवहाररूप काल होता है । और वह कैसा है कि “परिणामादीलक्खो”

परत्वापरत्वेन लक्ष्यते इति परिणामादिलक्ष्यः । इदानीं निश्चयकालः कथ्यते—“वट्टण-
त्वखो य परमट्टो” वर्त्तनालक्षणञ्च परमार्थकाल इति । तद्यथा—जीवपुद्गलयोः परिचर्त्तो
नवजीर्णपर्यायस्तस्य या समयघटिकादिरूपा स्थितिः स्वरूपं यस्य स भवति द्रव्यपर्याय-
रूपो व्यवहारकालः । तथा चोक्तं संस्कृतप्राभृतेन—“स्थितिः कालसंज्ञका” तस्य पर्या-
यस्य संबन्धिनी याऽसौ समयघटिकादिरूपा स्थितिः सा व्यवहारकालसंज्ञा भवति न
च पर्याय इत्यभिप्रायः । यत एव पर्यायसंबन्धिनी स्थितिव्यवहारकालसंज्ञा भजते तत
एव जीवपुद्गलसंबन्धिपरिणामेन पर्यायेण तथैव देशान्तरचलनरूपया गोदोहनपाकादि-
परिस्पन्दलक्षणरूपया वा क्रियया तथैव दूरसन्नचलनकालकृतपरत्वापरत्वेन च लक्ष्यते
ज्ञायते यः स परिणामक्रियापरत्वापरत्वलक्षण इत्युच्यते । अथ द्रव्यरूपनिश्चयकालमाह ।
स्वकीयोपादानरूपेण स्वयमेवपरिणममानानां पदार्थानां कुम्भकारचक्रस्याधस्तनशिलावत्,
शीतकालाध्ययने अग्निवत्, पदार्थपरिणतेर्यत्सहकारित्वं सा वर्त्तना भण्यते । सैव लक्षणं
यस्य स वर्त्तनालक्षणः कालाणुद्रव्यरूपो निश्चयकालः । इति व्यवहारकालस्वरूपं निश्चय-
कालस्वरूपं च विज्ञेयम् । कश्चिदाह “समयरूप एव निश्चयकालस्तस्मादन्यः कालाणुद्र-
व्यरूपो निश्चयकालो नास्त्यदर्शनात् ।” तत्रोत्तरं दीयते—समयस्तावत्कालस्तस्यैव पर्यायः ।

परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्वसे जाना जाता है, इसलिये परिणामादिलक्ष्य है । अब निश्च-
यकालका कथन करते हैं । “वट्टणलखो य परमट्टो” जो वर्त्तनालक्षण काल है वह
परमार्थ (निश्चय) काल है ॥ अब इस व्यवहार तथा निश्चयकालका विस्तारसे वर्णन इस
प्रकार है, जैसे—जीव तथा पुद्गलका परिवर्त्त जो नूतन तथा जीर्ण पर्याय है उस पर्यायको
जो समय, घटिका आदिरूप स्थिति है वही जिसका स्वरूप है वह द्रव्यपर्यायरूप व्यवहार-
काल है । सोही संस्कृतप्राभृतेने कहा भी है कि “स्थिति जो है वह कालसंज्ञक है” ।
तात्पर्य यह है कि उस द्रव्यके पर्यायसे संबन्ध रखनेवाली जो समय, घटिका आदिरूप
स्थिति है वह स्थिति ही “व्यवहारकाल” इस संज्ञाकी धारक होती है और वह जो
द्रव्यका पर्याय है सो व्यवहारकाल संज्ञाको नहीं धारण करता । और जो पर्यायसंबन्धिनी
स्थिति “व्यवहारकाल” इस नामको धारण करती है इसी कारणसे जीव तथा पुद्गल
संबन्धी परिणाम रूप पर्यायसे, तथा देशान्तरमें संचलन रूप अथवा गोदोहन, पाक आदि
परिस्पन्द लक्षणको धारक क्रियासे तथा दूर वा समीप देशमें चलन रूप कालकृत परत्व
तथा अपरत्वसे यह काल जाना जाता है, इसीलिये वह काल, परिणाम, क्रिया, परत्व
तथा अपरत्व लक्षणका धारक कहा जाता है । अब द्रव्यरूप निश्चयकालका कथन करते
हैं । अपने अपने उपादानरूप कारणसे स्वयं ही परिणमनको प्राप्त होते हुए पदार्थोंके जैसे
कुम्भकारके चक्र (चाक) के भ्रमणमें उसके नीचेकी शिला सहकारिणी है उस प्रकार,
अथवा शीतकाल (जाड़े) के पड़नेमें अग्नि सहकारी है उस प्रकार जो पदार्थपरिणतिमें
सहकारिता है उसीको वर्त्तना कहते हैं; और वह वर्त्तना ही है लक्षण जिसका सो वर्त्तना

पुद्गलपरमाणुनयनपुटविघटनजलभाजनपुरुषव्यापारादिदिनकरविम्बरूपैः पुद्गलपर्यायैरु-
पादानभूतैः समुत्पन्नानां समयनिमित्तघटिकादिकालपर्यायाणामपि शुक्लकृष्णादिगुणाः
प्राप्नुवन्ति न च तथा । उपादानकारणसदृशं कार्यमिति वचनात् । किं बहुना । योऽसा-
धनाद्यनिधनस्तथैवामूर्त्तौ नित्यः समयाद्युपादानकारणभूतोऽपि समयादिविकल्परहितः
कालानुद्भव्यरूपः स निश्चयकालो, यस्तु सादिसान्तसमयघटिकाप्रहरादिविवक्षितव्यवहा-
रविकल्परूपं परतस्यैव द्रव्यकालस्य पर्यायभूतो व्यवहारकाल इति । अयमत्र भावः—
यद्यपि काललब्धिबशेनानन्तसुखभाजनो भवति जीवस्तथापि विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनि-
जपरमात्मतत्त्वस्य सम्यक्श्रद्धानज्ञानानुष्ठानसमस्तवह्निद्रव्येच्छानिघृत्तिलक्षणतपश्चरणरूपा
या निश्चयचतुर्विधाराधना सैव तत्रोपादानकारणं ज्ञातव्यं न च कालस्तेन स हेय इति ॥२१॥

अथ निश्चयकालस्यावस्थानक्षेत्रं द्रव्यगणनां च प्रतिपादयति;—

लोयार्यासपदेसे इक्षिके जे ठिया हु इक्षिका ।

रयणाणं रासी इव ते कालाणू असंखदब्बाणि ॥२२॥

तन्दुल (चावल) रूप उपादान कारणसे उत्पन्न जो ओदन (भात) पर्याय हैं उसके निज
उपादान कारणमें प्राप्त गुणोंके समान ही शुक्ल, कृष्ण आदि वर्ण, अच्छा वा बुरा गन्ध,
चिकना अथवा रूखा आदि स्पर्श, मधुर आदि रस, इत्यादि विशेष गुण देख पड़ते हैं;
वैसे ही पुद्गल परमाणु, नयनपुटविघटन, जलभाजन, पुरुषव्यापार आदि तथा सूर्यका
विम्ब इन रूप जो उपादानभूत पुद्गलपर्याय हैं उनसे उत्पन्न हुए समय, निमित्त, घटिका,
दिन आदि जो कालपर्याय हैं उनको भी शुक्ल, कृष्ण आदि गुण प्राप्त होते हैं, परन्तु समय
घटिका आदिमें उपादान कारणोंके कोई गुण नहीं देख पड़ते । क्योंकि उपादानकारणके
समान कार्य होता है ऐसा वचन है । अब यहाँ अधिक कहना व्यर्थ है । जो आदि तथा
अन्तसे रहित है, अमूर्त्त है, नित्य है, समय आदिका उपादानकारणभूत है तो भी समय
आदि भेदोंसे रहित है, और कालाणु द्रव्यरूप है वह तो निश्चय काल है । और जो आदि
तथा अन्तसे सहित है, समय, घटिका तथा प्रहर आदि विवक्षित व्यवहारके विकल्पोंसे
युक्त है, वह उसी द्रव्यकालका पर्यायभूत व्यवहारकाल है । यहाँ तात्पर्य यह है कि यद्यपि
यह जीव काललब्धिके बशसे अनन्त सुखकां भाजन (पात्र) होता है, तथापि विशुद्ध ज्ञान
दर्शन स्वभावका धारक जो निज परमात्माका स्वरूप है उसके सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान, आच-
रण और संपूर्ण बाल द्रव्योंको इच्छाको दूर करनेरूप लग्नका धारक तपश्चरणरूप ऐसे
दर्शन, ज्ञान, चारित्र तथा तपस्वरूप जो निश्चयसे चार प्रकारकी आराधना है वह आराधना
ही उस जीवके अनन्त सुखकी प्राप्तिमें उपादान कारण है ऐसा जानना चाहिये । और
काल उपादान कारण नहीं है, इसलिये वह काल हेय (त्याज्य) है ॥२१॥

व्याख्या—“लोयायासपदेसे इक्कि जे ठिया हु इक्किा” लोकाकाशप्रदेशोन्नेकेकेपु ये स्थिता एकैकसंख्योपेता “हु” स्फुटं । क इव ? “रयणाणं रासी इव” परस्परतादात्म्यपरिहारेण रत्नानां राशिरिव । “ते कालाणू” ते कालाणवः । कति संख्योपेताः ? “असंखदव्वाणि” लोकाकाशप्रमितासंख्येयद्रव्योति । तथाहि—यथाकुलद्रव्यस्य यस्मिन्नेव क्षणे वक्रपर्यायोत्पत्तिस्तस्मिन्नेव क्षणे पूर्वप्राञ्जलपर्यायविनाशोऽङ्गुलिरूपेण ध्रौव्यमिति द्रव्यसिद्धिः । यथैव च केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपेण कार्यसमयसारस्योत्पादो निर्विकल्पसमाधिरूपकारणसमयसारस्य विनाशस्तदुभयाधारपरमात्मद्रव्यत्वेन ध्रौव्यमिति वा द्रव्यसिद्धिः । तथा कालाणोरपि मन्दगततिपरिणतपुद्गलपरमाणुना व्यक्तीकृतस्य कालाणुपादा-

अव निश्चयकालकी स्थितिका क्षेत्र तथा कालको द्रव्योंमें क्यो गिनागया, इस विषयका प्रतिपादन करते हैं;—

गाथाभावार्थः—जो लोकाकाशके एक एक प्रदेशमें रत्नोंको राशिके समान परस्पर भिन्न होकर एक एक स्थित हैं वे कालाणु हैं और असंख्यात द्रव्य हैं ॥२२॥

व्याख्यार्थः—“लोयायासपदेसे इक्कि जे ठिया हु इक्किा” एक एक लोकाकाशके प्रदेशोंमें जो एक एक संख्यायुक्त स्पष्ट रूपसे स्थित हैं । किसकोसी तरह ? “रयणाणं रासी इव” परस्पर अभेदको त्याग कर रत्नोंकी राशिके सदृश अर्थात् रत्नराशिकी भांति भिन्न स्थित हैं । “ते कालाणू” वे कालाणु हैं । कितनी संख्याके धारक हैं ? “असंखदव्वाणि” लोकाकाश परिमाण असंख्यात द्रव्य हैं । अव द्रव्यसिद्धिमें प्रमाण कहते हैं । जैसे जिस क्षणमें अंगुलिरूप द्रव्यके वक्र (बाँके) पर्यायकी उत्पत्ति होती है उसी क्षणमें उसके सरल पर्यायका नाश होता है और अंगुली रूपसे उस अंगुलीमें ध्रौव्य है, इस रीतिसे उत्पत्ति, नाश तथा ध्रौव्य इन तीनों लक्षणोंसे युक्त होनेसे द्रव्यसिद्धि होगई । और भी जैसे केवल ज्ञान आदिकी व्यक्ति (प्रकटता) रूपसे कार्य समयसारका अर्थात् केवलज्ञानादि रूपसे परिणत आत्माका उत्पाद होता है उसी समय निर्विकल्प ध्यानरूप जो कारण समयसार है उसका नाश होता है और उन दोनोंका आधारभूत जो परमात्मा द्रव्य है उस रूपसे ध्रौव्य है, इस रीतिसे भी द्रव्यकी सिद्धि है । उसी प्रकार कालाणुके भी जो मन्द गतिमें परिणत पुद्गल परमाणु द्वारा प्रकट किये हुए और कालाणुरूप उपादान कारणसे उत्पन्न हुए ऐसे वर्तमान समयका उत्पाद है वही अतीत (गये हुए) समयकी अपेक्षा उसका विनाश है और उन वर्तमान तथा अतीत दोनों समयोंका आधारभूत कालद्रव्यपनेसे ध्रौव्य है । ऐसे उत्पाद, व्यय तथा ध्रौव्यरूप लक्षणके धारक काल द्रव्यकी सिद्धि है । शंका—“लोकके वायु भागमें कालाणु द्रव्यके अभावसे अलोकाकाशमें परिमाण कैसे हो सकता है ?” यदि ऐसा कहो तो उत्तर यह है कि आकाश अखंड द्रव्य है, इसलिए जैसे चाकके एक देशमें

नकारणोत्पन्नस्य च एव वर्तमानसमयस्योत्पादः स एवातीतसमयापेक्षया चिनाशस्तदुभ-
याधारकालाणुद्रव्यत्वेन ध्रौव्यमित्युत्पादव्ययध्रौव्यात्मककालद्रव्यसिद्धिः । लोकत्रहिर्भागे
कालाणुद्रव्याभावात्कथमाकाशद्रव्यस्य परिणतिरिति चेत् ; अखण्डद्रव्यत्वादेकदेशदण्डा-
हतकुम्भकारचक्रभ्रमणवत्, तथैवैकदेशमनोहरस्पर्शनेन्द्रियविषयानुभवसर्वाङ्गमुखवत्,
लोकमध्यस्थितकालाणुद्रव्यधारणैकदेशेनापि सर्वत्र परिणमनं भवतीति, कालद्रव्यं शेष-
द्रव्याणां परिणतेः सहकारिकारणं भवति । कालद्रव्यस्य किं सहकारिकारणमिति । यथा-
काशद्रव्याणामाधारः स्वस्यापि, तथा कालद्रव्यमपि परेषां परिणतिसहकारिकारणं
स्वस्यापि । अथ मतं यथा कालद्रव्यं स्वस्योत्पादानकारणं परिणतेः सहकारिकारणं च भवति
तथा सर्वद्रव्याणि कालद्रव्येण किं प्रयोजनमिति । नैवम् । यद्दि पृथग्भूतसहकारिकारणेन
प्रयोजनं नास्ति तर्हि सर्वद्रव्याणां साधारणगतिस्थित्यवगाहनविषये धर्माधर्माकाशद्रव्यैरपि
सहकारिकारणभूतैः प्रयोजनं नास्ति । किञ्च कालस्य घटिकादिवसादिकार्यं प्रत्यक्षेण दृश्यते
धर्मादीनां पुनरागमकथनमेव प्रत्यक्षेण किमपि कार्यं न दृश्यते । ततस्तेषामपि कालद्रव्य-
स्येवाभावः प्राप्नोति । ततश्च जीवपुद्गलद्रव्यद्वयमेव । स चागमविरोधः । किञ्च सर्वद्र-
व्याणां परिणतिसहकारित्वं कालस्यैव गुणः, घ्राणेन्द्रियस्य रसास्वादनमिवान्यद्रव्यस्य
गुणोऽन्यद्रव्यस्य कर्तुं नायाति द्रव्यसंकरदोषप्रसंगादिति । कञ्चिदाह—याचत्कालेनेका-

विद्यमान दंडकी प्रेरणासे संपूर्णं कुम्भकारके चाकका परिभ्रमण हो जाता है, उस तरहसे
अथवा जैसे एक देशमें प्रिय ऐसे स्पर्शन इन्द्रियके विषयका अनुभव करनेसे समस्त शरी-
रमें सुखका अनुभव होता है उस प्रकार लोकके मध्यमें स्थित जो कालाणु द्रव्यको धारण
करनेवाला एकदेश आकाश है उससे भी सर्व आकाशमें परिणमन होता है । शंका—जैसे
कालद्रव्य, जीव पुद्गल आदि द्रव्योंके परिणमनमें सहकारी कारण है वैसे ही कालद्रव्यके
परिणमनमें सहकारी कारण कौन है ? उत्तर—जैसे आकाश द्रव्य संपूर्ण द्रव्योंका आधार है
और अपना आधार भी आप ही है, इसी प्रकार काल द्रव्य भी अन्य सब द्रव्योंके परिणम-
नमें और अपने परिणमनमें भी सहकारी कारण है । अब कदाचित् कहो कि जैसे काल-
द्रव्य अपना तो उत्पादान कारण है और परिणमनका सहकारी कारण है, वैसे ही जीव आदि
सब द्रव्योंको अपने उत्पादान कारण और परिणतिके सहकारी कारण मानो । उन जीव आ-
दिके परिणमनमें कालद्रव्यसे क्या प्रयोजन है ? समाधान—ऐसा नहीं । क्योंकि यदि अपनेसे
भिन्न घहिरंग सहकारी कारणसे प्रयोजन नहीं है तो सब द्रव्योंमें साधारण रूप(समानता)-
से विद्यमान जो गति, स्थिति तथा अवगाहन हैं उनके विषयमें सहकारी कारणभूत जो
धर्म, अधर्म तथा आकाश द्रव्य हैं उनसे भी कोई प्रयोजन नहीं है । और भी, कालका तो
घटिका (घड़ी) दिन आदि कार्य प्रत्यक्षसे देख पड़ता है और धर्म द्रव्य आदिका कार्य
तो केवल आगम (शास्त्र) के कथनसे ही माना जाता है; उनका कोई कार्य प्रत्यक्षसे नहीं
दीख पड़ता । इसलिये, जैसे कालद्रव्यका अभाव मानते हो उसी प्रकार उन धर्म, अधर्म

काशप्रदेशं परमाणुरतिक्रामति ततस्तावत्कालेन समयो भवतीत्युक्तमागमे एकसमयेन चतुर्दशरज्जुगमने यावंत आकाशप्रदेशास्तावन्तः समया प्राप्नुवन्ति । परिहारमाह— एकाकाशप्रदेशातिक्रमेण यत्समयव्याख्यानं कृतं तन्मन्दगत्यपेक्षया, यत्पुनरेकसमये चतुर्दशरज्जुगमनव्याख्यानं तत्पुनः शीघ्रगत्यपेक्षया । तेन कारणेन चतुर्दशरज्जुगमनेऽप्येकसमयः । तत्र दृष्टान्तः—कोऽपि देवदत्तो योजनशतं मन्दगत्या दिनशतेन गच्छति । स एव विद्याप्रभावेण शीघ्रगत्या दिनेनैकेनापि गच्छति तत्र किं दिनशतं भवति । किन्त्वेक एव दिवसः । तथा चतुर्दशरज्जुगमनेऽपि शीघ्रगमनेनैक एव समयः । किञ्च स्वयं विषयानुभवरहितोऽप्ययं जीवः परकीयविषयानुभवं दृष्टं श्रुतं च मनसि स्मृत्वा यदिषयाभिलाषं करोति तदपध्यानं भण्यते तत्प्रभृतिसमस्तविकल्पजालरहितं स्वसंवित्तिसमुत्पन्नसहजानन्दैकलक्षणसुखरसास्वादसहितं यत्तद्वीतरागचारित्रं भवति । यत्पुनस्तदविनामृतं तन्निश्चयसन्त्यक्तत्वं चेति भण्यते । तदेव कालत्रयेपि मुक्तिकारणम् । कालस्तु तदभावे सहकारिकारणमपि न भवति ततः स हेय इति । तथाचोक्तं “किं पल्लविण बहुणा जे सिद्धा णरवरा गए काले । सिद्धिहं हि जेवि भविता तं जाणह सम्मसाहण्यं ॥” इदमत्र

तथा आकाश द्रव्योंका भी अभाव अवश्य प्राप्त होता है । और जब इन काल आदि चारोंका अभाव मानलोगे तो जीव तथा पुद्गल ये दो ही द्रव्य रह जायँगे । और दो द्रव्योंके माननेपर आगमसे विरोध होगा । और सब द्रव्योंके परिणमनमें सहकारी होना यह केवल काल द्रव्यका ही गुण है । जैसे घ्राण इंद्रिय (नासिका) से रसका आस्वाद नहीं हो सकता, ऐसे ही अन्य द्रव्यका गुण भी अन्य द्रव्यके करनेमें नहीं आता । क्योंकि ऐसा माननेसे द्रव्यसंकर दोषका प्रसंग होगा (अर्थात् अन्य द्रव्यका लक्षण अन्य द्रव्यमें चला जायगा, जो कि सर्वथा अनुचित है) । अब यहाँ कोई कहता है कि जितने कालमें एक आकाशके प्रदेशको परमाणु अतिक्रम करता है अर्थात् एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें गमन करता है उतने कालका नाम समय होता है यह शास्त्रमें कहा है, और इस हिसाबसे चौदह रज्जु गमन करनेमें जितने आकाशके प्रदेश हैं उतने समय ही लगने चाहिये; परन्तु शास्त्रमें यह भी कहा है कि पुद्गल परमाणु एक समयमें चौदह रज्जु पर्यन्त गमन करता है सो यह कथन कैसे संभव हो सकता है ? इसका खंडन कहते हैं कि आगममें जो परमाणुका एक समयमें एक आकाशके प्रदेशमें गमन करना कहा है सो तो मन्द गमनकी अपेक्षासे है, और जो परमाणुका एक समयमें चौदह रज्जुका गमन कहा है वह शीघ्र गमनकी अपेक्षासे है, इस कारण परमाणुको शीघ्रगतिसे चौदह रज्जु प्रमाण गमन करनेमें भी एकही समय लगता है । इस विषयमें दृष्टान्त यह है कि जैसे जो देवदत्त मन्द गमन (धीरो चाल) से सो योजन सो दिनमें जाता है, वही देवदत्त विद्याके प्रभावसे शीघ्र गमन आदि करके १०० सो योजन एक दिनमें भी जाता है तो क्या उस देवदत्तको शीघ्रगतिसे सो योजन गमन करनेमें सो दिन लगेंगे ? किन्तु एक ही दिन लगेगा । इसी प्रकार शीघ्र गतिसे चौदह रज्जु

तात्पर्य—कालद्रव्यमन्यद्वा परमागमाविरोधेन विचारणीयं परं किन्तु वीतरागसर्वस्व-
जनं प्रमाणमिति मनसि निश्चित्य विवादो न कर्तव्यः । कस्मादिति चेत्—विवादे राग-
द्वेषी भवतस्तत्र संसारवृद्धिरिति ॥२२॥

एवं कालद्रव्यव्याख्यानमुख्यतया पंचमस्थले सूत्रद्वयं गतम् । इत्यष्टगायासमुदायेन
पंचभिः स्थलैरजीवद्रव्यव्याख्यानेन द्वितीयांतराधिकारः समाप्तः ॥

अतःपरं सूत्रपञ्चकपर्यन्तं पञ्चास्तिकायव्याख्यानं करोति । तत्रादौ गाथापूर्वाद्धेन पद-
द्रव्यव्याख्यानोपसंहार उच्यते तु पञ्चास्तिकायव्याख्यानप्रारम्भः कथ्यते;—

एवं छब्भेयमिदं जीवाजीवप्पभेददो दब्बं ।

उत्तं कालाविजुत्तं णादब्बा पंच अत्थिकाया दु ॥२३॥

व्याख्या—“एवं छब्भेयमिदं जीवाजीवप्पभेददो दब्बं उत्तं” एवं पूर्वोक्तप्रकारेण पद-
भेदमिदं जीवाजीवप्रभेदतः सकाशाद्द्रव्यमुक्तं कथितं प्रतिपादितम् । “कालविजुत्तं

गमन करनेमें भी परमाणुको एक ही समय लगता है। और भी यहां विशेष जानने योग्य
है कि यह जीव स्वयं (निज स्वभावसे) विषयोंके अनुभवसे रहित है तथापि अन्यके
देखे हुए अथवा सुने हुए विषयके अनुभवको मनमें स्मरण करके जो विषयोंकी इच्छा
करता है उसको अपध्यान (बुरा ध्यान) कहते हैं। उस विषयकी अभिलाषाको आदि ले,
संपूर्ण विकल्पोंका जो समूह है उससे रहित और आत्मज्ञानसे उत्पन्न स्वाभाविक आनंदरूप
सुखके रसके आस्वादेसे सहित जो है वह वीतराग चारित्र्य है। और जो उस वीतराग
चारित्र्यसे व्याप्त है वह निश्चय सन्यक्त्व तथा वीतराग सन्यक्त्व कहलाता है। वह निश्चय
सन्यक्त्व ही भूत, भविष्यत्, वर्तमान इन तीनों कालोंमें मुक्तिका कारण है। और
काल तो उस निश्चय सन्यक्त्वके अभावमें सहकारी कारण भी नहीं होता है, इस कारण
वह कालद्रव्य है (त्याग करने योग्य) है। सो ही कहा है कि “बहुत कथनसे क्या
प्रयोजन है ? जो श्रेष्ठ मनुष्य भूत कालमें सिद्ध हुए हैं तथा अब होंगे, वह सब सन्यक्त्वका
माहात्म्य है” । अब यहां तात्पर्य यह है कि कालद्रव्यके तथा अन्य द्रव्योंके विषयमें जो
कुछ विचारना हो वह सब परम आगमके अविरोधसे ही विचारना चाहिये और वीतराग
सर्वज्ञका वचन प्रमाण है” ऐसा मनमें निश्चय करके उनके कथनमें विवाद नहीं करना
चाहिये। क्योंकि विवादमें राग तथा द्वेष उत्पन्न होते हैं और उन रागद्वेषोंसे संसारकी
वृद्धि होती है ॥२३॥

ऐसे कालद्रव्यके व्याख्यानको मुख्यतासे पंचम स्थलमें दो सूत्र समाप्त हुए । और
उक्त रीतिसे आठ गाथाओंके समुदायसे पांच स्थलोंसे पुद्गल आदि पांच प्रकारके अजीव
द्रव्यके निरूपण रूपसे दूसरा अन्तर अधिकार समाप्त हुआ ॥

अब इसके पश्चात् पांच सूत्र पर्यन्त पंचास्तिकायका व्याख्यान करते हैं। और उनमें
भी प्रथम गाथाके पूर्वार्धसे छहों द्रव्योंके व्याख्यानका उपसंहार और उच्यते से पंचास्ति-
कायके व्याख्यानका आरंभ करते हैं;—

णाद्व्या पंच अस्थिकाया दु” तदेव पण्डविधं द्रव्यं कालेन विद्युक्तं रहितं ज्ञातव्याः
पञ्चास्तिकायास्तु पुनरिति ॥ २३ ॥

पञ्चेति संख्या ज्ञाता तावदिदानीमस्तित्वं कायत्वं च निरूपयति;—

संति जदो तेणेदे अत्थित्ति भणंति जिणवरा जह्मा ।

काया इव बहुदेसा तह्मा काया य अत्थिकाया य ॥२४॥

व्याख्या—“संति जदो तेणेदे अत्थित्ति भणंति जिणवरा” सन्ति विद्यन्ते यत् एते
जीवाद्याकाशपर्यन्ताः पञ्च तेन कारणेनैतेऽस्तीति भणन्ति जिणवराः सर्वज्ञाः । “जह्मा
काया इव बहुदेसा तह्मा काया य” यस्मात्काया इव बहुप्रदेशास्तस्मात्कारणात्कायाश्च
भणन्ति जिनवराः । “अत्थिकाया य” एवं न केवलं पूर्वोक्तप्रकारेणास्तित्वेन युक्ता अस्ति-
संज्ञास्तथैव कायत्वेन युक्ताः कायसंज्ञा भवन्ति किन्तु भयमेलापकेनास्तिकायसंज्ञाश्च

गाथाभावात्—इस प्रकार एक जीव द्रव्य और पांच अजीव द्रव्य ऐसे छह प्रकारके
द्रव्यका निरूपण किया। इन छहों द्रव्योंमेंसे एक कालके बिना शेष पांच अस्तिकाय
जानने चाहिये ॥२३॥

व्याख्यार्थः—“एवं छव्भेयमिदं जीवाजीवपभेददो द्रव्यं उचं” ऐसे पूर्वोक्त
प्रकारसे जीव तथा अजीवके भेदसे यह द्रव्य छह प्रकारका कहा गया। “कालविजुत्तं
णाद्व्या पंच अत्थिकाया दु” और कालरहित वही छह प्रकारका द्रव्य अर्थात् कालके
बिना शेष पांच द्रव्योंको पांच अस्तिकाय समझना चाहिये ॥२३॥

अब अस्तिकायसंबन्धिनी पांच यह संख्या तो जानी हुई है ही, इसलिये अस्तित्व तथा
कायत्वका निरूपण करते हैं;—

गाथाभावात्—पूर्वोक्त जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म तथा आकाश ये पांचों द्रव्य
विद्यमान हैं इसलिये जिनेश्वर इनको ‘अस्ति’ (है) ऐसा कहते हैं और ये कायके समान बहु
प्रदेशोंको धारक करते हैं इसलिये इनको ‘काय’ कहते हैं। अस्ति तथा काय दोनोंको
मिलानेसे ये पांचों ‘अस्तिकाय’ होते हैं ॥२४॥

व्याख्यार्थः—“संति जदो तेणेदे अत्थित्ति भणंति जिणवरा” जीवसे आदि लेके
आकाश पर्यन्त ये पूर्वोक्त पांच द्रव्य विद्यमान हैं इसलिये सर्वज्ञ देव इनको “अस्ति”
(है) ऐसा कहते हैं। “जह्मा काया इव बहुदेसा तह्मा काया य” और काय अर्थात्
शरीरके सदृश ये बहुत प्रदेशोंके धारक हैं इस कारणसे जिनेश्वर इनको ‘काय’ कहते हैं।
“अत्थिकाया य” पूर्वोक्त प्रकार अस्तित्वसे युक्त ये पांचों केवल अस्तिसंज्ञक ही नहीं
हैं, तथा कायत्वसे युक्त केवल काय संज्ञाके धारक ही नहीं हैं; किन्तु अस्ति और काय इन
दोनोंको मिलानेसे “अस्तिकाय” संज्ञाके धारक होते हैं। अब इन पांचोंके संज्ञा, लक्षण
तथा प्रयोजन आदिसे यद्यपि परस्पर भेद है तथापि अस्तित्वके साथ अभेद है यह दर्शाते

भवन्ति ॥ इदानीं संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽप्यस्तित्वेन सहाभेदं दर्शयति । तथाहि-
शुद्धजीवास्तिकायै सिद्धत्वलक्षणः शुद्धद्रव्यव्यञ्जनपर्यायः, केवलज्ञानादयो विशेषगुणाः
अस्तित्ववस्तुत्वागुरुलघुत्वादयः सामान्यगुणाश्च । तथैवाव्यावाधानन्तसुखाद्यनन्तगुण-
व्यक्तिरूपस्य कार्यसमयसारस्योत्पादो रागादिविभावरहितपरमस्वास्थ्यरूपस्य कारणस-
मयसारस्य व्ययस्तदुभयाधारभूतपरमात्मद्रव्यत्वेन ध्रौव्यमित्युक्तलक्षणैर्गुणपर्यायैरुत्पाद-
व्ययध्रौव्यैश्च सह मुक्तावस्थायां संज्ञालक्षणप्रयोजनादिभेदेऽपि सत्त्वारूपेण प्रदेशरूपेण
च भेदो नास्ति । कस्मादिति चेत्-मुक्तात्मसत्तायां गुणपर्यायाणांमुत्पादन्ययध्रौव्याणां
चास्तित्वं सिद्धयति, गुणपर्यायोत्पादन्ययध्रौव्यसत्तायाश्च मुक्तात्मास्तित्वं सिद्धयतीति
परस्परसाधितसिद्धत्वादिति । कायत्वं कथ्यते-बहुप्रदेशप्रचयं दृष्ट्वा यथा शरीरं कन्यो
भण्यते तथानन्तज्ञानादिगुणाधारभूतानां लोकाकाशप्रमितोसंख्येशुद्धप्रदेशानां प्रचयं
समूहं संघातं मेलोपकं दृष्ट्वा मुक्तात्मनि कायत्वं भण्यते । यथा शुद्धगुणपर्यायोत्पादन्य-
यध्रौव्यैः सह मुक्तात्मनः सत्त्वारूपेण निश्चयेनाभेदो दर्शितस्तथा यथासंभवं संसारिजीवेषु
पुद्गलधर्माधर्माकाशकालेषु च द्रष्टव्यः । कालद्रव्यं विहाय कायत्वं चेति सूत्रार्थः ॥२४॥

हे:-जैसे शुद्ध जीवास्तिकायमें सिद्धत्व लक्षण शुद्ध द्रव्य व्यञ्जन पर्याय हैं, केवल ज्ञान
आदि विशेष गुण हैं, तथा अस्तित्व, वस्तुत्व और अगुरुलघुत्व आदि सामान्य गुण हैं,
और जैसे मुक्तिदशमें अव्यावाध अर्थात् वाधारहित अनन्त सुख आदि अनन्त गुणोंकी
व्यक्ति (प्रकटता) रूप कार्यसमयसारका उत्पाद, राग आदि विभावोंसे शून्य परम स्वास्थ्य
स्वरूप कारणसमयसारका व्यय (नाश), और इन दोनोंके अर्थात् उत्पाद तथा व्ययके
आधारभूत परमात्मारूप जो द्रव्य है उस रूपसे ध्रौव्य (स्थिरत्व) है । इस प्रकार पूर्व-
कथित लक्षणयुक्त गुण तथा पर्यायोंसे और उत्पाद, व्यय तथा ध्रौव्यके साथ मुक्त
अवस्थामें संज्ञा, लक्षण तथा प्रयोजन आदिका भेद होनेपर भी सत्त्वारूपसे और प्रदेशरूपसे
किसीका किसीके साथ भेद नहीं है । क्योंकि, जीवोंकी मुक्तिअवस्थामें गुण, द्रव्य तथा
पर्यायोंकी और उत्पाद, व्यय तथा ध्रौव्यरूप लक्षणोंकी विद्यमानता (सत्ता) सिद्ध होती है
और गुण, पर्याय, उत्पाद, व्यय तथा ध्रौव्यकी सत्ताके अस्तित्वको मुक्त आत्मा जो है वह
सिद्ध करता है । इस प्रकार गुण, पर्याय आदि मुक्त आत्माकी और मुक्त आत्मा गुण
पर्यायको सत्ताको परस्पर सिद्ध करते हैं । अब इनके कायत्वका निरूपण करते हैं-बहु-
तसे प्रदेशोंमें व्याप्त होके स्थितिको देखके जैसे शरीरको कायत्व कहते हैं अर्थात् जैसे
शरीरमें अधिक प्रदेश होनेसे शरीरको काय कहते हैं; उन्ही प्रकार अनन्त ज्ञान आदि
गुणोंके आधारभूत जो लोकाकाशके प्रमाण असंख्यात शुद्ध प्रदेश हैं उनके समूह, संघात
अथवा मेलको देखके, मुक्त जीवमें भी कायत्वका व्यवहार अथवा कथन होता है । जैसे
शुद्ध गुण, पर्यायोंसे तथा उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य लक्षणसे सहित रहनेवाले मुक्त आत्माके
निश्चय नयसे सत्त्वारूपसे अभेद दर्शाया गया है, ऐसे ही संसारो जीवोंमें तथा पुद्गल,

मन्दगत्या गच्छतः पुद्गलपरमाणोरेकाकाशप्रदेशपर्यन्तमेव कालद्रव्यं गतेः सहकारिकारणं भवति ततो ज्ञायते तदप्येकप्रदेशमेव । कश्चिदाह—पुद्गलपरमाणोर्गतिसहकारिकारणं धर्मद्रव्यं तिष्ठति, कालस्य किमायातम् । नैवं वक्तव्यं—धर्मद्रव्ये गतिसहकारिकारणे विद्यमानेऽपि मत्स्यानां जलवन्मनुष्याणां शकटारोहणादिवत्सहकारिकारणानि बहून्यपि भवन्तीति । अथ मतं कालद्रव्यं पुद्गलानां गतिसहकारिकारणं कुत्र भणितमास्ते ? तदुच्यते । “पुगलकरणा जीवा खंधा खलु कालकरणाद्” इत्युक्तं श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवैः पश्चास्ति कायप्राभृते । अस्यार्थः कथ्यते । धर्मद्रव्ये विद्यमानेऽपि जीवानां कर्मनो कर्मपुद्गला गतेः सहकारिकारणं भवन्ति, अणुस्कन्धभेदभिन्नपुद्गलानां तु कालद्रव्यमित्यर्थः ॥२५॥

अथैकप्रदेशस्यापि पुद्गलपरमाणोरुपचारेण कायत्वमुपदिशति;—

एयपदेशो वि अणू णाणाखंधप्पदेशदो होदि ।

वहुदेशो उवयारा तेण य काओ भणांति सच्चण्हू ॥२६॥

एक प्रदेशी होनेमें युक्ति कहते हैं । जैसे—अन्तिम शरीरसे किंचित् न्यून प्रमाणके धारक सिद्धत्व पर्यायका उपादान कारणभूत जो शुद्ध आत्मा द्रव्य है वह सिद्धत्व पर्यायके प्रमाण ही है । अथवा जैसे मनुष्य, देव आदि पर्यायोंका उपादान कारणभूत जो संसारी जीव द्रव्य है वह उस मनुष्य, देव आदि पर्यायके प्रमाण ही है, उसी प्रकार कालद्रव्य भी समयरूप जो कालका पर्याय है उसका विभागसे उपादान कारण है तथा अविभागसे एक प्रदेश ही होता है । अथवा मन्द गतिसे गमन करते हुये पुद्गल परमाणुके एक आकाशके प्रदेश पर्यन्त ही कालद्रव्य गतिका सहकारी कारण होता है, इस कारण जाना जाता है कि वह काल द्रव्य भी एक ही प्रदेशका धारक है । अब यहां कोई कहता है कि पुद्गल—परमाणुकी गतिमें सहकारी कारण तो धर्म द्रव्य विद्यमान है ही, इसमें कालद्रव्यका क्या प्रयोजन है ? सो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि धर्म द्रव्यके विद्यमान रहते भी मत्स्योंकी गतिमें जलके समान तथा मनुष्योंकी गतिमें गाड़ीपर बैठना आदिके समान पुद्गलकी गतिमें बहुतसे भी सहकारी कारण होते हैं । अब कदाचित् कहो कि “कालद्रव्य पुद्गलोंकी गतिमें सहकारी कारण है” यह कहा कहा हुआ है ? सो कहते हैं । श्रीकुन्दकुन्द आचार्य देवने पंचास्तिकाय नामक प्राभृतमें “पुगलकरणा जीवा खंधा खलु कालकरणाद्” ऐसा कहा है । इसका अर्थ कहते हैं कि धर्म द्रव्यके विद्यमान होते भी जीवोंकी गतिमें कर्म, नो कर्म पुद्गल सहकारी कारण होते हैं और अणु तथा स्कन्ध इन भेदोंसे भेदका प्राप्त हुए पुद्गलोंके गमनमें कालद्रव्य सहकारी कारण होता है । यह गाथाका अर्थ है ॥२५॥

अब पुद्गल परमाणु यद्यपि एकप्रदेशी है तथापि उपचारसे उसको काय कहते हैं ऐसा उपदेश करते हैं,—

कथमिति चेत् तत्रोत्तरम्—अणुशब्देन व्यवहारेण पुद्गला उच्यन्ते, निश्चयेन तु वर्णादि-
गुणानां पूरणगलनयोगात्पुद्गला इति वस्तुवृत्त्या पुनरणुशब्दः सूक्ष्मवाचकः । तद्यथा-
परमेण प्रकर्षणाणुः । अणु कोऽर्थः सूक्ष्म इति व्युत्पत्त्या परमाणुः । स च सूक्ष्मवाच-
कोऽणुशब्दो निर्विभागपुद्गलविवक्षायां पुद्गलाणुं वदति । अविभागिकालद्रव्यविवक्षायां
तु कालाणुं कथयतीत्यर्थः ॥२६॥

अथ प्रदेशलक्षणमुपलक्षयति;—

जावदियं आयासं अविभागीपुग्गलाणुउट्टद्धं ।

तं खु पदेसं जाणे सञ्चाणुट्टाणदाणरिहं ॥२७॥

व्याख्या—“जावदियं आयासं अविभागीपुग्गलाणुउट्टद्धं तं खु पदेसं जाणे” याव-
त्प्रमाणमाकाशमविभागिपुद्गलपरमाणुना विष्टव्यं व्याप्तं तदाकाशं खु स्फुटं प्रदेशं जानीहि
हे शिष्य ! कथंभूतं “सञ्चाणुट्टाणदाणरिहं” सर्वाणूनां सर्वपरमाणूनां सूक्ष्मस्कर्णानां च
स्थानदानस्थानवकाशदानस्थाहं योग्यं समर्थमिति । यत् एवेत्यंभूतावगाहनशक्तिरस्त्याका-
शस्य तत् एवासंख्यातप्रदेशोऽपि लोके अनन्तानन्तजीवास्तेभ्योऽप्यनन्तगुणपुद्गला अव-

कायत्व नहीं सिद्ध होता । कदाचित् कहो कि अणु यह पुद्गलकी संज्ञा है । कालकी अणु
संज्ञा कैसे हुई ? तो इसका उत्तर सुनो—“अणु” इस शब्दसे व्यवहारसे पुद्गल कहे जाते हैं
और निश्चयसे तो वर्ण आदि गुणोंके पूरण तथा गलनके संबंधसे पुद्गल कहे जाते हैं;
और यद्यार्थमें तो अणु शब्द सूक्ष्मका वाचक है, जैसे परम अर्थात् प्रकर्ष (अधिकता)से
जो अणु हो सो परमाणु है । इस व्युत्पत्तितसे परमाणु शब्द जो है वह अति सूक्ष्म पदार्थको
कहनेवाला है । और वह सूक्ष्म वाचक अणु शब्द निर्विभाग पुद्गलकी विवक्षामें तो पुद्गल
अणुको कहता है और अविभागी (विभागरहित) कालद्रव्यके कहनेकी जब इच्छा होती
है तब कालाणुको कहता है ॥२६॥

अब प्रदेशका लक्षण दिखाने हैं—

गायोमावार्थः—जितना आकाश अविभागी पुद्गलाणुसे रोक जाता है उसको सब
परमाणुओंको स्थान देनेमें समर्थ प्रदेश जानो ॥२७॥

व्याख्यानार्थः—“जावदियं आयासं अविभागीपुग्गलाणुउट्टद्धं तं खु पदेसं
जाणे” हे शिष्य ! जितना आकाश विभागरहित पुद्गलपरमाणुसे व्याप्त है उसको स्पष्ट
रूपसे प्रदेश जानो । वह प्रदेश कैसा है कि “सञ्चाणुट्टाणदाणरिहं” सब परमाणु और
सूक्ष्म स्कर्णोंको अवकाश (स्थान) देनेके लिये समर्थ है । इस प्रकारकी अवगाहन शक्ति
जो आकाशमें है इसी हेतुसे असंख्यात प्रदेश प्रमाण लोकाकाशमें अनन्तानन्त जीव तथा
उन जीवोंमें भी अनन्त गुणे पुद्गल अवकाशको प्राप्त होते हैं । सोही जीव तथा पुद्गलके
विषयमें इसके अवकाश देनेका सामर्थ्य आगममें कहा है । “एक निगोद शरीरमें इन्ध-

द्वितीयोऽधिकारः ॥ २ ॥

अतःपरं पूर्वोक्तपट्टद्रव्याणां चूलिकारूपेण विस्तरव्याख्यानं क्रियते । तथा—

परिणामि-जीव-मुचं, सपदेसं एय-खेत्त-किरिया य ।

णिञ्चं कारण-कृता, सव्वगदमिदरंहि यपवेसे ॥ १ ॥

दुण्णिय^१ एयं एयं, पंच-त्तिय एय दुण्णिण चउरो य ।

पंच य एयं एयं, एदेसं एय उत्तरं णेयं ॥ युग्मपू^२ ॥ २ ॥

व्याख्या—“परिणामि” इत्यादिव्याख्यानं क्रियते । परिणामपरिणामिनो जीवपुद्गल स्वभावविभावपर्यायाभ्यां कृत्वा, शेषचत्वारि द्रव्याणि विभावव्यञ्जनपर्यायाभावात् ख्यवृत्त्या पुनरपरिणामीति । “जीव” शुद्धनिश्चयनवेन विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावं शुद्धतन्मं प्राणशब्देनोच्यते तेन जीवतीति जीवः । व्यवहारनयेन पुनः कर्मोदयजनितस्वभावरूपैश्चतुर्भिः प्राणैर्जीवति, जीविष्यति, जीवितपूर्वो वा जीवः पुद्गलाद्विपश्चद्रव्य-

अत्र इसके पश्चात् पट्टद्रव्योंकी चूलिका (परिशिष्ट अथवा उपसंहार) रूपसे वि व्याख्यान करते हैं । सो इस प्रकार है—

गाथामावार्थः—पूर्वोक्त पट्टद्रव्योंमेंसे परिणामी द्रव्य जीव और पुद्गल ये दो हैं, द्रव्य एक जीव है, मूर्तिमान् एक पुद्गल है, प्रदेशसहित जीव, पुद्गल, धर्म, तथा आकाश ये पांच द्रव्य हैं, एक संख्यावाले धर्म, अधर्म और आकाश ये तीन द्रव्य क्षेत्रवान् एक आकाश द्रव्य है, क्रियासहित जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य हैं, नित्य धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल ये चार हैं, कारण द्रव्य-पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल ये पांच हैं, कर्त्ताद्रव्य-एक जीव है, सर्वगत (सर्वमें व्यापनेवाला) द्रव्य-एक आ है, और ये उहों द्रव्य प्रदेशरहित हैं अर्थात् एक द्रव्यमें दूसरे द्रव्यका प्रवेश नहीं है ॥ २ ॥ यहाँ इन दोनों वाक्यों को मिलाके अर्थ कहा गया है ।

व्याख्यार्थः—“परिणामि” इत्यादिगाथाका व्याख्यान करते हैं—स्वभाव तथा वि पर्यायोंके परिणामसे परिणामी जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य हैं और शेष (वाच्य चार द्रव्य अर्थात् धर्म, अधर्म, आकाश तथा काल ये चार द्रव्य विभावव्यञ्जनपर अभावसे मुग्यतासे अपरिणामी हैं । “जीव” शुद्ध निश्चयनसे निर्मल ज्ञान तथा स्वभावका धारक जो शुद्ध चैतन्य है उसीको प्राण शब्दसे कहते हैं । उस शुद्ध चैत प्राणसे जो जीवता है वह जीव है; और व्यवहारनयेन कर्मोंके उदयसे उत्पन्न द्रव्य-

(१) यह गाथा पञ्चविंशत्यष्टौश्लोकाकी प्राणयोगी नहीं है, तथापि टीकाकारने इसका आशय लिया है और जयचन्द्रजीहित इत्यसंग्रहकी वचनिष्ठा तथा मूल मुद्रित पुस्तकमें वचनपर हीकी वचयोगी समझकर, यहाँ लिख दी गई है । (२) ये दोनों वाक्यों बन्ध प्रत्यक्ष हैं इसलिये द्वयजनमात्र संख्या नहीं लगाई गई है ।

शरीरबाल्मनःप्राणापानादिगतिस्थित्यवगाहवर्तनाकार्याणि कुर्वन्तीति कारणाणि भवन्ति । जीवद्रव्यं पुनर्यद्यपि गुरुशिष्यादिरूपेण परस्परोपग्रहं करोति तथापि पुद्गलादिपञ्चद्रव्याणां किमपि न करोतीत्यकारणम् । “कर्त्ता” शुद्धपारिणामिकपरमभावग्राहकेन शुद्धद्रव्याधिकनयेन यद्यपि बन्धमोक्षद्रव्यभावरूपपुण्यपापघटपटादीनामकर्त्ता जीवस्तथाप्यशुद्धनिश्चयेन शुभाशुभोपयोगाभ्यां परिणतः सन् पुण्यपापबन्धयोः कर्त्ता फलभोक्ता भवति । विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजशुद्धात्मद्रव्यस्य सम्यक्प्रज्ञानज्ञानानुष्ठानरूपेण शुद्धोपयोगेन तु परिणतः सन् मोक्षस्यापि कर्त्ता तत्फलभोक्ता चेति । शुभाशुभशुद्धपरिणामानां परिणमनमेव कर्त्तृत्वं सर्वत्र धातव्यमिति । पुद्गलादिपञ्चद्रव्याणां च स्वकीयस्वकीयपरिणामेन परिणमनमेव कर्त्तृत्वम् । वस्तुष्ट्या पुनः पुण्यपापादिरूपेणाकर्त्तृत्वमेव । “सञ्चगद्” लोकालोकव्याप्त्यपेक्षया सर्वगतमाकाशं भण्यते । लोकव्याप्त्यपेक्षया धर्माधर्मौ च । जीवद्रव्यं पुनरेकजीवापेक्षया लोकपूर्णावस्थां विहायासर्वगतं, नानाजीवापेक्षया सर्वगतमेव भवति, पुद्गलद्रव्यं पुनर्लोकरूपमहास्कन्धापेक्षया सर्वगतं, शेषपुद्गलापेक्षया सर्वगतं न भवति, कालद्रव्यं पुनरेककालानुद्रव्यापेक्षया सर्वगतं न भवति । लोकप्रदेशप्रमाणना-

सनकी अपेक्षासे तथा विभावव्यंजन पर्यायकी अपेक्षासे अनित्य हैं । “कारण” पुद्गल, धम, अधर्म, आकाश और काल ये जो द्रव्य हैं इनमेंसे व्यवहारसयकर जीवके-शरीर, वचन, मन, प्राण, अपान आदि कार्य तो पुद्गल द्रव्य करता है और गति, स्थिति, अवगाह तथा वर्त्तनारूप कार्यको क्रमसे धर्म आदि चार द्रव्य करते हैं; इसलिये पुद्गलादि पांच द्रव्य कारण हैं, और जीवद्रव्य यद्यपि गुरु, शिष्य आदि रूपसे परस्पर एक दूसरेका उपकार करता है तथापि पुद्गल आदि पांच द्रव्योंके प्रति यह जीव कुछ भी उपकार नहीं करता इसलिये अकारण है । “कर्त्ता” शुद्ध पारिणामिक परमभावका ग्राहक जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है उसकी अपेक्षा यद्यपि बंध मोक्षके कारणभूत द्रव्य-भाव रूप जो पुण्य पाप, घट पट आदि हैं उनका कर्त्ता जीव नहीं है तथापि अशुद्ध निश्चयनयसे शुभ और अशुभ उपयोगोंसे परिणत हुआ पुण्य तथा पापबंधका कर्त्ता और उनके फलका भोक्ता होता है । तथा विशुद्ध ज्ञानदर्शनस्वभावका धारक जो निज शुद्ध आत्मा द्रव्य है उसके सम्यक् प्रज्ञान, ज्ञान और आचरण रूप शुद्धोपयोगसे परिणत हुआ यह जीव मोक्षका भी कर्त्ता और उस मोक्षके फलका भोक्ता (भोगनेवाला) होता है । यहां सब जगह शुभ, अशुभ तथा शुद्ध परिणामोंका जो परिणमन है उसीको कर्त्ता जानना चाहिये । और पुद्गल आदि पांच द्रव्योंके तो अपने अपने परिणामने जो परिणमन है वही कर्त्तृत्व है तथा यद्यार्थमें तो पुण्य पाप आदि रूपसे अकर्त्तृत्वा हो है ॥ “सञ्चगद्” लोक और अलोक इन दोनोंमें व्याप्तिको अपेक्षा आकाशकी ही सर्वगत कहते हैं तथा लोकमें व्याप्तिको अपेक्षा धर्म और अधर्म सर्वगत हैं । एवं जोश्र द्रव्य जो है सां एक जीवकी अपेक्षासे लोकपूर्णरूप जो अकारण है उसके बिना असर्वगत है और अनेक जीवोंको अपेक्षासे सर्वगत हो जाता है,

मिथ्यात्वरागादिसमस्तविभावरहितत्वेन शुद्ध इत्युच्यते । केवलज्ञानायनन्तगुणसहितत्वाद्बुद्धः । इति शुद्धबुद्धैकलक्षणं सर्वत्र ज्ञातव्यम् । इति पदद्रव्यचूल्का समाप्ता । चूल्काशब्दार्थः कथ्यते—चूल्का विशेषव्याख्यानम्, अथवा उक्तानुक्तव्याख्यानम्, उक्तानुक्तसंकीर्णव्याख्यानं चेति ॥

अतः परं जीवपुद्गलपर्यायरूपाणामात्मवादि सप्तपदार्थानामेकादशगाथापर्यन्तं व्याख्यानं करोति । तत्रादौ “आसवबंधण” इत्याद्यधिकारसूत्रगाथैका, तदनन्तरमास्रवपदार्थव्याख्यानरूपेण “आसवदि जेण” इत्यादि गाथात्रयं, ततः परं बन्धव्याख्यानकथनेन “वज्झदि कम्म” इति प्रभृतिगाथाद्वयं, ततोऽपि संवरकथनरूपेण “चेदणपरिणामो” इत्यादिसूत्रद्वयं, ततश्च निर्जराप्रतिपादनरूपेण “जहकालेण तवेण य” इति प्रभृति सूत्रमेकं, तदनन्तरं मोक्षस्वरूपकथनेन “सव्वस्स कम्मणो” इत्यादि सूत्रमेकं, ततश्च पुण्यपापद्वयकथनेन “सुहासुह” इत्यादि सूत्रमेकं चेत्येकादशगाथाभिः स्थलसप्तकसमुदायेन द्वितीयाधिकारे समुदायपातनिका ॥

अत्राह शिष्यः—यद्येकान्तेन जीवाजीवी परिणामिनी भवतस्तदा संयोगपर्यायरूप एक एव पदार्थः, यदि पुनरेकान्तेनापरिणामिनी भवतस्तदा जीवाजीवद्रव्यरूपौ द्वावेव

पदार्थके विशेष व्याख्यानको अथवा उक्त (कहे हुए) विषयमें जो अनुक्त (नहीं कहा हुआ) है, उसके व्याख्यानको तथा उक्त तथा अनुक्तसे मिला हुआ जो कथन है उसको कहते हैं ॥

अब इस चूल्काके पञ्चात् जीव और पुद्गल द्रव्यके पर्याय रूप जो आस्रव आदि सप्त ७ पदार्थ हैं उनका एकादश ११ गाथाओंद्वारा इस द्वितीय अधिकारमें व्याख्यान करते हैं । उसमें प्रथम “आसवबंधण” इत्यादि २८ वीं एक गाथा अधिकार सूत्ररूप है और उसके अनन्तर आस्रवपदार्थके व्याख्यानरूपसे “आमवदि जेण” इत्यादि २९, ३०, ३१ वीं तीन गाथायें हैं । उसके अनन्तर “वज्झदि कम्मं जेण” इत्यादि ३२ वीं ३३ वीं दो गाथाओंमें बंध पदार्थका निरूपण है । उसके पश्चात् “चेदणपरिणामो” इत्यादि ३४, ३५ वीं दो गाथाओंमें संवर पदार्थका कथन है । फिर निर्जरा पदार्थके प्रतिपादन रूपसे “जह कालेण तवेण य” इत्यादि ३६ वीं एक गाथा है । उसके अनन्तर मोक्षके स्वरूपनिरूपणरूपसे “सव्वस्स कम्मणो” इत्यादि एक ३७ वीं गाथा है । उसके पश्चात् पुण्य, पाप इन दो पदार्थोंके कथन रूपसे “सुहासुह” इत्यादि एक ३८ वीं गाथा है ॥ ऐसे एकादश ११ गाथाओं द्वारा सप्त स्थलोंके समुदाय सहित द्वितीय अधिकारको समुदाय-पातनिका समाप्तनी चाहिये ॥

अब यहाँपर शिष्य प्रश्न करता है कि हे गुरु ! यदि जीव तथा अजीव ये दोनों द्रव्य एकान्तसे (सर्वथा) परिणामी हो हैं तो संयोगपर्यायरूप एक ही पदार्थ सिद्ध होता है; और यदि सर्वथा अपरिणामी हैं तो जीव, अजीव द्रव्य रूप दो ही पदार्थ सिद्ध होते हैं;

पदार्थों, तत् आस्रवादि सप्तपदार्थाः कथं घटन्त इति । तत्रोत्तरं—कथंचित्परिणामित्वाद् घटन्ते । कथंचित्परिणामित्वमिति कोऽर्थः ? यथा स्फटिकमणिविशेषो यद्यपि स्वभावेन निर्मलस्तथापि जपापुष्पाद्युपाधिजनितं पर्यायान्तरं परिणतिं गृह्णाति । यद्यप्युपाधि गृह्णाति तथापि निश्चयेन शुद्धस्वभावं न त्यजति तथा जीवोऽपि यद्यपि शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन सहजशुद्धचिदानन्दैकस्वभावस्तथाप्यनादिकर्मबन्धपर्यायवशेन रागादिपरद्रव्योपाधिपर्यायं गृह्णाति । यद्यपि परपर्यायेण परिणमति तथापि निश्चयेन शुद्धस्वरूपं न त्यजति । पुद्गलोऽपि तथेति । परस्परसापेक्षत्वं कथंचित्परिणामित्वगन्धस्यार्थः । एवं कथंचित्परिणामित्वे सति जीवपुद्गलसंयोगपरिणतिनिवृत्तत्वादास्रवादि सप्तपदार्थाः घटन्ते । ते च पूर्वोक्तजीवाजीवाभ्यां सह नव भवन्ति तत् एव नव पदार्थाः । पुण्यपापपदार्थद्वयस्याभेदनयेन कृत्वा पुण्यपापयोर्वन्धपदार्थस्य चा मध्ये अन्तर्भावविवक्षया सप्ततत्त्वानि भण्यन्ते ॥ हे

इस कारण आस्रव आदि सप्त पदार्थ कैसे सिद्ध होते हैं ? । अब इसका उत्तर कहते हैं कि कथंचित् परिणामी होनेसे सप्त पदार्थोंका कथन संगत होता है । “कथंचित्परिणामित्व” इसका क्या अर्थ है ? सो सुनो—जैसे मणियोंके भेदरूप जो स्फटिकमणि है वह यद्यपि स्वभावसे निर्मल है तथापि जपापुष्प (जवा अथवा गुड़हलका फूल) आदिकी उपाधिसे उत्पन्न जो रक्तत्व आदि अन्य पर्याय है उस रूप परिणमता है अर्थात् सर्वथा निर्मल स्फटिक मणिके साथ जब जपापुष्पका योग होता है तब वह उस पुष्पके समान रक्तवर्णका ही धारक हो जाता है । यहां स्फटिकमणि यद्यपि उपाधिको ग्रहण करता है तथापि निश्चयसे अपना जो निर्मल स्वभाव है उसको नहीं छोड़ता है । ऐसे ही जीव भी यद्यपि शुद्धद्रव्यार्थिकनयसे स्वभावसे उत्पन्न शुद्ध चिदानन्दरूप स्वभावका धारक है तथापि अनादि कर्मबन्ध रूप जो पर्याय है उसके वशसे राग आदि परद्रव्यजनित जो उपाधिपर्याय है, उसको ग्रहण करता है । यहां यद्यपि जीव परपर्यायके रूपसे परिणमन करता है तथापि निश्चयनयसे जो अपना शुद्ध स्वरूप है उसको नहीं छोड़ता है । इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी अन्यकी उपाधिसे परिणमनको प्राप्त होजाता है । इस कारण परस्परकी अपेक्षासहित होना यही “कथंचित्परिणामित्व” शब्दका अर्थ है । इस रीतिसे कथंचित्परिणामित्व सिद्ध होनेपर जीव और पुद्गलके संयोगकी परिणति (परिणाम) से रचे हुए आस्रव आदि सप्त पदार्थ घटित होते हैं । और वे आस्रव आदि सप्त पदार्थ पूर्वोक्त जो जीव और अजीव दो द्रव्य हैं उन सहित नव ९ होते हैं इसलिये नव पदार्थ कहे जाते हैं । तथा इन नव पदार्थोंमें जो पुण्य और पाप नामक दो पदार्थ हैं इनका पूर्व सप्त पदार्थोंसे अभेद करनेसे अथवा पुण्य और पाप पदार्थका बन्ध पदार्थमें अन्तर्भाव (शामिल) करनेसे सप्त तत्त्व कहे जाते हैं । शिष्य प्रश्न करता है कि हे भगवन् ! यद्यपि कथंचित्परिणामित्व माननेके बलसे भेद-प्रधान पर्यायार्थिकनयकी अपेक्षासे नव ९ पदार्थ तथा सप्त ७ तत्त्व सिद्ध हो गये तथापि इनसे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? क्योंकि जैसे अभेदनयसे पुण्य, पाप इन दो पदार्थोंका प्रथम

भगवद्, यद्यपि कर्मवित्परिणामित्वबलेन भेदप्रधानपर्यायार्थिकनयेन नवपदार्थाः सप्त-
तत्त्वानि वा सिद्धानि तथापि तैः किं प्रयोजनम् । यद्यैवाभेदनयेन पुण्यपापपदार्थद्वय-
स्थान्तर्भावो जातस्तथैव विशेषाभेदनयविवक्षायामास्रवादिपदार्थानामपि जीवाजीवद्वय-
मध्येऽन्तर्भावे कृते जीवाजीवो द्वावेव पदार्थाविति । तत्र परिहारः—हेयोपादेयतत्त्वप-
रिज्ञानप्रयोजनार्थमास्रवादिपदार्थाः व्याख्येया भवन्ति । तदेव कथयति—उपादेयतत्त्वस-
क्षयानन्तसुखं, तस्य कारणं मोक्षो, मोक्षस्य कारणं संवरनिर्जराद्वयं, तस्य कारणं विशुद्ध-
ज्ञानदर्शनस्वभावनिजात्मतत्त्वस्य कश्चिद्भ्रान्तानुचरगलक्षणं निश्चयरत्नत्रयम्भवरूपं, तत्सा-
धकं व्यवहाररत्नत्रयं चेति । इदानीं हेयतत्त्वं कथ्यते—आकुलत्वोत्पादकं नारकादि-
दुःखं निश्चयेनेन्द्रियसुखं च हेयतत्त्वम् । तस्य कारणं संसारः, संसारकारणमास्रवन्व-
पदार्थद्वयं, तस्य कारणं पूर्वोक्तव्यवहारनिश्चयरत्नत्रयाद्विलक्षणं मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्र-
त्रयमिति । एवं हेयोपादेयतत्त्वव्याख्याने कृते सति सततत्त्वनवपदार्थाः स्वयमेव सिद्धाः ।

इदानीं कस्य पदार्थस्य कः कर्त्तति कथ्यते—निजनिरञ्जनगुद्वात्मभावनेत्वन्नरमान-
न्दैकलक्षणसुखासृतरसास्वादपराङ्मुखो वहिरात्मा भण्यते । स चास्रवन्वशापदार्थ-

सप्त पदार्थोंमें अन्तर्भाव हुआ है उसी प्रकार विशेष अभेदनयकी विवक्षामें आस्रव आदि
पदार्थोंका भी जीव और अजीव इन दोनों पदार्थोंमें अन्तर्भाव करलेनेसे जीव तथा अजीव
ये दो ही पदार्थ सिद्ध हो जायेंगे । अब इस शिष्यको शंकाका परिहार करते हैं कि
शिष्य ! कौन तत्त्व हेय है और कौन तत्त्व उपादेय है इस विषयका ज्ञान होनेके प्रयोजनके
लिये आस्रव आदि पदार्थ निरूपण करने योग्य होते हैं । अब इसी विषयको कहते हैं
अविनाशी अनंत सुख जा है यह उपादेय तत्त्व है । उस अक्षय अनंत सुखका कारण
है और उस मोक्षके कारण संवर और निर्जरा ये दोनों पदार्थ हैं । उन संवर ओर नि-
राका कारण, विशुद्ध-ज्ञानदर्शनस्वभावका धारक जो निजात्मा है उसके स्वरूपका स-
प्रदान, ज्ञान तथा आचरण करने रूप निश्चय रत्नत्रय स्वरूप है, और उस निश्चय रत्न-
घाषनेवाला व्यवहाररत्नत्रय है । अब हेयतत्त्वका कथन करते हैं—आकुलताका
करनेवाला जो नरकगति आदिका दुःख तथा इन्द्रियांसे उत्पन्न हुआ सुख है
(त्याग्य) तत्त्व है, उसका कारण संसार है और संसारके कारण आस्रव तथा वं
पदार्थ हैं, और उस आस्रवका तथा वंशका कारण पूर्वकथित जो व्यवहार ओर चि-
त्रय है उससे विपरीत लक्षणके धारक मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान तथा मिथ्य
तीन हैं । इस प्रकार हेय और उपादेय तत्त्वका निरूपण करने पर सप्ततत्त्व
पदार्थ स्वयं ही सिद्ध हो गये ॥

अब किस पदार्थका कौन कर्ता है इस विषयका उपदेश करते हैं । निज
आत्मा जो है उसकी भावना (चिंतन) से उत्पन्न जा परम आनन्दरूप
सुखासृतरसा रस है उसके आत्वादसे पराङ्मुख (रदित) जा जीव है

त्रयस्य कर्ता भवति । कापि काले पुनर्मन्दमिथ्यात्वमन्द्रकपायोदये सति भोगाकारुणादिनिदानबन्धेन भाविकाले पापानुबन्धिपुण्यपदार्थस्यापि कर्ता भवति । यस्तु पूर्वोक्तवहिरात्मनो विलक्षणः सम्यग्दृष्टिः स संवरनिर्जराभोक्षपदार्थत्रयस्य कर्ता भवति । रागादिविभावरहितपरमसामायिके यदा स्थातुं समर्थो न भवति तदा विषयकपायोत्पन्नदुर्ध्यानबन्धनार्थं संसारस्थितिच्छेदं कुर्वन् पुण्यानुबन्धितीर्थकरनामप्रकृत्यादिविषिष्टपुण्यपदार्थस्य कर्ता भवति । कर्तृत्वविषये नयविभागः कथ्यते । मिथ्यादृष्टेर्जीवस्य पुद्गलद्रव्यपर्यायरूपाणामास्रवबन्धपुण्यपापपदार्थानां कर्तृत्वमनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण, जीवभावपर्यायरूपाणां पुनरशुद्धनिश्चयनयेनेति । सम्यग्दृष्टेस्तु संवरनिर्जरामोक्षपदार्थानां द्रव्यरूपाणां यत्कर्तृत्वं तदप्यनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण, जीवभावपर्यायरूपाणां तु विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयनयेनेति । परमशुद्धनिश्चयेन तु "ण वि उत्पन्नइ. ण वि मरइ. वंधु ण मोवसु करेइ । जिउ परमथे जोइया. जिणवरु एम भणेइ ॥ १ ॥" इति वचनाद्बन्धमोक्षो न स्तः । स च पूर्वोक्तविवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चय आगमभाषया किं भण्यते—स्वशुद्धात्मसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपेण भविष्यतीति भव्यः, एवम्भूतस्य भव्यत्वसंज्ञस्य पारिणामिकभावस्य संबन्धिनी व्यक्तिर्भण्यते । अध्यात्मभाषया पुनर्द्रव्यप्रतिरूपशुद्धपा-

कहलाता है । वह वहिरात्मा आस्रव, बंध और पाप इन तीन पदार्थोंका कर्ता होता है; और किसी समय जब कषाय और मिथ्यात्वका उदय मंद होता है तब भोगोंकी अमिलाषा आदि रूप निदानके बंधसे पापसे संबंध रखनेवाले पुण्यपदार्थका भी कर्ता होता है । तथा जो पूर्वोक्त वहिरात्मासे विपरीत लक्षणका धारक सम्यग्दृष्टि जीव है वह संवर, निर्जरा तथा मोक्ष इन तीन पदार्थोंका कर्ता होता है, और यह सम्यग्दृष्टि जीव जिस समय राग आदि विभावोंसे रहित जो परम सामायिक है उसमें स्थित रहनेको समर्थ नहीं होता है उस समय विषयकपायोंसे उत्पन्न जो दुर्ध्यान उसके बंधनार्थ अर्थात् न होनेके लिये संसारकी स्थितिका नाश करता हुआ पुण्यसे संबंध रखनेवाला जो तीर्थकर नाम प्रकृति आदि विशिष्ट पुण्य पदार्थ है उसका कर्ता होता है । अब कर्तृत्वके विषयमें नयोंके विभागका निरूपण करते हैं । मिथ्यादृष्टि जीवके जो पुद्गल द्रव्यपर्याय रूप आस्रव, बंध तथा पुण्य, पाप पदार्थोंका कर्तापना है सो अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनयकी अपेक्षासे है और जीव भाव (देव, मनुष्य) आदि पर्यायरूप पदार्थोंका कर्तृत्व अशुद्ध निश्चयनयसे है । तथा सम्यग्दृष्टि जीव जो द्रव्यरूप संवर, निर्जरा तथा मोक्ष पदार्थका कर्ता है, सोभी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नयसे ही है । तथा जीव भावपर्याय रूपोंका जो कर्ता है सो विवक्षित एकदेश शुद्ध निश्चय नयसे है । और परम शुद्ध निश्चय नयको अपेक्षासे तो "जो परमार्थदृष्टिसे देखें तो यह जीव न उत्पन्न होता है, न मरता है और न बंध तथा न मोक्षको करता है, इस प्रकार श्रीजिनेन्द्र कहते हैं" इस वचनसे जीवके बंध और मोक्ष ही नहीं है । इसलिये विवक्षितैकदेश शुद्ध निश्चयनयसे ही जीवभावपर्यायोंका जीवको कर्तृत्व है । अब आगमभाषासे

रिणाभिक्रमावविषये भावना भण्यते, पर्यायनामान्तरेण निर्विकल्पसमाधिर्वा शुद्धोपयो-
गादिकं वेति । यत एव भावना मुक्तिकारणं तत एव शुद्धपारिणामिकभावो ध्येयरूपो
भवति, ध्यानभावनारूपो न भवति । कस्मादिति चेत्- ध्यानभावनापर्यायो विनश्चरः स च
द्रव्यरूपत्वाद् विनश्चर इति । इदमत्र तात्पर्य-मिथ्यात्वरागादिविकल्पजालरहितनिजशुद्धा-
त्मभावनोत्पन्नसहजानन्दकलक्षणसुखसंवित्तिरूपा च भावना मुक्तिकारणं भवति । तां च
कोऽपि जनः केनापि पर्यायनामान्तरेण भणतीति । एवं पूर्वोक्तप्रकारेणानेकान्तव्याख्या-
नेनाश्रयवन्धपुण्यपापपदार्थाः जीवपुद्गलसंयोगपरिणामरूपविभावपर्यायेणोत्पद्यते । संव-
रनिर्जराभोक्ष्यपदार्थाः पुनर्जीवपुद्गलसंयोगपरिणामविनाशोत्पन्नेन विवश्रितस्वभावपर्याये-
णेति स्थितम् ॥

तद्यथा—

आमव बंधण संवर णिञ्जर मोक्खो सपुण्णपावा जे ।

जीवाजीवविसेसा तेवि समासेण पभणामो ॥ २८ ॥

क्या कहते हैं सो दर्शाते हैं—निज शुद्ध आत्माके सन्यक् श्रद्धान, ज्ञान तथा आचरण
रूपसे जो होगा उसे भव्य कहते हैं । इस प्रकारका जो भव्यत्व संज्ञाका धारक जीव है
उसके पारिणामिक भावसे संबन्ध रखनेवाली व्यक्ति कही जाती है अर्थात् भव्यके पारिणा-
मिक भावकी व्यक्ति (प्रकटता) है । और अध्यात्मभाषासे द्रव्यशक्ति रूप जो शुद्ध
भाव है उसके विषयमें भावना कहते हैं । अन्य नामोंसे इसी द्रव्य शक्ति रूप
पारिणामिक भावकी भावनाको निर्विकल्प ध्यान तथा शुद्ध उपयोग आदि कहते हैं ।
भावना मुक्तिका कारण है । इसी कारण जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वह ध्येय (ध्यान
करने योग्य) रूप होता है और ध्यानरूप नहीं होता । ऐसा क्यों होता है यह पूछो तो
उत्तर यह है कि ध्यानभावना पर्याय है सो तो विनाशका धारक है और ध्येयभावना
पर्याय द्रव्यरूप होनेसे विनाशरहित है । तात्पर्य यहाँपर यह है कि मिथ्यात्व, राग आदि
जो विकल्पोंके समूह हैं उनसे रहित जो निज शुद्ध आत्मा उसकी भावनासे उत्पन्न सहज
(स्वभावसे उत्पन्न) आनन्द रूप एक सुखके ज्ञानको धारण करनेवाळी जो भावना है
वही मुक्तिका कारण है । उसी भावनाको कोई पुरुष किसी (निर्विकल्प ध्यान,
शुद्धोपयोग आदि रूप) अन्य नामके द्वारा कहता है ॥

इस पूर्वोक्त प्रकारसे अनेकान्त (स्याद्वाद) का आश्रय कर कथन करनेसे आत्मव,
बंध, पुण्य और पाप ये चार पदार्थ जीव और पुद्गलके संयोग परिणामरूप जो त्रिभाव
पर्याय है उससे उत्पन्न होते हैं । और संवर, निर्जरा तथा मोक्ष ये तीन पदार्थ जीव और
पुद्गलके संयोग रूप परिणामके विनाशसे उत्पन्न जो विवश्रित स्वभाव पर्याय है उससे
उत्पन्न होते हैं, यह निश्चित हुआ ।

व्याख्या—“आस्रव” निरास्रवस्वसंवित्तिविलक्षणशुभपरिणामेन शुभाशुभकर्मागमनमास्रवः । “बंधण” बन्धातीतशुद्धात्मोपलम्भभावनाच्युतजीवस्य कर्मप्रदेशैः सह संश्लेषो बन्धः । “संवर” कर्मास्रवनिरोधसमर्थस्वसंवित्तिपरिणतजीवस्य शुभाशुभकर्मागमनसंवरणं संवरः । “णिज्जर” शुद्धोपयोगभावनासामर्थ्येन नीरसीभूतकर्मपुद्गलानामेकदेशगलनं निर्जरा । “मोक्खो” जीवपुद्गलसंश्लेषरूपबन्धस्य विघटने समर्थः स्वशुद्धात्मोपलब्धिपरिणामो मोक्ष इति । “सपुण्णपावा जे” पुण्यपापसहिता ये “ते वि समासेण पभणामो” यथा जीवाजीवपदार्थौ व्याख्यातौ पूर्वं तथा तानप्यास्रवादिपदार्थान् समासेण संश्लेषेण प्रभणामो वयं, ते च कथंभूताः “जीवाजीवविसेसा” जीवाजीवविशेषाः । विशेषा इत्यस्य कोऽर्थः, पर्यायाः । चैतन्या अशुद्धपरिणामा जीवस्य, अचेतनाः कर्मपुद्गलपर्याया अजीवस्येत्यर्थः ॥ एवमधिकारसूत्रगाथा गता ॥ २८ ॥

अब पूर्वोक्त पदार्थोंका निरूपण करते हैं, सो इस प्रकार है—

गाथाभावार्थः—अब जो आस्रव, बंध संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य तथा पाप ऐसे सात जीव, अजीवके भेदरूप पदार्थ हैं; इनको भी संक्षेपसे कहते हैं ॥ २८ ॥

व्याख्यार्थः—“आमव” आस्रवसे रहित जो निज आत्माका ज्ञान है उससे विलक्षण जो शुभ तथा अशुभ परिणाम है उस परिणामसे जो शुभ और अशुभ कर्मोंका आगमन है सो आस्रव है । “बंधण” बंधसे रहित जो शुद्ध आत्मा है उसकी प्राप्तिस्वरूप जो भावना है उस भावनासे गिरे हुये जीवका जो कर्मके प्रदेशोंके साथ परस्पर बंध है, इसको बंध कहते हैं । “संवर” कर्मोंके आस्रवको रोकनेमें समर्थ जो निज आत्मज्ञान है उस ज्ञानमें परिणत जीवके जो शुभ तथा अशुभ कर्मोंके आनेका निरोध है वह संवर है । “णिज्जर” शुद्ध उपयोगकी भावनाके बलसे नीरसीभूत (शक्तिहीन) हुए ऐसे कर्मपुद्गलोंका जो एकदेशसे गलन अर्थात् नाश है उसको निर्जरा कहते हैं । “मोक्खो” जीव तथा पुद्गलका जो परस्पर मेलनरूप बंध है उस बंधको नाश करनेमें समर्थ जो निज शुद्ध आत्माकी प्राप्तिरूप परिणाम है वह मोक्ष कहा जाता है । “सपुण्णपावा जे” पुण्य तथा पाप सहित जो आस्रव आदि पदार्थ हैं “ते वि समासेण पभणामो” उनको भी जैसे पहले जीव, अजीव कहे उसी प्रकार संक्षेपसे हम कहते हैं—और वे कैसे हैं कि “जीवाजीवविसेसा” जीव तथा अजीवके विशेष अर्थात् पर्याय हैं । तात्पर्य यह कि चैतन्य आस्रव आदि तो जीवके अशुद्ध परिणाम हैं और अचेतन जो कर्मपुद्गलोंके पर्याय हैं वे अजीवके हैं ॥ इस प्रकार आस्रव आदि अधिकारसूत्रकी गाथा गाई (समाप्त हुई) ॥ २८ ॥

अब तीन गाथाओंसे आस्रव पदार्थोंका व्याख्यान करते हैं, उसमें प्रथम ही भावास्रव तथा द्रव्यास्रवकी सूचना करते हैं;—

अथ गाथात्रयेणास्रवव्याख्यानं क्रियते, तत्रादी भावास्रवद्रव्यास्रवस्वरूपं सूचयति;—

आस्रवदि जेण कम्मं परिणामेणप्पणो स विण्णोओ ।

भावासवो जिणुत्तो कम्मासवणं परो होदि ॥ २९ ॥

व्याख्या—“आस्रवदि जेण कम्मं परिणामेणप्पणो स विण्णोओ भावासवो” आस्र-
वति कर्म येन परिणामेनात्मनः स विज्ञेयो भावास्रवः । कर्मास्रवनिर्मूलनसमर्थशुद्धात्म-
भावनाप्रतिपक्षभूतेन येन परिणामेनास्रवति कर्म कस्यात्मनः स्वस्य स परिणामो भावा-
स्रवो विज्ञेयः । स च कथंभूतः “जिणुत्तो” जिनेन वीतरागसर्वज्ञेनोक्तः । “कम्मासवणं
परो होदि” कर्मास्रवणं परो भवति । ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मणासास्रवणमागमनं परः । पर
इति कोऽर्थः— भावास्रवादन्यो भिन्नो भावास्रवनिमित्तेन तैलमृक्षितानां धूलिसमागम
इव द्रव्यास्रवो भवतीति । ननु “आस्रवति येन कर्म” तेनैव पदेन द्रव्यास्रवो लब्धः,
पुनरपि कर्मास्रवणं परो भवतीति द्रव्यास्रवव्याख्यानं किमर्थमिति यदुक्तं त्वया । तन्न ।
येन परिणामेन किं भवति आस्रवति कर्म तररिणामस्य सामर्थ्यं दर्शितं न च द्रव्यास्र-
वव्याख्यानमिति भावार्थः ॥ २९ ॥

गाथाभावार्थः— जिस परिणामसे आत्माके कर्मका आस्रव होता है उसको श्रीजिने-
न्द्रद्वारा कहा हुआ भावास्रव जानना चाहिये । और भावास्रवसे भिन्न ज्ञानावरणादि रूप
कर्मोंका जो आस्रव है सो द्रव्यास्रव होता है ॥ २९ ॥

व्याख्यार्थः—“आस्रवदि जेण कम्मं परिणामेणप्पणो स विण्णोओ भावासवो”
आत्माके जिस परिणामसे कर्मका आस्रव हो वह परिणाम भावास्रव है, यह जानना चाहिये ।
भावार्थ यह है कि कर्मास्रवके दूर करनेमें समर्थ जो शुद्ध आत्माकी भावना है उस भाव-
नाके प्रतिपक्षभूत (विरोधी) जिस परिणामसे अपने आत्माके कर्मका आस्रव होता है उस
परिणामको भावास्रव जानना चाहिये । वह भावास्रव कैसा है कि “जिणुत्तो” जिन जो
सीवीतराग सर्वज्ञ देव हैं उनसे कहा हुआ है । “कम्मासवणं परो होदि” कर्मोंका जो
आस्रवण है वह पर होता है अर्थात् ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मोंका जो आस्रवण (प्रागमन)
है वह पर है । पर शब्दका अर्थ यह है कि भावास्रवसे भिन्न । भावार्थ—जैसे तैलसे गुग्गुले
रूप पदार्थोंके धूलका समागम होता है उसी प्रकार भावास्रवके निमित्तके जीवके द्रव्यास्रव
होता है । अब यहाँ कोई शंका करते हैं कि “आस्रवदि जेण कम्मं” (जिससे कर्मका
आस्रव होता है) इसी पदसे द्रव्यास्रवकी प्राप्ति होगई फिर “कम्मासवणं परो होदि”
(इससे भिन्न कर्मास्रव होता है) इस पदसे द्रव्यास्रवका व्याख्यान किस अर्थजनक शिष्टे
किया । समाधान—यह शंका जो तुमने कही सो ठीक नहीं । क्योंकि “जिस परिणामसे
क्या होता है कि कर्मका आस्रव होता है” यह जो कथन है उसमें परिणामका सामर्थ्य
दिखाया गया है, द्रव्यास्रवका व्याख्यान नहीं किया गया । यह भावार्थ है ॥ २९ ॥

अथ भावास्त्रवस्वरूपं विशेषेण कथयति;—

मिच्छत्ताविरदिपमादजोगक्रोधादओऽथ विष्णोया ।

पण पण पणदस तिय च्हु कमसो भेदा द् पुव्वस्स ॥ ३० ॥

व्याख्या । “मिच्छत्ताविरदिपमादजोगक्रोधादओ” मिथ्यात्वाविरतिप्रमादयोगक्रोधादयः । अभ्यन्तरे वीतरागनिजात्मतत्त्वानुभूतिरुचिर्विषये विपरीताभिनिवेशजनकं, वहिर्विषये तु परकीयशुद्धात्मतत्त्वप्रभृतिःसमस्तद्रव्येषु विपरीताभिनिवेशोत्पादकं च मिथ्यात्वं भण्यते । अभ्यन्तरे निजपरमात्मस्वरूपभावनोत्पन्नपरमसुखामृतरतिविलक्षणं वहिर्विषये पुनरत्रतरूपा चेत्यविरतिः । अभ्यन्तरे निजप्रमादशुद्धात्मानुभूतिचलनरूपः वहिर्विषये तु मूलोत्तरगुणमलजनकश्चेति प्रमादः । निश्चयेन निष्क्रियस्यापि परमात्मनो व्यवहारेण वीर्यान्तरायक्षयोपशमोत्पन्नो मनोवचनकायवर्गणावलम्बनः कर्मादानहेतुभूत आत्मप्रदेशपरिस्पन्दो योग इत्युच्यते । अभ्यन्तरे परमोपशममूर्तिकेवलज्ञानाद्यनन्तगुणस्वभावपरमात्मस्वरूपक्षोभकारकाः वहिर्विषये तु परेषां संबन्धित्वेन क्रूरत्वाद्यावेशरूपाः क्रोधाद-

अथ भावास्त्रवके स्वरूपका विशेष रीतिसे कथन करते हैं;—

गाथाभावार्थः—अथ प्रथम जो भावास्त्रव है उसके मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और क्रोध आदि कषाय ऐसे पांच भेद जानने चाहिये; और मिथ्यात्व आदिके क्रमसे पांच, पांच, पन्द्रह, तीन और चार भेद समझने चाहिये । अर्थात् मिथ्यात्वके पांच भेद, अविरतिके पांच भेद, प्रमादके पन्द्रह भेद, योगके तीन भेद और क्रोध आदि कषायोंके चार भेद जानने ॥ ३० ॥

व्याख्यार्थः—“मिच्छत्ताविरदिपमादजोगक्रोधादओ” मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग तथा क्रोध आदि वक्ष्यमाण लक्षण तथा संख्यायुक्त भाव आस्त्रवके भेद हैं । इनमेंसे अन्तरंगमें जो वीतराग निज आत्मतत्त्वके अनुभवमें रुचि है उसके विषयमें विपरीत अभिनिवेश (आग्रह) का उत्पन्न करानेवाला तथा बाह्य विषयमें परसंबंधी शुद्ध आत्मतत्त्वसे आदि लेकर संपूर्ण द्रव्योंमें जो विपरीत अर्थात् उलटे आग्रहका उत्पन्न करानेवाला है, उसको मिथ्यात्व कहते हैं । तथा अभ्यन्तरमें निज परमात्माके स्वरूपकी भावनासे उत्पन्न जो परम सुखरूप अमृत है, उद्य परम सुखमें जो रति (प्रीति) है उससे विलक्षण, तथा बाह्य विषयमें त्रत आदिका धारण न करने रूप जो है सो अविरति है । तथा अभ्यन्तरमें प्रमादरहित जो शुद्ध आत्मा है उसके अनुभवसे चलन (डिगाने) रूप और बाह्य विषयमें जो मूलगुण तथा उत्तर गुण हैं उनमें अतिचार उत्पन्न करनेवाला प्रमाद है । निश्चयसे क्रियारहित परमात्माके भी जो व्यवहारसे वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न तथा मन, वचन और काय वर्गणाको अवलम्बन करनेवाला, कर्मोंके ग्रहण करनेमें कारणभूत आत्माके प्रदेशोंका परिस्पन्द (संचलन) है उसको योग कहते हैं । तथा अभ्यन्तरमें परम उपशम मूर्तिवाला तथा केवलज्ञान आदि अनन्त गुणोंरूप स्वभावका धारक

अथेत्युक्तलक्षणाः पञ्चासवाः "अथ" अथो "विष्णोया" विज्ञेया ज्ञातव्याः । कतिभे-
दास्ते "पण पण पणदस तिय चदु कमसो भेदा हु" पञ्चपञ्चदशत्रिचतुर्भेदाः क्रमशो
भवन्ति पुनः । तथाहि "एयंतुद्विदरसी विवरीओ नद्यतावसो विणओ । इंदो विय
संसद्दो मफदिओ चैव अण्णाणी । १ ।" इति गाथाकथितलक्षणं पञ्चविधं मिथ्यात्वम् ।
हिंसानृतस्तेयाग्रहपरिग्रहाकाङ्क्षारूपेणाविरतिरपि पञ्चविधा । अथवा मनःसहितपञ्चेन्द्रि-
यप्रवृत्तिप्रवृत्त्यादिपट्कायविराघनाभेदेन द्वादशविधा । "यिकहा तह्य कसाया इन्दि-
यणिहा य तह य पणयो य । चदु चदु पणमेगेगं हुंति पमादा हु पण्णरसा । १ ।" इति
गाथाकथितक्रमेण पञ्चदश प्रमादाः । मनोवचनकायव्यापारभेदेन त्रिविधो योगः,
विस्तरेण पञ्चदशभेदो वा । क्रोधमानमायालोभभेदेन कपायाश्रत्वारः, कपायनोकपा-
यभेदेन पञ्चविंशतिविधा वा । एते सर्वे भेदाः कस्य संघन्धिनः "पुञ्चरस" पूर्वसूत्रोदि-
तभाषास्रवस्येत्यर्थः ॥ ३० ॥

अथ द्रव्यास्रवस्वरूपमुच्यते—

पाणावरणादीणं जोगं लं पुग्गलं समासवदि ।

दव्वासवो स णेओ अपेयमेओ जिणक्खादो ॥ ३१ ॥

जो परमात्मा का स्वरूप है उसमें लोभको उत्पन्न करनेवाले तथा चाह विषयमें परके संबंधी-
पनेसे क्रूरता आदिके आवेज्ञ रूप जो क्रोध आदि हैं उनको कपाय कहते हैं । इस प्रकार
पूर्वोक्त लक्षणके धारक मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग तथा कपाय ये पांच भावास्तव हैं । ये
"अथ" पूर्वकथनके अर्थात् २९ वीं गाथामें कहे हुए कथनके पश्चात् "विष्णोया" जानने
चाहिये । अथ इन पांच भावास्तवोंके कितने भेद हैं सो कहते हैं— "पण पण पणदस
तिय चदु कमसो भेदा हु" और उन मिथ्यात्व आदिके क्रमसे पांच, पांच, पन्द्रह, तीन
और चार भेद हैं । ये इस प्रकार हैं "धीदमतवाले आदि एकान्तमिथ्यात्वी हैं १. नष्ट
करनेवाले ब्राह्मण आदि विपरीतमिथ्यात्वके धारक हैं २. तापस आदि दिनयमिष्यात्वी हैं
३. इन्द्रावायं आदि संशयमिथ्यात्वी हैं ४. और मस्करो आदि अज्ञानमिथ्यात्वी हैं ५."
हिंसा, असत्य, चोरी, अन्नह्न और परिग्रहमें इन्द्रारूप अविरति भी पांच प्रकारकी है, अथवा
जहाँ अविरति मन और पाँचों इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिरूप ६ भेद तथा जह्कारके जीवोंकी
विराघनारूप ६ भेद ऐसे दोनोंके मिथ्यानेसे धारक प्रकारकी भी है । "यार विकया, चार
कपाय, पांच इन्द्रिय, निद्रा और राग ऐसे पन्द्रह प्रमाद होते हैं ॥ १ ॥" इस गाथा-
कथित क्रमसे प्रमाद पन्द्रह हैं । मनोव्यापार, वचनव्यापार और कायव्यापार इन भेदोंमें
योग तीन प्रकारका है अथवा विस्तारमें १५ प्रकारका है । क्रोध, मान, माया तथा लोभ
इन भेदोंसे कपाय चार प्रकारके हैं, अथवा १६ कपाय और ९ नोकपाय इन भेदोंमें दस
प्रकारके कपाय हैं । ये सब भेद किस आश्रयके संबन्धी हैं कि "पुञ्चरस" पूर्वगाथामें
कहा हुआ जो भावास्तव हैं उनके भेद हैं । इस प्रकार गाथाका अर्थ है ॥ ३० ॥

पयडिडिदिअणुभागपदेसभेदादु चदुविधो बंधो ।

जोगा पयडिपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो होंति ॥ ३३ ॥

व्याख्या । “पयडिडिदिअणुभागपदेसभेदादु चदुविधो बंधो” प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशभेदाच्चतुर्विधो बन्धो भवति । तथाहि—ज्ञानावरणीयस्य कर्मणः का प्रकृतिः ? देवतासुखवस्त्रमिव ज्ञानप्रच्छादनता । दर्शनावरणीयस्य का प्रकृतिः ? राजदर्शनप्रतिषेधकप्रतीहारवदर्शनप्रच्छादनता । सातासातवेदनीयस्य का प्रकृतिः ? मधुलिप्रखङ्गधारास्वादनबदल्पसुखबहुदुःखोत्पादकता । मोहनीयस्य का प्रकृतिः ? मद्यपानवद्वेषोपादेयविचारविकलता । आयुःकर्मणः का प्रकृतिः ? निगडवद्गत्यन्तरगमननिवारणता । नामकर्मणः का प्रकृतिः ? चित्रकारपुरुषवन्नानारूपकरणता । गोत्रकर्मणः का प्रकृतिः ? गुरुलघुभाजनकारककुम्भकारवदुच्चनीचगोत्रकरणता । अन्तरायकर्मणः का प्रकृतिः ? भाण्डागारिकवद्दानादिविघ्नकरणतेति । तथाचोक्तं—“पडपडिहारसिमज्जाहडिचित्तकुलालभंडयारोणं । जहएदेसिं भावा तहविह कम्मा सुणेयन्वा ॥ ४ ॥” इति दृष्टान्ताष्टकेन प्रकृतिबन्धो

गाथाभावार्थः— प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इन भेदोंसे बंध चार प्रकारका है । इनमें योगोंसे प्रकृति तथा प्रदेशबंध होते हैं और कपायोंसे स्थिति तथा अनुभाग बंध होते हैं ॥ ३३ ॥

व्याख्यार्थः—“पयडिडिदिअणुभागपदेसभेदादु चदुविधो बंधो” प्रकृतिबन्ध, स्थितिवन्ध, अनुभागबन्ध, और प्रदेशबन्ध इन भेदोंसे बंध चार प्रकारका है । सो ही विशेषतासे दिखलाते हैं—ज्ञानावरणी कर्मकी प्रकृति (स्वभाव) क्या है ; इस जिज्ञासामें उत्तर यह है कि जैसे देवताको सुखवस्त्र आवरण (पडदा) आच्छादित कर लेता है अर्थात् ढक लेता है उसी प्रकार ज्ञानावरणी कर्म ज्ञानको ढक लेता है । दर्शनावरणीकी प्रकृति क्या है ? राजाके दर्शनकी रुकावट जैसे द्वारपाल करता है उसी प्रकार दर्शनावरणी दर्शनको नहीं होने देता है । सातावेदनी और असातावेदनी नामक दो भेदोंका धारक जो वेदनी कर्म है उसकी क्या प्रकृति है ? मधु (शहद) से लिपटी हुई तलवारकी धार चाटनेमें जैसे अल्प सुख और अधिक दुःख उत्पन्न होता है, वैसे ही वेदनी कर्म भी अल्प सुख और अधिक दुःखको देनेवाला है । मद्य (मदिरा) पानके समान हेयः (त्यागने योग्य), उपादेय (ग्रहण करने योग्य) पदार्थके ज्ञानकी रहितता यह मोहनी कर्मकी प्रकृति है । वेड़ीके समान दूसरी गतिमें जानेको रोकना यह आयुःकर्मकी प्रकृति है । चित्रकार (चितेरा) पुरुषके तुल्य नानाप्रकारके रूपका करना यह नामकर्मकी प्रकृति है । छोटे बड़े भाजन (घट आदि) को करनेवाले कुंभारकी भांति उच्च तथा नीच गोत्रको करना यह गोत्र कर्मकी प्रकृति है । भंडारीके समान दान आदिमें चित्र करना यह अन्तराय कर्मकी प्रकृति है । सो ही कहा है—“पट (वस्त्र), प्रतीहार (द्वारपाल), तलवार, मद्य, वेड़ी, चितेरा, कुम्भकार और भंडारी इन आठोंका जैसा स्वभाव है वैसा ही क्रमसे ज्ञानावरण आदि

ज्ञातव्यः ॥ अजागोमहिष्यादिदुग्धानां प्रहरद्वयादिरवकीयमधुररसावस्थानपर्यन्तं यथा स्थितिर्भण्यते तथा जीवप्रदेशेष्वपि यावत्कालं कर्मसंबन्धेन स्थितिस्तावत्कालं स्थितिवन्धो ज्ञातव्यः । यथा च तेषामेव दुग्धानां तारतम्येन रसगतशक्तिविशेषोऽनुभागो भण्यते तथा जीवप्रदेशस्थितकर्मरक्षणांमपि सुखदुःखदानसमर्थशक्तिविशेषोऽनुभागवन्धो विज्ञेयः । सा च घातिकर्मसम्बन्धिनी शक्तिर्लाटार्वास्थिपायाणभेदेन चतुर्धा । तथैवाशुभाऽघातिकर्मसंबन्धिनी निम्बकाक्षीरविपहालाहलरूपेण । शुभाघातिकर्मसंबन्धिनी पुनर्गुडखण्डशर्करामृतरूपेण चतुर्धा भवति । एकैकात्मप्रदेशे सिद्धान्तैकभागसंख्या अभव्यानन्तगुणप्रमिता अनन्तानन्तपरमाणवः प्रतिक्षणवन्धमायान्तीति प्रदेशवन्धः ॥ इदानीं बन्धकारणं कथ्यते । “जोगा पयद्विपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो हुंति ।” योगात्प्रकृतिप्रदेशौ, स्थित्यनुभागौ कषायतो भवत इति । तथाहि—निम्बयेन निष्क्रियाणामपि शुद्धात्मप्रदेशानां व्यवहारेण परिस्पन्दनहेतुर्योगः, तस्मात्प्रकृतिप्रदेशवन्धद्वयं भवति ।

आठों कर्मोंका स्वभाव है ॥ १ ॥” इस प्रकार गायामें कहे हुए आठ दृष्टान्तोंके अनुसार प्रकृति बंध जानना चाहिये ॥ तात्पर्य यह कि कर्मपदुद्गलोंका ज्ञानावरण आदि शक्ति सहित हो जाना ही प्रकृतिबंध है । तथा बकरी, गौ, महिषी (भैंस) आदिके दुग्धोंमें जैसे दो प्रहर आदि अपने मधुर रसमें रहनेकी स्थिति कही जाती है । अर्थात् बकरीका दूध दो प्रहर तक अपने मधुर रसमें स्थित रहता है, इत्यादि स्थितिका कथन है उसी प्रकार जीवके प्रदेशोंमें जितने काल पर्यन्त कर्मसंबंधसे स्थिति है उतने कालको स्थितिवन्ध जानना चाहिये । और जैसे उन पूर्वोक्त बकरी आदिके दूधोंमें तारतम्यसे (न्यूनाधिकतासे) मधुर-रसमें प्राप्त शक्तिविरोपरूप अनुभाग कहा जाता है उसी प्रकार जीवके प्रदेशोंमें स्थित जो कर्मोंके प्रदेश हैं उनके जो सुख तथा दुःख देनेमें समर्थ शक्तिविशेष है उसको अनुभाग बन्ध जानना चाहिये । और वह घाति कर्मसे संबन्ध रखनेवाली शक्ति लता (चेल), काष्ठ, हाड़ और पायाग भेदसे चार प्रकारकी हैं, इसी प्रकार अशुभ अघातिया कर्मों संबन्धिनी शक्ति निंब, फांजोर (काली जीरी), विप तथा हालाहल रूपसे चार प्रकारकी हैं । और शुभ अघातिया कर्मों संबंधी शक्ति गुड, खांड, मिश्री तथा अमृत इन भेदोंसे चार तरहकी है । एक एक आत्माके प्रदेशमें सिद्धोंसे अनन्तैकभाग (अनन्तमेसे एक भाग) संख्याके धारक और अभिव्यक्तिसे अनन्तगुणे परिमाणके धारक ऐसे अनन्तानन्त परमाणु प्रत्येक क्षणमें बंधको प्राप्त होते हैं । इस प्रकार प्रदेशबंधका स्वरूप है । अब बंधके कारणको कहते हैं—“जोगा पयद्विपदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो हुंति” योगसे प्रकृति तथा प्रदेशवन्ध होते हैं और स्थिति तथा अनुभाग ये दो बन्ध कषायोंसे होते हैं । इसका स्पष्टीकरण यह है कि, निम्बयनयसे जो कियारहित भी शुद्ध आत्माके प्रदेश हैं उनके व्यवहारेसे जो परिस्पन्दन (चलायमान करनेका) कारण है उसको योग कहते हैं । उस योगसे प्रकृति तथा प्रदेश नामक दो बंध होते हैं । और दोपरहित जो परमात्मा है, उसको भावना

वर्तते, तत्रैव मिथ्यादृष्टिगुणस्थाने संवरो नास्ति, सासादनादिगुणस्थानेषु "सोलसप
वीसणभं दसचउलककेकंधवोच्छिणा । दुगतीसचदुरपुव्वे पणसोलस जोगिणो एक्को ।
इति बन्धविच्छेदत्रिभङ्गीकथितक्रमेणोपर्युपरि प्रकर्षेण संवरो ज्ञातव्य इति । अशुद्धनिश्च
यमध्ये मिथ्यादृष्ट्यादिगुणस्थानेषूपयोगत्रयं व्याख्यातं, तत्राशुद्धनिश्चये शुद्धोपयोगः व
घटत इति चेत्तत्रोत्तरं—शुद्धोपयोगे शुद्धबुद्धैकस्वभावो निजात्मा ध्येयस्तिष्ठति तेन का
णेन शुद्धध्येयत्वाच्छुद्धावलम्बनत्वाच्छुद्धात्मस्वरूपसाधकत्वाच्च शुद्धोपयोगो घटते । स
संवरशब्दवाच्यः शुद्धोपयोगः संसारकारणभूतमिथ्यात्वरामाद्यशुद्धपर्यायवदशुद्धो
भवति तथैव फलभूतकेवलज्ञानलक्षणशुद्धपर्यायवत् शुद्धोऽपि न भवति किन्तु ताभ्याम
शुद्धशुद्धपर्यायाभ्यां विलक्षणं शुद्धात्मानुभूतिरूपनिश्चयरत्नत्रयात्मकं मोक्षकारणमेकदेश
व्यक्तिरूपमेकदेशनिरावरणं च तृतीयमवस्थान्तरं भण्यते ।

कश्चिदाह—केवलज्ञानं सकलनिरावरणं शुद्धं तस्य कारणेनापि सकलनिरावरणेन

इनके पश्चात् अप्रमत्त आदि क्षीणकपाय पर्यन्त गुणस्थानोंमें जघन्य, मध्यम
उत्कृष्ट भेदसे विवक्षित एकदेश शुद्ध नयरूप शुद्ध उपयोग वर्तता है । इनमें
व्यवस्था इस प्रकार है कि—मिथ्यादृष्टि नामक प्रथम गुणस्थानमें तो संवर है ही नहीं
और सासादन आदि गुणस्थानोंमें "सोलसपणवीसणभं दस चउलककेकंधवोच्छिणा
दुगतीस चदुरपुव्वे पणसोलह जोगिणो एक्को । १ ।" इस प्रकार बंधविच्छेद
त्रिभंगीमें कहे हुए क्रमके अनुसार ऊपर २ अधिकतासे संवर जानना चाहिये । ऐसे
अशुद्ध निश्चयनयके मध्यमें मिथ्यादृष्टि आदि गुणस्थानोंमें अशुभ, शुभ और शुद्धरूप
तीनों उपयोगोंका व्याख्यान किया । इस अशुद्ध निश्चयमें शुद्ध उपयोग किस प्रकार सिद्ध
हो सकता है ऐसा प्रश्न करो तो उसमें उत्तर यह है कि शुद्ध उपयोगमें शुद्ध बुद्ध एक
स्वभावका धारक जो निज आत्मा है सो ध्येय होता है, इस कारण शुद्ध ध्येय (ध्यान
करने योग्य पदार्थ) होनेसे शुद्ध अवलम्बन (आधार) पानेसे तथा शुद्ध आत्मस्वरूपका
साधक होनेसे शुद्धोपयोग सिद्ध होता है । और वह 'संवर' इस शब्दसे कहे जाने योग्य
जो शुद्धोपयोग है सो संसारके कारणभूत जो मिथ्यात्व, राग आदि अशुद्ध पर्याय हैं उन-
की सी तरह अशुद्ध नहीं होता है और इसी प्रकार फलभूत जो केवलज्ञान स्वरूप शुद्ध
पर्याय है उसकी भाँति शुद्ध भी नहीं होता है; किन्तु उन अशुद्ध तथा शुद्ध दोनों पर्या-
योंसे विलक्षण, शुद्ध आत्माके अनुभवस्वरूप निश्चय रत्नत्रयरूप, मोक्षका कारण, एक
देशमें व्यक्तिरूप (प्रकटरूप) और एक देशमें आवरणरहित ऐसा तृतीय अवस्थान्तर-
रूप कहा जाता है ।

अब यहाँ कोई शंका करता है कि केवलज्ञान समस्त आवरणोंसे रहित और
शुद्ध है इसलिये केवलज्ञानका कारण भी समस्त आवरणों रहित तथा शुद्ध होना चाहिये ।
क्योंकि, उपादान कारणके समान कार्य होता है ऐसा वचन है । अब इस शंकाका उत्तर

शुद्धेन भाव्यम्, उपादानकारणसदृशं कार्यं भवतीति वचनात् । तत्रोत्तरं दीयते-युक्तमुक्तं भवता परं किन्तु उपादानकारणमपि षोडशघणिकासुवर्णकार्यस्याधत्तनघणिकोपादानकारण-
 वत्, मृन्मयफलशकार्यस्य मृत्पिण्डस्यासकौशकुशूलोपादानकारणवदिति च कार्यादेकदेशेन भिन्नं भवति । यदि पुनरेकान्तेनोपादानकारणस्य कार्येण सहाभेदो भेदो वा भवति तर्हि पूर्वोक्तसुवर्णमृत्तिकादृष्टान्तद्वयवत्कार्यकारणभावो न घटते । ततः किं सिद्धं- एक-
 देशेन निरावरणत्वेन क्षायोपशमिकज्ञानलक्षणमेकदेशव्यक्तिरूपं विवक्षितैकदेशे शुद्धनयेन संवरणवत्त्वान्नयं शुद्धोपयोगस्वरूपं मुक्तिकारणं भवति । यद्य लब्ध्यपर्याप्तसूक्ष्मनिगोदजीवे नित्योद्घाटं निरावरणं ज्ञानं श्रूयते तदपि सूक्ष्मनिगोदसर्वजघन्यशयोपशमापेक्षया निरा-
 वरणं न च सर्वथा । कस्मादिति चेत्- तदावरणे जीवाभावः प्राप्नोति । वस्तुतः उपरि-
 तनक्षायोपशमिकज्ञानापेक्षया केवलज्ञानापेक्षया च तदपि सावरणं संसारिणां प्रायिकज्ञाना-
 नाभावाच्च क्षयोपशमिकमेव । यदि पुनर्लोचनपटलस्यैकदेशनिरावरणवत्केवलज्ञानांश-

दिया जाता है कि आपने ठीक कहा परन्तु उपादान कारण भी सोलह वानीके सुवर्णरूप कार्यके अधोभागवतिनी (पूर्ववर्तिनी) घणिकारूप उपादान कारणके समान और मृत्तिकारूप फलशकार्यके प्रति मृत्तिकाका पिण्ड, स्थान, कोश, एवं कुशूलरूप उपादान कारणके सदृश कार्यसे एक देशसे भिन्न होता है अर्थात् सोलह वानीके सोनेके प्रति जैसे पहलेकी सब पन्द्रह घणिकार्ये उपादान कारण हैं और घटके प्रति जैसे मृत्तिका-
 पिण्ड, स्थान, कोश, कुशूल आदि उपादान कारण हैं सो सोलह वानीके सुवर्ण और घट-
 रूप कार्यसे एकदेशभिन्न हैं (सर्वथा सोलह वानीके सुवर्णस्वरूप तथा घटरूप नहीं है) इसी प्रकार समस्त उपादान कारण कार्यसे एकदेश भिन्न होते हैं । और यदि सर्वथा उपादानकारणका कार्यके साथ अभेद हो तो पूर्वोक्त जो सुवर्ण और मृत्तिकाके दो दृष्टान्त हैं उनके समान कार्य और कारणभाव ही नहीं सिद्ध हो अर्थात् सोलह वानीके सुवर्णको ही सोलह वानीके सुवर्णरूप कार्यके प्रति उपादान कारण माना जावे अथवा घट-
 को ही घटके प्रति उपादान कारण मानें तो यह इसका कारण है यह इसका कार्य है इस प्रकारका कार्य कारणभाव नहीं हो सकता । इस कारण क्या सिद्ध हुआ कि एकदेश निरावरणतासे क्षयोपशमिक ज्ञानरूप लक्षणका धारक एकदेश व्यक्तिरूप और विवक्षित एक देशमें शुद्धनयसे 'संवर' इस शब्दसे वाच्य जो शुद्ध उपयोगका स्वरूप है सो मृत्तिका कारण होता है । और जो लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद जीवमें नित्य उद्घाट (खुला हुआ) तथा आवरणरहित ज्ञान सुना जाता है वह भी सूक्ष्म निगोदमें सर्व जघन्य जो क्षयोपशम है उसको अपेक्षासे आवरणरहित है, सर्वथा नहीं । ऐसा क्यों है ? इसका उत्तर यह है कि यदि ज्ञानको आवरण ही हो तो जीवका अभाव पाने होता है । यथायं तो उपरिवर्ती क्षयोपशमिक ज्ञानको अपेक्षासे और केवल ज्ञानको अपेक्षासे वह ज्ञान भी आवरणरहित है और संसारों जीवोंके प्रायिक ज्ञानका अभाव है

कञ्चानलक्षणं परमात्मस्वरूपं तदेवाहं न च स्वप्नज्ञानरूप इति भावनीयम् । इति संवर-
तत्त्वव्याख्यानविषये नयविभागो ज्ञातव्य इति ॥ ३४ ॥

अथ संवरकारणभेदान् कथयतीत्येका पातनिका, द्वितीया तु कैः कृत्वा संवरो भव-
तीति वृष्टे प्रत्युत्तरं ददातीति पातनिकाद्वयं मनसि धृत्वा सूत्रमिदं प्रतिपादयति भगवान्—

वदसमिदीगुत्तीओ धम्माणुपेहा परीसहजओ य ।

चारिचं बहुमेया णायच्वा भावसंवरविसेसा ॥ ३५ ॥

व्याख्या । 'वदसमिदीगुत्तीओ' व्रतसमितिगुप्तयः "धम्माणुपेहा" धर्मस्तथैवानुप्रेक्षाः
"परीसहजओ य" परीपहजयश्च "चारिचं बहुमेया" चारित्र्यं बहुभेदयुक्तं "णायच्वा
भावसंवरविसेसा" एते सर्वे मिलिता भावसंवरविशेषा भेदा ज्ञातव्याः । अथ विन्तरः—
निश्चयेन विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजात्मतत्त्वभावनोत्पन्नमुखमुखास्वादवलेन समस्तगुभा-
गुभरागादिविकल्पनिवृत्तिव्रतम्, व्यवहारेण तत्साधकं हिंसानृतस्तेयाव्रतपरिमहाच्च
यावज्जीवनिवृत्तिलक्षणं पञ्चविधं व्रतम् । निश्चयेनानन्तज्ञानादिस्वभावे निजात्मनि सम्

स्वरूप ही सोही मैं हूँ और खंड ज्ञानरूप नहीं" ऐसा ध्यान करना चाहिये । इस प्रकार
संवर तत्त्वके व्याख्यानके विषय में नयका विभाग जानना चाहिये ॥ ३४ ॥

अथ संवरके कारणोंके भेद कहते हैं । यह तो एक भूमिका है और किनसे संवर होता
है ? इस प्रश्नमें उत्तर देनेवाली दूसरी भूमिका है । इन दोनों पातनिका (भूमिका)ओंको
मनमें धारण करके, भगवान् श्रीनेमिचन्द्र स्वामी इस अप्रिम गाथासूत्रका प्रतिपादन
करते हैंः—

गाथाभावार्थः—पांच व्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति, दश धर्म, वारह अनुप्रेक्षा,
बाईस परीपहोंका जय तथा अनेक प्रकारका चारित्र्य, इस प्रकार ये सब भावसंवर के
भेद जानने चाहिये ॥

व्याख्यार्थः—"वदसमिदीगुत्तीओ" व्रत,समिति और गुप्तियाँ, "धम्माणुपेहा"धर्म
तथा अनुप्रेक्षा "परीसहजओ य" और परीपहोंका जीतना "चारिचं बहुमेया" अनेक
प्रकारका चारित्र्य "णायच्वा भावसंवरविसेसा" ये सब मिले हुए भावसंवरके भेद जानने
चाहिये । अब इस वृक्ष विषयका विस्तारसे वर्णन करते हैं—निश्चयनपक्षे विशुद्ध ज्ञान
और दर्शनरूप स्वभावका धारक जो निज आत्मतत्त्व प्रसङ्गी भावनासे उत्पन्न जो मुख्यरूपी
अमृत इसके आनवादेके बलसे संपूर्ण शुभ तथा अशुभ राग आदि विकल्पोंसे जो रहित
होना सो व्रत है, और व्यवहारसे व्रत निश्चय व्रतको साधनेवाला हिंसा, अनृत (मृत),
चोरी, अव्रत और परिग्रहसे जीवनपर्यन्त रहितत्वारूप लक्षणका धारक पांच प्रकारका
व्रत है । निश्चयनपक्षे विषयसे अनन्त ज्ञान आदि स्वभावका धारक जो निज ज्ञाना है
उपमें 'सम्' भले प्रकार अर्थात् समस्त राग आदि विभावोंके त्याग द्वारा जानाने तीन

भयमिश्रं चेत्युक्तलक्षणं तत्सर्वमध्रुवमिति भावयितव्यम् । तद्भावनासहितपुरुषस्य तेषां वियोगेऽपि सत्युच्छिष्टेष्विव ममत्वं न भवति तत्र ममत्वाभावाद्विनश्वरनिजपरमात्मान-
मेव भेदाभेदरत्नत्रयभावनया भावयति, यादृशमविनश्वरमात्मानं भावयति तादृशमेवा-
क्षयानन्तसुखस्वभावं मुक्तात्मानं प्राप्नोति । इत्यध्रुवानुपेक्षा गता ।

अथ निश्वररत्नत्रयपरिणतं स्वशुद्धात्मद्रव्यं तद्द्विहरङ्गसहकारिकारणभूतं पञ्चपरमेष्ठ्या-
राधनञ्च शरणम्, तस्माद्बहिर्भूता ये देवेन्द्रचक्रवर्त्तिसुभटकोटिमटपुत्रादिचेतना गिरिदु-
र्गभूषिवरमणिमन्त्राक्षाप्रसादौपधादयः पुनरचेतनास्तदुभयात्मका मिश्राश्च मरणकालादौ
महादृष्ट्या व्याघ्रगृहीतमृगवालस्येव महासमुद्रे पोतच्युतपक्षिण इव शरणं न भवन्तीति
चित्तैर्यम् । तद्विघ्नाय भोगाकाङ्क्षारूपनिदानग्रन्थादिनिरालम्ब्येन स्वसंवित्तिसमुत्पन्नमुखा-
मृतसालम्ब्येन स्वशुद्धात्मन्येवावलम्ब्येन कृत्वा भावनां करोति । यादृशं शरणभूतमात्मानं
भावयति तादृशमेव सर्वकालशरणभूतं शरणागतवत्पञ्चपरसदृशं निजशुद्धात्मानं प्राप्नोति ।
इत्यशरणानुपेक्षा व्याख्याता ॥

पदार्थ इतः प्रकार पूर्वोक्त लक्षणोंसहित जो ये हैं सो सब अध्रुव हैं, इस प्रकार भावना
चाहिये । उस भावनासहित जो पुरुष है, उसके उनके वियोग होनेपर भी उच्छिष्ट (जूँठ)
भोजनोंके समान ममत्व नहीं होता है । और उनमें ममत्वका अभाव होनेसे अविनाशी
निज परमात्माको ही भेद तथा अभेदरूप रत्नत्रयकी भावनासे भावन करता (भावता) है
और जैसे अविनश्वर आत्माको भावता है, वैसे ही अक्षय अनन्तसुखरूप स्वभावका धारक
जो मुक्त आत्मा है उसको प्राप्त होता है । इस प्रकार अध्रुव भावना पूर्ण हुई ।

अथ अशरण अनुपेक्षाका वर्णन करते हैं । निश्वररत्नत्रयमें परिणत जो निजशुद्धात्म-
द्रव्य है सो और उसका वहिरंग सहकारी कारणभूत जो पंचपरमेष्ठियोंका आराधन है सो
शरण है । उससे बहिर्भूत (भिन्न) जो देव, इन्द्र, चक्रवर्त्ती, सुभट, कोटिमट और पुत्र
आदि चेतन, पर्वत, किला, भूविधर (भोंहरा), नणि, मन्त्र, जाहा, प्रसाद और औपद्य
आदि अचेतन तथा चेतन और अचेतन इन दोनोंसे मिल, ये सब पदार्थ मरण आदिके
समयमें जैसे महाबनमें व्याघ्रसे पकड़े हुए हिरणके बच्चेको अथवा महासमुद्रमें
जहाजसे च्युत (रहित) हुए पत्नीको कोई शरण नहीं है, उसी प्रकार शरण नहीं होते हैं,
यह जानना चाहिये । और अन्य वस्तुको अपना शरण न जानकर, भोगको चांछारूप
निदानबंध आदिके अवलम्बन (आभार)से रहित तथा स्व (आत्म) ज्ञानसे उत्पन्न
सुखरूप अमृतका धारक जो निजशुद्ध आत्मा है, उसीका अवलंबन करके, उसको भावनाको
करना है । और जैसे आत्माको यह शरणभूत भावता है, वैसेही सब कालमें शरणभूत
और शरणमें आये हुएके अर्थ बरुके बीजरेके समान जो निजशुद्ध आत्मा है, उसको प्राप्त
होना है । इस प्रकार द्वितीय अशरण अनुपेक्षाका व्याख्यान हुआ ॥

अथ शुद्धात्मद्रव्यादितराणि सपूर्वापूर्वमिश्रपुद्गलद्रव्याणि ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मरूपेण शरीरपोषणार्थाशनपानादिपञ्चेन्द्रियविषयरूपेण चानन्तवारान् गृहीत्वा विमुक्तानीति द्रव्यसंसारः । स्वशुद्धात्मद्रव्यसंबन्धिसहजशुद्धलोकाकाशप्रमितासंख्येयप्रदेशेभ्यो भिन्ना ये लोकक्षेत्रप्रदेशास्तत्रैकैकं प्रदेशं व्याप्यानन्तवारान् यत्र न जातो न मृतोऽयं जीवः स कोऽपि प्रदेशो नारतीति क्षेत्रसंसारः । शुद्धात्मानुभूतिरूपनिर्विकल्पसमाधिकालं विहाय प्रत्येकं दशकोटाकोटिसागरेण प्रमितोत्सर्पण्यवसर्पण्येकैकसमये नानापरावर्त्तनकालेनानन्तवारानयं जीवो यत्र न जातो न मृतः स समयो नारतीति कालसंसारः । अभेदरत्नत्रयात्मकसमाधिबलेन सिद्धगतौ स्वात्मोपलब्धिलक्षणसिद्धपर्यायरूपेण योऽसावुत्पादो भवस्तं विहाय नारकर्तियमनुष्यभवेषु तथैव देवभवेषु च निश्चयरत्नत्रयभावनारहितभोगाकाङ्क्षानिदानपूर्वकद्रव्यतपश्चरणरूपजिनदीक्षाबलेन नवत्रैवैकपर्यन्तं "सक्यो सक्यमहिस्सी दविखणइंदा य लोयवाला य । लोयंतिया य देवा तच्छ चुदा णिबुदि जंदि । १ ।" इति गाथाकथितपदानि तथागमनिपिद्धान्यपदानि च त्यक्त्वा भवविध्वंसकनि-

अव तृतीय संसारानुप्रेक्षाका वर्णन करते हैं । शुद्ध आत्मद्रव्यसे भिन्न जो सपूर्व, अपूर्व तथा मिश्र ऐसे पुद्गल द्रव्य हैं, उनको ज्ञानावरण आदि द्रव्यकर्म रूपसे तथा शरीरके पोषण के लिये भोजन पान आदि पांचों इन्द्रियोंके विषयरूप से इस जीवने अनन्त बार ग्रहण करके छोड़ा है । इस प्रकार द्रव्यसंसार है । निजशुद्ध आत्मारूप द्रव्यसंबन्धीजो सहज शुद्ध लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश हैं, उनसे भिन्न जो लोकरूप क्षेत्रके प्रदेश हैं । उनमें, एक एक प्रदेशको व्याप्त करके, जिस प्रदेशमें अनन्त बार यह जीव नहीं उत्पन्न हुआ हो और न मरा हो, वह कोई भी प्रदेश नहीं है । यह क्षेत्रसंसार है । निजशुद्ध आत्माके अनुभवरूप निर्विकल्प समाधि (ध्यान) के समयको त्यागकर, दशकोटाकोटीसागर प्रमाण जो उत्सर्पणी काल और दशकोटाकोटिसागर प्रमाण ही जो अवसर्पणी काल है, उसके एक एक समयमें अनेक परावर्त्तन कालसे यह जीव यहांपर अनन्तबार न जन्मा हो और न मरा हो वह समय नहीं है । इस प्रकार कालसंसार है । अभेद रत्नत्रयस्वरूप ध्यानके बलसे सिद्धगतिमें निज आत्माकी प्राप्ति लक्षण सिद्ध पर्यायरूप जो उत्पाद (जन्म) है उसको त्यागकर नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देवोंके भावोंमें निश्चयरत्नत्रयकी भावनासे रहित भोग वांछादि निदान सहित जो द्रव्यतपश्चरणरूप जिनदीक्षा (मुनिपना) है उसके बलसे नव त्रैवैक पर्यन्त "प्रथम स्वर्गका इन्द्र, प्रथम स्वर्गकी महा इन्द्राणी शची, दक्षिण दिशाके इन्द्र, लोकपाल और लीकान्तिक देव ये सब स्वर्गसे च्युत होकर निर्धृति (मोक्ष) को प्राप्त होते हैं । १ ।" ऐसे गाथामें कहे हुए पृथोक्त पद तथा अन्य अन्य भी जो आगममें निपिद्ध (मना किये हुए) उत्तम पद हैं उनको छोड़कर, भवका नाश करनेवाली जो निज आत्माकी भावना है उससे रहित तथा भवको उत्पन्न करनेवाले मिथ्यात्व राग आदि जो भाव हैं उनसे रहित हुआ यह जीव

जशुद्धात्मभावनारहितो भवोत्पादकमिध्यात्वरगादिभावनासहितश्च सन्नयं जीवोऽनन्त-
वारान् जीवितो मृतश्चेति भवसंधारो ज्ञातव्यः ।

अथ भावसंसारः कथ्यते । तद्यथा—सर्वजघन्यप्रकृतिवन्धप्रदेशवन्धनिमित्तानि सर्व-
जघन्यमनोवचनकायपरिस्पन्दरूपाणि श्रेण्यसंख्येयभागप्रमितानि चतुःस्थानपतितानि
सर्वजघन्ययोगस्थानानि भवन्ति । तथैव सर्वोत्कृष्टप्रकृतिवन्धप्रदेशवन्धनिमित्तानि सर्वो-
त्कृष्टमनोवचनकायव्यापाररूपाणि तद्योग्यश्रेण्यसंख्येयभागप्रमितानि चतुःस्थानपतितानि
सर्वोत्कृष्टयोगस्थानानि च भवन्ति । तथैव सर्वजघन्यस्थितिबन्धनिमित्तानि सर्वजघन्यक-
पायाध्यवसायस्थानानि तद्योग्यासंख्येयलोकप्रमितानि षट्स्थानपतितानि च भवन्ति ।
तथैव च सर्वोत्कृष्टकपायाध्यवसायस्थानानि तान्यप्यसंख्येयलोकप्रमितानि षट्स्थानपति-
तानि च भवन्ति । तथैव सर्वजघन्यानुभागवन्धनिमित्तानि सर्वजघन्यानुभागाध्यवसा-
यस्थानानि तान्यप्यसंख्येयलोकप्रमितानि षट्स्थानपतितानि भवन्ति । तथैव च सर्वोत्कृ-
ष्टानुभागवन्धनिमित्तानि सर्वोत्कृष्टानुभागाध्यवसायस्थानानि तान्यप्यसंख्येयलोकप्रमि-
तानि षट्स्थानपतितानि च चिन्तेयानि । तेनैव प्रकारेण स्वकीयस्वकीयजघन्योत्कृष्टयोर्मध्ये
तारतम्येन मध्यमानि च भवन्ति । तथैव जघन्याहुत्कृष्टपर्यन्तानि ज्ञानावरणादिमूलो-
त्तरप्रकृतीनां स्थितिबन्धस्थानानि च । तानि सर्वाणि परमागमकथितानुसारेणानन्तवारान्

अनन्तवार जन्मा हे और मरा हे । इस प्रकार यह पूर्वकथित भवसंसारका स्वरूप जानना
चाहिये ।

अब मात्र संसारका कथन करते हैं । वह इस प्रकार है—सबसे जघन्य प्रकृति बंध तथा
प्रदेश बंधके कारणभूत और उसके योग्य श्रेणीके असंख्येय भाग प्रमाण वृद्धि हानि रूप
चार स्थानोंमें पतित जो सर्व जघन्य मन, वचन तथा कायके परिस्पन्द हैं; वे सर्वजघन्य
योगस्थान होते हैं । इसी प्रकार सबसे अधिक प्रकृतिबंध तथा प्रदेशबंधके निमित्त,
उनके योग्य श्रेणीके असंख्येय भाग प्रमाण चार स्थानोंमें पतित जो सर्वोत्कृष्ट मन, वचन
और कायके व्यापार हैं, वे सर्वोत्कृष्ट योग स्थान होते हैं । इसी प्रकार सर्वजघन्य स्थिति
बंधके कारण जो सर्वजघन्य कपायोंके अध्यवसाय स्थान हैं, वे भी उनके योग्य असंख्येय
लोक प्रमाण तथा शुद्धहानिरूप षट् स्थानोंमें पतित होते हैं । एतन्नेव जो सर्वोत्कृष्ट कपा-
योंके अध्यवसाय स्थान हैं, वे भी असंख्येय लोक प्रमाण और षट्स्थानोंमें पतित होते
हैं । और इसी प्रकार सबसे जघन्य अनुभाग बंधके कारण जो सबसे जघन्य (निहृष्ट)
अनुभागोंके अध्यवसाय स्थान हैं, वे भी असंख्येय लोक प्रमाण तथा षट् स्थानोंमें पतित
होते हैं । तथा इसी प्रकार सबसे उत्कृष्ट अनुभाग बंधके निमित्तभूत जो सर्वोत्कृष्ट अनु-
भागके अध्यवसाय स्थान हैं उनको भी असंख्येय लोक प्रमाण और षट् स्थानोंमें पतित
जानना चाहिये । और इस पूर्वोक्त प्रकारसे ही अपने अपने जघन्य और उत्कृष्टोंके बीचमें
तारतम्य से मध्यम भेद भी होते हैं । और ऐसेही जघन्यसे उत्कृष्ट पर्यन्त ज्ञानावरण आदि

भ्रमितान्यनेन जीवेन परं किन्तु पूर्वोक्तसमस्तप्रकृतिवन्द्यादीनां सद्भावविनाशकारणानि विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजपरमात्मतत्त्वसम्यक्क्षुद्धानज्ञानानुचरणरूपाणि यानि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि तान्येव न लब्धानि । इति भावसंसारः ।

एवं पूर्वोक्तप्रकारेण द्रव्यक्षेत्रकालभवभावरूपं पञ्चप्रकारं संसारं भावयतोऽस्य जीवस्य संसारातीतस्वशुद्धात्मसंवित्तिनाशकेषु संसारवृद्धिकारणेषु मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकपाययोगेषु परिणामो न जायते, किन्तु संसारातीतसुखास्वादे रतो भूत्वा स्वशुद्धात्मसंवित्तिवलेन संसारविनाशकनिजनिरञ्जनपरमात्मन्येव भावनां करोति । ततश्च यादृशमेव परमात्मानं भावयति तादृशमेव लब्ध्वा संसारविलक्षणे मोक्षेऽनन्तकालं तिष्ठतीति । अयं तु विशेषः—नित्यनिगोदजीवान् विहाय पञ्चप्रकारसंसारव्याख्यानं ज्ञातव्यम् । कस्मादिति चेत्—नित्यनिगोदजीवानां कालत्रयेऽपि त्रसत्वं नास्तीति । तथा चोक्तं—“अत्यि अणंता जीवा जेहि ण पत्तो तसाण परिणामो । भावकलंकसुपउरा णिगोदवासं ण मुंचंति । १ ।” अनुपमसद्वितीयमनादिमिथ्यादृशोऽपि भरतपुत्रास्त्रयोविंशत्यधिकनवगतपरिमाणास्ते च नित्यनिगोदवासिनः क्षपितकर्माण इन्द्रगोपाः संजातास्तेषां च पुञ्जीभूतानामुपरि भरतहस्तिना पादो दत्तस्ततस्ते मृत्वापि वर्द्धनकुमारादयो भरतपुत्रा जातास्ते

मूल तथा उत्तर प्रकृतियोंके स्थितिवंधके स्थान होते हैं । वे सब परमागममें कही हुई आत्माके अनुसार इस जीवने अनन्त वार प्राप्त किये हैं, परन्तु पूर्वोक्त संपूर्ण प्रकृतिबंध आदिके सद्भावके नाशके कारण जो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावका धारक निज परमात्मा तत्त्व है उसके सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान और चारित्ररूप जो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, उन्हींको इस जीवने प्राप्त नहीं किया । इस प्रकार भावसंसारका स्वरूप है ।

इस पूर्वोक्त प्रकारसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावरूप जो पांच प्रकारका संसार है उसको भावते हुए इस जीवके संसारसे हटानेको कारण जो निजशुद्ध आत्माका ज्ञान है उसका नाश करनेवाले और संसारकी वृद्धिके कारणभूत ऐसे जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग हैं उनमें परिणाम नहीं होता है; किन्तु वह जीव संसारसे अतीत (नहीं होनेवाला) जो सुख है उसके आस्वादमें रत (तत्पर) होके, निजशुद्ध आत्माके ज्ञानके बलसे संसारको नष्ट करनेवाला निज निरंजन परमात्मा है, उसीमें भावना करता है । और इसके पश्चात् जैसे परमात्माको भावता है, वैसे ही परमात्माको प्राप्त होके संसारसे विलक्षण जो मोक्ष है, उसमें अनन्त काल निवास करता है ॥ यहाँपर विशेष यह है कि नित्य निगोदके जीवोंको छोड़कर, इस उक्त पंच प्रकारके संसारका व्याख्यान जानना चाहिये, अर्थात् नित्य निगोद जीव इस पंच प्रकारके संसारमें परिभ्रमण नहीं करते हैं । यद्योकि—नित्य निगोदवर्त्ती जो जीव हैं उनके तीन कालमें भी त्रसता अर्थात् दोइन्द्रीपने आदिका धारण करना नहीं है । सो ही कहा है—“ऐसे अनंत जीव हैं कि जिन्होंने त्रस पर्यायको प्राप्त ही नहीं किया और भाव कलंकों (अशुभ परिणामों) से भरपूर हैं, जिससे वे

च केनचिदपि सह न वदन्ति । ततो भरतेन समवसरणे भगवान् पृष्टो, भगवता च प्राकृतं वृत्तान्तं कथितम् । तच्छ्रुत्वा ते तपो गृहीत्वा क्षणस्तोककालेन मोक्षं गताः । आचाराराधनादिष्वपि कथितमास्ते । इति संसारानुप्रेक्षा गता ॥

अथैकत्वानुप्रेक्षा कथ्यते । तद्यथा—निश्चयरत्नत्रयैकलक्षणैकत्वभावनापरिणतस्यास्य जीवस्य निश्चयनयेन सहजानन्दसुखाद्यनन्तगुणाधारभूतं केवलज्ञानमेवैकं सहजं शरीरम् । शरीरं कोऽयं स्वरूपं न च सप्तधातुमयीदारिकशरीरम् । तथैवात्तरीन्द्रध्यानविलक्षणपरमसामायिकलक्षणैकत्वभावनापरिणतं निजात्मतत्त्वमेवैकं सदा शाश्वतं परमहितकारि न च पुत्रफलवादिः । तेनैव प्रकारेण परमोपेक्षासंयमलक्षणैकत्वभावनासहितः स्वशुद्धात्मपदार्थ एक एवाविनश्वरहितकारो परमोऽर्थः न च सुवर्णाद्यर्थः । तथैव निर्विकल्पसमाधिमनुष्यपन्ननिर्विकारपरमानन्दैकलक्षणानाकुलत्वस्वभावात्मसुखमेवैकं सुखं न चाकुलत्वोत्पादकेन्द्रियसुखमिति । कस्मादिदं देहवन्धुजनसुवर्णाद्यर्थेन्द्रियसुखादिकं जीवस्य निश्चयेन निराकृतमिति चेत्, यतो मरणकाले जीव एक एव गत्यन्तरं गच्छति न च देहा-

निगोदके निवासको नहीं छोड़ते हैं" । और यह बात अनुपम और अद्वितीय है कि "अनादिकालसे मिथ्यादृष्टि ऐसे भी नौसौ तेईस (९२३) भरतजीके पुत्र जो कि नित्य निगोदके निवासी थे और नित्य निगोदमें कर्मोंकी निर्जरा होनेसे वे इन्द्रगोप (सावनकी चौकरी) नामक कौड़े हुए, सो उन सबके ढेरपर भरतके हाथीने पैर रख दिया इससे वे मरकर, भरतजीके वर्द्धनकुमार आदि पुत्र हुए और वे किसीके साथ भी नहीं बोलते थे । इस कारण, भरतजीने समवसरणमें भगवान्से पूछा तो भगवान्ने पुराना सब वृत्तान्त कहा । उसको सुनकर, उन सब वर्द्धनकुमारादि पुत्रोंने तप ग्रहण किया और बहुत ही अल्प कालमें मोक्ष वाले गये ।" यह कथा आचाराराधनाकी टिप्पणीमें कही हुई है । इस प्रकार संसार अनुप्रेक्षाका न्यायदान समाप्त हुआ ॥

अथ एकत्व अनुप्रेक्षाका वर्णन करते हैं । वह इस प्रकार है—निश्चयरत्नत्रयरूप एक लक्षणका धारक जो एकत्व है उसको भावनामें परिणत इस जोड़के निश्चयनयसे सहज ज्ञानन्द, सुख आदि अनन्त गुणोंका आधाररूप जो केवल ज्ञान है वह एक ही सहज (स्वभाव)से उत्पन्न शरीर है । यही 'शरीर' शब्दका अर्थ स्वरूप समझना, न कि सात धातुओंसे निर्मित औदारिक शरीर । इसी प्रकार आर्त्त और रोग इन दोनों ध्यानसे विलक्षण (बलटी) जो परमसामायिक रूप एकत्व भावना है उसमें परिणत जो एक अपना आत्मतत्त्व है वही सदा अविनाशी और परम हितका करनेवाला है; और पुत्र, मित्र, कष्टप्र आदि हितके कर्त्ता नहीं । पूर्वोक्त रीतसे ही परम उपेक्षा संयमरूप जो एकत्व भावना है, उससे सहित जो निज सुज्ञान पदार्थ है, वह एक ही अविनाशी तथा हितकारी परम अर्थ (धन) है, और सुवर्ण आदिरूप अर्थ (धन) परम अर्थ नहीं है । एवमेव निर्विकल्प ध्यानसे उत्पन्न तथा निर्विकार परम ज्ञानन्दमय लक्षण और आरुलया-

दीनि । तथैव रोगव्याप्तिकाले विषयकपायादिदुर्ध्यानरहितः स्वशुद्धात्मैकसहायो भवति । तदपि कथमिति चेत् ? यदि चरमदेहो भवति तर्हि केवलज्ञानादिव्यक्तिरूपं मोक्षं नयति, अचरमदेहस्य तु संसारस्थितिं स्तोकां कृत्वा देवेन्द्राद्यभ्युदयसुखं दत्त्वा च पश्चात् पारम्पर्येण मोक्षं प्रापयतीत्यर्थः । तथा चोक्तं—“सगं तवेण सब्बो, वि पावए किंतु ज्ञाण-जोयेण । जो पावइ सो पावइ, परं भवे सासयं सोकखं । १ ।” एवमेकत्वभावनाफलं ज्ञात्वा निरन्तरं निजशुद्धात्मैकत्वभावनां कर्त्तव्यां । इत्येकत्वानुपेक्षा गता ॥ ४ ॥

तथान्यत्वानुपेक्षां कथयति । तथा हि—पूर्वोक्तानि यानि देहवन्धुजनसुवर्णाद्यर्थेन्द्रियसुखादीनि कर्माधीनत्वे विनश्वराणि तथैव हेयभूतानि च, तानि सर्वाणि टङ्कोत्कीर्णज्ञायकैकस्वभावत्वेन नित्यात्सर्वप्रकारोपादेयभूतान्निर्विकारपरमचैतन्यचित्चमत्कारस्वभावात्त्रिजपरः सात्मपदार्थान्निश्चयनयेनान्यानि भिन्नानि । तेभ्यः पुनरात्माप्यन्यो भिन्न इति । अयमत्र

रहित स्वभावका धारक ऐसा आत्मसुख ही एक सुख है, और आकुलताको उत्पन्न करने-वाला इन्द्रियजन्य जो सुख है सो सुख नहीं । ये पूर्वोक्त जो जीवके शरीर, बंधुजन, सुवर्ण आदि अर्थ, और इन्द्रियसुख आदि हैं इनका निश्चयनयसे खंडन क्यों किया है ? ऐसी शंका करो तो समाधान यह है कि जब मरणका समय आता है तब यह जीव एक (अकेला) ही दूसरी गतिमें गमन करता है और देह आदि इस जीवके साथ नहीं जाते, किन्तु यहाँ के यहाँ ही रह जाते हैं । और जब यह जीव रोगोंसे व्याप्त होता है तब विषय तथा कषाय आदिरूप जो खोटे ध्यान हैं उनसे रहित एक निजशुद्ध आत्मा ही इसका सहायक होता है । और वह सहायक भी कैसा होता है ? इसका उत्तर यह है कि यदि उस जीवका अंतिम शरीर हो तब तो केवलज्ञान आदिकी प्रकटतारूप जो मोक्ष है उसमें ले जाता है और यदि अंतिम शरीर न हो तो वह शुभ ध्यानरूप शुद्ध आत्मा उस जीवकी जो संसारकी स्थिति है उसको अल्प करके और देव, इंद्र आदि पर्यायसंबंधी सुखोंको देकर, फिर परंपरासे मोक्षकी प्राप्ति करता है । यह भावार्थ है । सो ही कहा भी है—“तपके करनेसे स्वर्ग सब कोई पाते हैं, परंतु शुभ ध्यानके योगसे जो कोई स्वर्ग पाता है वह अग्रिम भवमें शाश्वत सुख अर्थात् मोक्षको पाता है ॥ १ ॥” ऐसे एकत्व भावनाके फलको जानकर, सदा निज शुद्ध आत्माके एकत्वरूप भावना ही करनी चाहिये । इस प्रकार एकत्व नामक चतुर्थ अनुपेक्षा समाप्त हुई ॥ ४ ॥

अत्र पंचम अन्यत्व अनुपेक्षाका कथन करते हैं । सो इस प्रकार है—पूर्व एकत्व भावनामें फट्टे हुए जो देह, बंधुजन, सुवर्ण आदि अर्थ और इन्द्रियसुख आदि हैं वे सब कर्माके आधीन हैं इसी कारण विनाश स्वभावके धारक हैं तथा हेय (त्याज्य) स्वरूप भी हैं । इस कारण टङ्कोत्कीर्ण एवं ज्ञायक रूप एक स्वभावसे नित्य, सब प्रकारोंसे उपादेय भूत और विकाररहित परम चैतन्य चित् चमत्कार स्वभावका धारक जो निज परमात्मा पदार्थ

भाव एकत्वानुपेक्षायामेकोऽहमित्यादिविधिरूपेण न्याहयानं, अन्यःवानुपेक्षायां तु देहा-
दयो मत्सकाशादान्ये सदीया न भवन्तीति निषेधरूपेण । इत्येकत्वान्यत्वानुपेक्षायां विधि-
निषेधरूप एव विशेषस्तात्पर्यं तदेव । इत्यन्यत्वानुपेक्षा समाप्ता ॥ ५ ॥

अतः परमशुचित्वानुपेक्षा कथ्यते । तद्यथा—सर्वाशुचिशुक्रशोणितकारणोत्पन्नत्वात्त-
थैव “वसासृग्मांसमेदोऽस्थिमज्जाशुक्राणि धातवः” इत्यादिशुचिसप्तधातुमयत्वेन तथा
नासिकादिनवरन्ध्रद्वारैरपि स्वरूपेणाशुचित्वात्तथैव सूत्रपुरीपाशुचिमलानामुत्पत्तिस्थान-
नत्वाद्याशुचिरयं देहः । न केवलमशुचिकारणत्वेनाशुचिः स्वरूपेणाशुच्युत्पादकत्वेन
चाशुचिः । शुचि सुगन्धमाल्यवस्त्रादीनामशुचित्वोत्पादकःवाद्याशुचिः । इदानीं शुचित्वं
कथ्यते—सहजशुद्धकेवलज्ञानादिगुणानामाधारभूतत्वात्स्वयं निश्चयेन शुचिरूपत्वाच्च पर-
मात्मैव शुचिः । “जीवो ब्रह्म जीवति चैव चरिया हविज्ज जो जदिणो । तं जाण ब्रह्म-
चेरं विसुक्कपरदेहभत्तीए । १ ।” इति गाथाकथितनिर्मलव्यचयं तत्रैव निजपरमात्मनि

हैं, उससे वे सब निश्चयनयकी अपेक्षासे भिन्न हैं । और आत्मा भी उनसे भिन्न है ।
भावार्थ यहाँपर यह है कि—एकत्व अनुपेक्षामें तो ‘मैं एक हूँ’ इत्यादि प्रकारसे विधिरूप
न्याहयान है और इस अन्यत्व अनुपेक्षामें ‘देह आदिक पदार्थ मुझसे भिन्न हैं, ये मेरे नहीं
हैं’ इत्यादि निषेध रूपसे वर्णन है । इस प्रकार एकत्व और अन्यत्व इन दोनों अनुपेक्षा-
ओंमें विधि तथा निषेधरूप ही विशेष (भेद) है और तात्पर्य तो दोनोंका एक ही है ।
ऐसे अन्यत्व अनुपेक्षा समाप्त हुई ॥ ५ ॥

अब आगे अशुचित्व अनुपेक्षाका कथन करते हैं । वह इस प्रकार है—सबसे अपवित्र
ऐसे शुक्र (पिताका वीर्य) और शोणित (माताका रुधिर) रूप कारणसे उत्पन्न
होनेके कारण तथा “वसा, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि (हाड़), मज्जा, और शुक्र ये धातु हैं ।
इस प्रकार पूर्वोक्त अपवित्र जो सप्त ७ धातु हैं इनरूप होनेसे तथा नाक आदि नी ९
छिद्रोंद्वारा स्वरूपसे भी अशुचि होनेसे और इसी भाँतिसे सूत्र, पुरीष (विष्टा) आदि
अशुचि मलौकी उत्पत्तिका स्थान होने से यह देह अशुचि है । और केवल अशुचि कार-
णसे उत्पन्न होनेके कारण ही यह अशुचि नहीं है; किन्तु यह शरीर स्वरूपसे भी अशुचि
है और अशुचि मल आदिका जनक होनेसे भी अशुचि है । और पवित्र जो सुगन्ध,
माला, वस्त्र आदि हैं उनमें भी यह शरीर अपने संसर्गसे अपवित्रता उत्पन्न करता है, इस
कारण भी अशुचि है । अब पवित्रताका कथन करते हैं—सहज शुद्ध ऐसे जो केवलज्ञान
आदि गुण हैं इनका आधारभूत होनेसे और निश्चयमे अपने आप पवित्र होनेसे यह पर-
मात्मा ही शुचि है । “जीव ब्रह्म है, जीवहोमं जो मुनिकी चर्या (प्रवृत्ति) होवे हमको
साँझी है, परदेहकी सेवा जिसने ऐसा प्रलयचयं जानो । १ ।” इस गायाने कहा हुआ जो
निर्मल ब्रह्मचर्य है, सो उस परमात्मानमें स्थित हुए जोवोंके ही मिथता है । और इसी प्रकार

स्थितानामेव लभ्यते । तथैव "ब्रह्मचारी सदा शुचि" रिति वचनात्तथाविधब्रह्मचारिणामेव शुचित्वं न च कामक्रोधादिरतानां जलस्नानादिशौचेऽपि । तथैव च—“जन्मना जायते शूद्रः क्रियया द्विज उच्यते । श्रुतेन श्रोत्रियो ज्ञेयो ब्रह्मचर्येण ब्राह्मणः । १ ।” इति वचनात् एव निश्चयशुद्धाः ब्राह्मणाः । तथा चोक्तं नारायणेन युधिष्ठिरं प्रति विशुद्धात्मनदी-स्नानमेव परमशुचित्वकारणं न च लौकिकगङ्गादितीर्थे स्नानादिकम् । “आत्मा नदी संयम-मतोयपूर्णा सत्यावहा शीलतटा दयोर्मिः । तत्राभिपेकं कुरु पाण्डुपुत्र न वारिणा शुद्ध्यति चान्तरात्मा” । १ । इत्यशुचित्वानुप्रेक्षा गता ॥ ६ ॥

अत ऊर्ध्वमास्रवानुप्रेक्षा कथ्यते । समुद्रे सच्छिद्रपोतवदयं जीव इन्द्रियाद्यास्रवैः संसारसागरे पततीति वार्त्तिकम् । अतीन्द्रियस्वशुद्धात्मसंवित्तिबिलक्षणानि स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्राणीन्द्रियाणि भण्यन्ते । परमोपशममूर्तिपरमात्मस्वभावस्य क्षोभोत्पादकाः क्रोधमानमायालोभकपाया अभिधीयन्ते । रागादिविकल्पनिवृत्तिरूपायाः शुद्धात्मानुभूतेः प्रतिकूलानि हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिमहप्रवृत्तिरूपाणि पञ्चात्रतानि । निष्क्रियनिर्विकारात्मतत्त्वाद्धिपरीता मनोवचनकायव्यापाररूपाः परमागमोक्ताः सम्यक्त्वक्रिया मिथ्वात्व-क्रियेत्यादिपञ्चविंशतिक्रियाः उच्यन्ते । इन्द्रियकपायात्रतक्रियारूपास्रवाणां स्वरूपमेत-

“ब्रह्मचारी सदा पवित्र है” इस वचनसे उन पूर्वोक्त प्रकारके ब्रह्मचारियोंके ही पवित्रता है । और जो काम तथा क्रोध आदिमें तत्पर जीव हैं उनके जलस्नान आदि शौचोंके करनेपर भी पवित्रता नहीं है । क्योंकि, इसीप्रकार “जन्मसे शूद्र होता है, क्रियासे द्विज कहलाता है, श्रुत (शास्त्र)से श्रोत्रिय जानना चाहिये और ब्रह्मचर्यसे ब्राह्मण जानना चाहिये । १ ।” ऐसा वचन है । इसलिये पूर्वोक्त परमात्मामें जो तत्पर हैं, वे ही निश्चयनयसे शुद्ध ब्राह्मण हैं । और नारायणने युधिष्ठिरसे कहा है कि शुद्ध जो आत्मारूपी नदी है उसमें स्नान करना ही परम पवित्रताका कारण है, किंतु लौकिक जो गंगा आदि तीर्थोंमें स्नान करना आदि है सो शुचित्वका कारण नहीं । इस विषयमें जो श्लोक है उसका अर्थ यह है—“संयम-रूपी जलसे पूर्ण, सत्यको धारण करनेवाली शीलरूप तट और दयासय तरङ्गोंकी धारक ऐसी जो आत्मारूप नदी है उसमें हे पाण्डुपुत्र (युधिष्ठिर) स्नान कर; क्योंकि, अन्तरात्मा जलसे शुद्ध नहीं होता । १ ।” इस प्रकार अशुचित्व अनुप्रेक्षाका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ६ ॥

अब इसके अनन्तर संसम आस्रवानुप्रेक्षाको कहते हैं । “जैसे छिद्रसहित नौका (नाव) समुद्रमें डूबती है, ऐसे ही इन्द्रिय आदि छिद्रों द्वारा यह जीव संसार रूप समुद्रमें गिरता है” यह वार्त्तिक है । इन्द्रियोंके अगोचर जो निज शुद्ध आत्माका ज्ञान है उससे बिलक्षण स्पर्शन, रसन (जिह्वा), नासिका, नेत्र और कान ये पांच इन्द्रियां कहलाती हैं । परम उपशम स्वरूपका धारक जो परमात्माका स्वभाव है उसके क्षोभको उत्पन्न करनेवाले क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार कपाय कहे जाते हैं । राग आदि विकल्पोंसे रहित जो परमात्माका अनुभव है उससे प्रतिकूल ऐसे हिंसा, मूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह इन

द्विज्ञेयम् । यथा समुद्रेऽनेकरजभाण्डपूर्णस्य सच्छिद्रपोतस्य जलप्रवेशे पातो भवति न च वेलापत्तनं प्राप्नोति । तथा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यलक्षणामूल्यरजभाण्डपूर्णजीवपोतस्य पूर्वोक्तान्त्रवह्नारैः कर्मजलप्रवेशे सति संसारसमुद्रे पातो भवति न च केवलज्ञानान्वयावा-
धसुखाद्यनन्तगुणरत्नपूर्णमुक्तिवेलापत्तनं प्राप्नोतीति । एवमात्रवगतदोषानुचिन्तनमात्रवानु-
प्रेक्षा ज्ञातव्येति ॥ ७ ॥

अथ संवरानुप्रेक्षा कथ्यते—यथा तदेव जलपात्रं छिद्रस्य क्षम्यने सति जलप्रवेशाभावे निर्विघ्नेन वेलापत्तनं प्राप्नोति, तथा जीवजलपात्रं निजशुद्धात्मसंविचित्रलेन इन्द्रियाद्यास्त्र-
वच्छिद्राणां क्षम्यने सति कर्मजलप्रवेशाभावे निर्विघ्नेन केवलज्ञानाद्यनन्तगुणरत्नपूर्णमुक्ति-
वेलापत्तनं प्राप्नोतीति । एवं संवरगतगुणानुचिन्तनं संवरानुप्रेक्षा ज्ञातव्या ॥ ८ ॥

अथ निर्जरानुप्रेक्षा प्रतिपादयति । यथा कोऽप्यजीर्णदोषेण मलसञ्चये जाते सत्याहारं
त्यक्त्वा किमपि हरीतक्यादिकं मलपाचकमग्निदीपकं चोषयं गृह्णाति । तेन च मलपाकेन

पांचोंमें प्रयुक्तिरूप पांच अग्रत हैं । क्रियारहित और निर्विकार ऐसा जो आत्मतत्त्व है उससे विपरीत मन, वचन तथा कायके व्यापाररूप एवं शास्त्रमें कहीहुई सम्यक् क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया इत्यादि पचीस क्रिया कही जाती हैं । इस प्रकार-पूर्वोक्त इन्द्रिय, कर्माय, अग्रत तथा क्रियारूप आत्मवोका स्वरूप जानना चाहिये । जैसे समुद्रमें अनेक रत्नोंके भाँटोंसे भरे हुए छिद्ररहित पोतका (जहाज) जलके प्रवेश होनेपर पतन होता है और यह पोत समुद्रके किनारे जो पत्तन (नगर) है उसको नहीं प्राप्त होता है । वसी प्रकार सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यरूप जो अमूल्य रत्नोंके भाँड़े हैं उनसे पूर्ण इस जीव नामा पोतमें पूर्वोक्त इन्द्रिय आदि आत्मवोका जब कर्मरूपी जलका प्रवेश हो जाता है तब संसाररूपी समुद्रमें ही पतन होता है । और केवलज्ञान, अन्यायाध सुख आदि अनन्त गुणमय रत्नोंसे पूर्ण जो मुक्तिस्वरूप वेलापत्तन (संसार समुद्रके किनारेका शहर) है उसको यह जीव नहीं प्राप्त होता है । इत्यादि प्रकारसे आत्मवर्म प्राप्त दोषोंका जो विचार करना है, यह आत्मवानुप्रेक्षा जानना चाहिये ॥ ७ ॥

अथ संवर अनुप्रेक्षाका वर्णन करते हैं । जैसे वही समुद्रका पोत अपने छिद्रोंके बंद हो जानेसे जलके प्रवेशका अभाव होनेपर निर्विघ्नतापूर्वक वेलापत्तनको प्राप्त हो जाता है; वसी प्रकार जीवरूपी पोत अपने शुद्ध आत्माके ज्ञानके बलसे इन्द्रिय आदि आत्मवर्मरूप छिद्रोंके बंद जानेसे कर्मरूप जलके प्रवेशका अभाव होनेपर निर्विघ्न केवलज्ञान आदि अनन्तगुण रत्नोंसे पूर्ण जो मुक्तिरूप वेलापत्तन है, उसको प्राप्त होता है । ऐसे संवरमें विद्यमान जो गुण हैं उनके चिंतन स्वरूप संवर अनुप्रेक्षा जाननी चाहिये ॥ ८ ॥

अथ निर्जरानुप्रेक्षा का प्रतिपादन करते हैं—जैसे किसी मनुष्यके अजीर्ण दोषसे मलका संचय (पेटमें मलका जमाव) हो जावे तो वह मनुष्य आहारको छोड़ करके, मलको

घनवाततनुवाताभिधानवायुत्रयवेष्टितानादिनिधनाकृत्रिमनिश्चलासंख्यातप्रदेशो लोकोऽस्ति । तस्याकारः कथ्यते—अधोमुखाद्भ्रुजस्योपरि पूर्णे सुरजे न्यापिते यादृशाकारो भवति तादृशाकारः परं किन्तु सुरजो घृत्तो लोकस्तु चतुष्कोण इति विशेषः । अथवा प्रसारितपादस्य कटितटन्यस्तहस्तस्य चोर्ध्वस्थितपुरुपस्य यादृशाकारो भवति तादृशः । इदानीं तस्यैधोत्सेधायामविस्ताराः कथ्यन्ते—चतुर्दशरज्जुप्रमाणोत्सेधस्तथैव दक्षिणोत्तरेण सर्वत्र सप्तरज्जुप्रमाणायामो भवति । पूर्वपश्चिमेन पुनरधोविभागे सप्तरज्जुविस्तारः । ततश्चाधोभागात् क्रमहानिरूपेण हीयते यावन्मध्यलोक एकरज्जुप्रमाणविस्तारो भवति । ततो मध्यलोकादूर्ध्वं क्रमवृद्धया वर्द्धते यावद् ब्रह्मलोकान्ते रज्जुपञ्चकविस्तारो भवति । ततश्चोर्ध्वं पुनरपि हीयते यावद्भोक्तान्ते रज्जुप्रमाणविस्तारो भवति । तस्यैव लोकस्य पुनरुदूखलन्य मध्याधोभागे छिद्रे कृते सति निक्षिप्तवंशनालिकेव चतुःकोणा प्रसनाटी भवति । सा चैकरज्जुविष्कम्भा चतुर्दशरज्जुत्सेधा विज्ञेया । तन्यामस्वधोभागे सप्तरज्जवोऽधोलोकसंबन्धिन्यः । ऊर्ध्वभागे मध्यलोकोत्सेधसंबन्धिलक्षणयोजनप्रमाणमेरुत्सेधः सप्तरज्जव ऊर्ध्वलोकसंबन्धिन्यः ॥

उसके बहुत ही मध्यके प्रदेशमें घनोदधि, घनवात और तनुवात नामक तीन पचनोंसे वेष्टित (घेडा हुआ), आदि और अंतरहित, अकृत्रिम, निश्चल और असंख्यात प्रदेशका धारक लोक है । उसके आकारका कथन करते हैं । नीचे मुस किये हुए आधे मृदंगके ऊपर पूरा मृदंग रखनेपर जैसा आकार होता है वैसा आकार लोकका है, परन्तु मृदंग गोल है और लोक चौकोर है, यह भेद है । अथवा फैलाये हैं पाद (पैर) जिसने और कटिके तटपर रखे हैं हाथ जिसने ऐसे खड़ेहुए मनुष्यका जैसा आकार होता है वैसा लोकका आकार है । अब उसी लोककी उँचाई, लंबाई तथा विस्तारका निरूपण करते हैं—चौदह १४ रज्जु प्रमाण ऊँचा तथा दक्षिण उत्तरमें सब जगह सात राजू लम्बा यह लोक है और पूर्व पश्चिममें नीचेके भागमें सात राजू विस्तार है और फिर उस अधोभागसे क्रमहानिरूपसे इतना घटता है कि, मध्य (बीच) में एक रज्जु विस्तारका धारक होजाता है, फिर मध्यलोकमें ऊपर क्रमवृद्धिसे बढ़ता है सो बढ़ता २ ब्रह्मलोक अर्थात् पंचम स्वर्गके अन्तमें पाँच रज्जुके विस्तारका धारक होता है । उसके ऊपर फिर भी घटता है, सो यहीतक घटता है कि लोकके अन्तमें जाकर, एक रज्जु प्रमाण विस्तारकाया होता है । और इसी लोकके मध्यमें उदूखल (उन्चल) के मध्यभागसे नाँविका छोर छिद्र करके एक घाँसकी नाली रखी जावे उसका जैसा आकार होता है उसके समान एक चौकोर प्रस नाटी है; यह एक रज्जु व्यासकी धारक और चौदह रज्जु ऊँची जाननी चाहिये । उस प्रस नाटीके अधोभागकी जो सात रज्जु हैं वे अधोलोक संबन्धी हैं और ऊर्ध्वभागमें मध्यलोककी उँचाई संबन्धी छह योजन प्रमाण मेरुकी उँचाई है, इसहित सात रज्जु ऊर्ध्व लोकसंबन्धी हैं ॥

घनवाततनुवाताभिधानवायुत्रयवेष्टितानादिनिधनाकृत्रिमनिश्चलासंख्यातप्रदेशो लोकोऽस्ति । तस्याकारः कथ्यते—अधोमुखाद्भ्रमुरजस्योपरि पूर्णं मुरजे म्यापिते यादृशाकारो भवति तादृशाकारः परं किन्तु मुरजो वृत्तो लोकस्तु चतुष्कोण इति विशेषः । अथवा प्रसारितपादस्य फटितदन्यस्तहस्तस्य चोर्ध्वस्थितपुरुषस्य यादृशाकारो भवति तादृशः । इदानीं तस्यैवोत्सेधायामविस्ताराः कथ्यन्ते—चतुर्दशरज्जुप्रमाणोत्सेधस्तथैव दक्षिणोत्तरेण सर्वत्र सप्तरज्जुप्रमाणायामो भवति । पूर्वपश्चिमेन पुनरधोविभागे सप्तरज्जुविस्तारः । ततश्चाधो-भागान् क्रमहानिरूपेण हीयते यावन्मध्यलोक एकरज्जुप्रमाणविस्तारो भवति । ततो मध्य-लोकादूर्ध्वं क्रमवृद्धया वर्द्धते यावद् ब्रह्मलोकान्ते रज्जुपद्मकविस्तारो भवति । ततश्चोर्ध्वं पुनरपि हीयते यावद्ब्रह्मलोकान्ते रज्जुप्रमाणविस्तारो भवति । तस्यैव लोकस्य पुनर्दूखलस्य मध्याधोभागे छिद्रे कृते सति निक्षिप्तवंशनालिकेव चतुष्कोणा व्रसनादी भवति । सा चैकरज्जुविष्कम्भा चतुर्दशरज्जुत्सेधा विज्ञेया । तस्यास्त्वधोभागे सप्तरज्जुवोऽधोलोकसंबन्धिग्न्यः । ऊर्ध्वभागे मध्यलोकोत्सेधसंबन्धिलक्ष्यो जनप्रमाणमेतत्सेधः सप्तरज्जुव ऊर्ध्व-लोकसंबन्धिग्न्यः ॥

उसके बहुत ही मध्यके प्रदेशमें घनोदधि, घनवात और तनुवात नामक तीन पवनोत्से वेष्टित (वेदा हुआ), आदि और अंतरहित, अकृत्रिम, निश्चल और असंख्यात प्रदेशका धारक लोक है । उसके आकारका कथन करते हैं । नीचे मुख किये हुए आवे मृदंगके ऊपर पूरा मृदंग रखनेपर जैसा आकार होता है वैसा आकार लोकका है, परन्तु मृदंग गोल है और लोक चौकोर है, यह भेद है । अथवा फेंकाये हैं पाद (पैर) जिसने और फटिके तटपर रखये हैं हाथ जिसने ऐसे खड़ेहूए मनुष्यका जैसा आकार होता है वैसा लोकका आकार है । अब उसी लोककी लंबाई, लंबाई तथा विस्तारका निरूपण करते हैं—चौदह १४ रज्जु प्रमाण ऊंचा तथा दक्षिण उत्तरमें सब जगह सात राज्जु लम्बा यह लोक है और पूर्व पश्चि-ममें नीचेके भागमें सात राज्जु विस्तार है और फिर उस अधोभागसे क्रमहानिरूपेसे इतना घटता है कि, मध्य (बीच) में एक रज्जु विस्तारका धारक होजाता है, फिर मध्यलो-कसे ऊपर क्रमवृद्धिसे बढ़ता है सो बढ़ता २ ब्रह्मलोक अर्थात् पंचम स्वर्गके अन्तमें पांच रज्जुके विस्तारका धारक होता है । उसके ऊपर फिर भी घटता है सो यत्नांतक घटता है कि लोकके अन्तमें जाकर, एक रज्जु प्रमाण विस्तारका आकार होता है । और इसी लोकके मध्यमें बृहन्नल (उग्रतल) के मध्यभागसे नीचेकी ओर छिद्र करके एक घांसकी नाली रखी जावे उसका जैसा आकार होता है उसके समान एक चौकोर व्रस नाली है: यह एक रज्जु व्यासकी धारक और चौदह रज्जु लंबी जाननी चाहिये । उस व्रस नालीके अधोभागकी जो सात रज्जु हैं वे अधोभोक संबन्धी हैं और ऊर्ध्वभागमें मध्यलो-ककी लंबाई संबन्धी लक्ष योजन प्रमाण भेदकी लंबाई है, इसदिन सात रज्जु ऊर्ध्व-लोकसंबन्धी हैं ॥

तुरशीतियोजनसहस्रबाहुल्यः पट्टभागस्तिष्ठति । ततोऽप्यधोभागे अशीतिसहस्रबाहुल्यो
अव्यहृतभागस्तिष्ठतीत्येवं रत्नप्रभा पृथिवी त्रिभेदा ज्ञातव्या । तत्र स्वरभागेऽसुरकुलं
विहाय नवप्रकारभवनवासिदेवानां तथैव राक्षसकुलं विहाय सप्तप्रकारव्यन्तरदेवानां
आवासा ज्ञातव्या इति । पट्टभागे पुनरसुराणां राक्षसानां चेति । अव्यहृतभागे नार-
कास्तिष्ठन्ति ।

तत्र बृहभूमिकप्रासादवदधोऽधः सर्वपृथिवीषु स्वकीयस्वकीयबाहुल्यात् सकाशाद्य
उपरि चैकैकयोजनसहस्रं विहाय मध्यभागे भूमिक्रमेण पटलानि भवन्ति त्रयोदशकाद-
शनवसप्तपञ्चत्येकसंख्यानि, तान्येव सर्वसमुदायेन पुनरेकोनपञ्चाशत्प्रमितानि । पट-
लानि कोऽर्थः ? प्रस्तारा इन्द्रका अन्तर्भूमय इति । तत्र रत्नप्रभायां सीमन्तसंज्ञे प्रथम-
पटलविस्तारे नृलोकवत् यत्संख्येययोजनविस्तारवत् मध्यदिलं तत्पेन्द्रसंज्ञा । तस्यैव
चतुर्दिग्विभागे प्रतिदिशं पंक्तिरूपेणासंख्येययोजनविस्ताराण्येकोनपञ्चाशद्विलानि । तथैव

योजन हैं, उन प्रमाण बाहुल्य (गहराई) को धारण करनेवाली जो मध्यलोकमें चित्रा
पृथिवी है, उसके नीचेके भागमें सोलह हजार योजन बाहुल्यका धारक स्वर भाग है ।
उस स्वर भागके भी नीचे चौरासी हजार योजन प्रमाण बाहुल्यवाला पंक भाग स्थित है ।
उसके भी नीचेके भागमें अस्सी हजार योजनके बाहुल्यका धारक अव्यहृत भाग है । इस
प्रकार रत्नप्रभा पृथिवी है सो स्वरभाग, पंकभाग और अव्यहृत भागरूपी भेदोंसे तीन
प्रकारकी जाननी चाहिये । उनमें स्वर भागमें असुरकुमार जातिके देवोंके समूहको छोड़कर,
नव प्रकारके भवनवासी और इसी प्रकार राक्षसोंके समूहके बिना सात प्रकारके व्यन्तर
देवोंके आवास (निवासस्थान) जानने चाहिये । पंकभागमें असुर तथा राक्षसोंके
निवास हैं । अव्यहृत भागमें नारक हैं ॥

उनमें बहुतसे खनोंवाले प्रासाद (महल) के समान नीचे २ सय पृथिवियोंमें अपने २
बाहुल्यसे नीचे और ऊपर एक एक हजार योजनको छोड़कर, जो बीचका भाग है उसमें
भूमि (तला, गण्ड, अथवा मंजिला) के क्रमसे पटल होते हैं । उनमें प्रथम भूमिमें तेरह,
दूसरीमें ग्यारह, तीसरीमें नव, चौथीमें सात, पांचवीमें पाँच, छठीमें तीन और सातवीं पृथि-
वीमें एक, ऐसे ये सय समुदायसे उनचास ४२ संख्या प्रमाण पटल हैं । यहाँ पटल शब्दका
अर्थ प्रस्तार (तह) इन्द्रका अथवा अन्तर्भूमि है । उनमें रत्नप्रभा नामक प्रथम पृथिवीमें
सीमन्त नामक पहले पटलके विस्तारमें जो ढाई हजारके समान संख्येय (४१००००)
योजन विस्तारका धारक बीचका पिल है उसकी इन्द्रक संज्ञा है । उस इन्द्रककी चारों
दिशाओंमें प्रत्येक दिशामें असंख्येय योजन विस्तारके धारक उनचास पिल हैं । और
इसी प्रकार चारों दिशाओंमें प्रत्येक दिशामें पंक्तिरूपे (कनारदार) जो अष्टलाशोत्त
(४८) पिल हैं वे भी असंख्येय योजन प्रमाण विस्तारके धारक हैं, इन दोनों प्रकारके पिलोंकी

इदानीं नारकदुःखानि कथ्यन्ते । तथा—विशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावनिजपरमात्मतत्त्व-सम्यक् भ्रद्धानं ज्ञानानुष्ठानभावनोत्पन्न—निर्विकारपरमानन्दैकलक्षणसुखामृततरसास्वादरहितैः पञ्चेन्द्रियविषयसुखास्वादलम्पटैर्मिथ्यादृष्टिजीवैर्यदुपाजितं नरकायुर्नरकगत्यादिपापकर्म तदुदयेन नरके समुत्पद्य पृथिवीचतुष्टये तीव्रोष्णदुःखं, पञ्चम्यां पुनरुपरितनत्रिभागे तीव्रोष्णदुःखमधोभागे तीव्रशीतदुःखं, पृष्ठीसप्तम्योरतिशीतोत्पन्नदुःखमनुभवन्ति । तथैव छेदनभेदनक्रकचविदारणयन्त्रपीडनशूलारोहणादितोत्रदुःखं सहन्ते । तथा चोक्तं—“अच्छि-णिमीलणमित्तं पत्न्य सुहं दुःखमेव अणुवद्धं । गिरये णेरयियाणं अहोणिसं पञ्चमाणणं । १ ।” प्रथमपृथिवीत्रयपर्यन्तमासुरोदीरितं चेति । एवं ज्ञात्वा नारकदुःखविनाशार्थं भेदाभेदरत्नत्रयभावना कर्तव्या । संक्षेपेणाधोलोकव्याख्यानं ज्ञातव्यम् ॥

अतः परं तिर्यग्लोकः कथ्यते—जम्बूद्वीपादिशुभनामानो द्वीपाः, लवणोदादिशुभना-मानः समुद्राश्च द्विगुणद्विगुणविस्तारेण पूर्वं पूर्वं परिवेष्ट्य वृत्ताकाराः स्वयम्भूरमणपर्य-

अव नारक जीवोंके दुःखोंका कथन करते हैं । वह इस प्रकार है—विशुद्ध ज्ञान तथा दर्शनरूप स्वभावका धारक जो निज शुद्ध परमात्मतत्त्व है उसके सम्यक् भ्रद्धान, ज्ञान और आचरणकी भावनासे उत्पन्न जो विकाररहित परम आनंदमय सुखरूपी अमृत उसके आस्यादसे रहित और पांचों इन्द्रियोंके विषयोंके सेवनमें लम्पट ऐसे मिथ्यादृष्टि जीवोंने जो नरक आयु तथा नरक गति आदि रूप पाप कर्म उपाजर्जन किया उसके उदयसे वे नरकमें उत्पन्न होते हैं । वहांपर पहलेकी जो चार पृथिवियों हैं उनमें तीव्र उष्ण (गर्मी) का दुःख, और पांचवीं पृथिवीमें ऊपरके त्रिभागमें अर्थात् पंचम पृथिवीके पहले तीसरे हिस्सेमें तीव्र उष्णका दुःख और नीचेके जो दो त्रिभाग हैं उनमें तीव्र शीत (ठंड वा जाड़े) का दुःख तथा छद्दी और सातवीं पृथिवीमें अत्यन्त शीतसे उत्पन्न हुए दुःखका अनुभव करते हैं । और इसी प्रकार छेदने, भेदने, करोतीसे चीरने, घानीमें घेरने और शूलीपर चढ़ाने आदिरूप तीव्र दुःखको सहन करते हैं । सोही कहा है कि “नरकमें रातदिन दुःखरूप अग्निमें पचते हुए नारकोंके नेत्रोंके टिमकार मात्र भी सुख नहीं है, किन्तु सदा दुःख ही लगा रहता है । १ ।” और पहली तीन पृथिवियोंतक असुरकुमार जातिके देवोंसे प्रकट किये हुए दुःखको भी सहते हैं । ऐसा जानकर, नरकसंबंधी दुःखके नाशके लिये भेद तथा अभेद रूप जो रत्नत्रय है उसकी भावना करनी चाहिये । ऐसे संक्षेप रीतिसे अधोलोकका व्याख्यान समाप्त हुआ ॥

अब इसके अनंतर तिर्यग्लोक अर्थात् मध्यलोकका वर्णन करते हैं । अपने दूने दूने विस्तारसे पूर्वपूर्व द्वीपको समुद्र और समुद्रको द्वीप इस क्रमसे वेद करके गोल आकारवाले जंबूद्वीप आदि शुभ नामोंके धारक द्वीप और लवणोद आदि शुभ नामोंके धारक समुद्र, स्वयंभूरमण समुद्रपर्यन्त तिर्यक् विस्तारसे विस्तृत होकर (फैल कर) स्थित हैं, इस कार-

न्तास्तिर्यग्विस्तारेण विस्तीर्णास्तिष्ठन्नि यत्तस्तेन कारणेन तिर्यग्भ्रूको भण्यते, मध्यलो-
कश्च । तथा—तेषु सार्द्धवृतीयोद्धारसागरोपमलोमच्छेदप्रमितेष्वसंख्यातद्वीपसमुद्रेषु
मध्ये जम्बूद्वीपस्तिष्ठति । स च जम्बूद्वीपलक्षितो मध्यभागस्थितमेरुपर्वतसहितो वृत्ता-
कारलक्ष्यो जनप्रमाणस्तद्द्विगुणविष्कम्भेण योजनलक्षद्वयप्रमाणेन वृत्ताकारेण वह्निर्भागे
लवणसमुद्रेण वेष्टितः । सोऽपि लवणसमुद्रस्तद्द्विगुणविस्तारेण योजनलक्षचतुष्टयप्रमा-
णेन वृत्ताकारेण वह्निर्भागे घातकीखण्डद्वीपेन वेष्टितः । सोऽपि घातकीखण्डद्वीपस्तद्द्वि-
गुणविस्तारेण योजनाष्टलक्षप्रमाणेन वह्निर्भागे कालोदकसमुद्रेण वेष्टितः । सोऽपि कालो-
दकसमुद्रस्तद्द्विगुणविस्तारेण पौडशयोजनलक्षप्रमाणेन वृत्ताकारेण वह्निर्भागे पुष्करद्वीपेन
वेष्टितः । इत्यादिद्विगुणद्विगुणविष्कम्भः स्वयम्भूरमणद्वीपस्वयम्भूरमणसमुद्रपर्यन्तो
ज्ञातव्यः । यथा जम्बूद्वीपलवणसमुद्रविष्कम्भद्वयसमुद्रयोजनलक्षत्रयप्रमितात्साक्षा-
द्घातकीखण्ड एकलक्षेणाधिकस्तथैवासंख्येयद्वीपसमुद्रविष्कम्भेभ्यः स्वयम्भूरमणसमुद्रवि-
ष्कम्भ एकलक्षेणाधिको ज्ञातव्यः । एवमुक्तलक्षणेष्वासंख्येयद्वीपसमुद्रेषु व्यन्तरदेशानां
पर्वताद्युपरिगता आवासाः, अधोभूभागगतानि भवनानि, तथैव द्वीपसमुद्रादिगतानि
पुराणि च, परभागमोक्तभिन्नलक्षणानि । तथैव खरभागपट्टभागस्थितप्रतरासंख्येयप्रमा-

णसे इसको तिर्यक् लोक कहते हैं और मध्यलोक भी कहते हैं। वह इस प्रकार है—सादे-
तीन उद्धार सागर समान लोमोंके टुकड़ोंके चरावर जो असंख्यात द्वीप समुद्रके मध्य (बीच)-
में जंबूद्वीप स्थित है वह जंबू (जामून) के वृक्षसे चिह्नित तथा मध्य भागमें
स्थित जो मेरु है उससे सहित है तथा गोलाकार लाख योजन प्रमाण है। और गोला-
कार दो लाख योजन प्रमाण अपनेसे दूने विष्कम्भ (परिवि) का धारक जो बाह्य भागमें
लवण समुद्र है उससे वेष्टित (वेढा हुआ) है। वह लवण समुद्र भी अपने विस्तारसे
दूने विस्तारवाला जो चार लाख योजन प्रमाण गोलाकार बाह्य भागमें घातकीखण्ड नामक
द्वीप है उससे वेष्टित है। वह घातकीखण्ड द्वीप भी अपनेसे दूने विस्ताररूप आठ लाख
योजन प्रमाण जो बाह्य भागमें कालोदक समुद्र है उससे वेष्टित है। वह कालोदक समुद्र
भी अपने दूने विस्ताररूप सोलह लाख योजन प्रमाण गोलाकार बाह्य भागमें जो पुष्कर द्वीप
है उससे वेष्टित है। इसको आदि ले, यह दूना दूना विष्कम्भ स्वयंभूरमण द्वीप तथा स्वयंभू-
रमण समुद्रपर्यन्त जानना चाहिये। और, जैसे जंबूद्वीपका विष्कम्भ एक लाख योजन,
लवण समुद्रका विष्कम्भ दो लाख योजन, इन दोनोंके समुदायरूप जो तीन लाख योजन
प्रमाण है, उससे घातकीखण्ड एक लाख योजन अधिक अर्थात् चार लाख योजन है; इसी
प्रकार असंख्यात द्वीप समुद्रोंका जो विष्कम्भ है उससे एक लाख योजन अधिक स्वयंभूरमण
समुद्रका विष्कम्भ जानने योग्य है। ऐसे पूर्वोक्त लक्षणके धारक असंख्यात द्वीप समुद्रोंमें
व्यन्तर देशोंके पर्वत आदिके ऊपर प्राप्त आवास (स्थान), अधोभूभाग (नीचेकी स्थिति-
वाले भाग) में प्राप्त भवन और द्वीप तथा समुद्र आदिमें मिले हुए पुर हैं। ये आवास,

णासंख्येयव्यन्तरदेवावासाः, तथैव द्वासप्ततिलक्षाधिककोटिसप्तप्रमितभवनवासिदेवसं-
न्धिभवनान्यकृत्रिमजिनचैत्यालयसहितानि भवन्ति । एवमतिसंक्षेपेण तिर्यग्लोको
व्याख्यातः ॥

अथ तिर्यग्लोकमध्यस्थितो मनुष्यलोको व्याख्यायते - तन्मध्यस्थितजम्बूद्वीपे सप्त-
क्षेत्राणि भण्यन्ते । दक्षिणदिग्विभागादारभ्य भरतहेमवतहरिविदेहरन्म्यकहैरण्यवतैरावत-
संज्ञानि सप्तक्षेत्राणि भवन्ति । क्षेत्राणि कोऽर्थः ? वर्षा वंशा जनपदा इत्यर्थः । तेषां
क्षेत्राणां विभागकारकाः षट् कुलपर्वताः कथ्यन्ते—दक्षिणदिग्भागमादीकृत्य हिमवन्म-
हाहिमवन्निपधनीलरुक्मिशिखरिसंज्ञा भरतादिसप्तक्षेत्राणामन्तरेषु पूर्वापरायताः षट्
कुलपर्वताः भवन्ति । पर्वता इति कोऽर्थः । वर्षधरपर्वताः सीमापर्वता इत्यर्थः । तेषां
पर्वतानामुपरि क्रमेण ह्रदा कथ्यन्ते । पद्ममहापद्मतिर्गिच्छकेशरिमहापुण्डरीकपुण्डरीक-
संज्ञा अकृत्रिमा षट् ह्रदा भवन्ति । ह्रदा इति कोऽर्थः ? सरोवराणीत्यर्थः । तेभ्यः पद्मादि-
षट्ह्रदेभ्यः सकाशादागमकथितक्रमेण निर्गता याश्चतुर्दश नद्यस्ताः कथ्यन्ते । तथाहि—
हिमवत्पर्वतस्थपद्मानाममहाह्रदादार्धकोशावगाहक्रोशाधार्धिकपट्योजनप्रमाणविस्तारपूर्वतोर-
णद्वारेण निर्गत्य तत्पर्वतस्वैवोपरि पूर्वदिग्विभागेन योजनशतपञ्चकं गच्छति, ततो गङ्गा-
कूटसमीपे दक्षिणेन व्यावृत्य भूमिस्थकुण्डे पतति तस्माद् दक्षिणद्वारेण निर्गत्य भरत-
क्षेत्रमध्यमभागस्थितस्य दीर्घत्वेन पूर्वापरसमुद्रस्पर्शिनो विजयाद्द्रस्य गुहाद्वारेण निर्गत्य

भवन तथा पुर परमागममें कहे हुए जो भिन्न भिन्न लक्षण हैं, उनके धारक हैं । और इसी
प्रकार रत्नप्रभा भूमिके खर भाग और पंक भागमें स्थित प्रतरके असंख्यातवें भाग प्रमाण
असंख्यात व्यन्तर देवोंके आवास हैं और सात करोड़ वहन्तर लाख संख्याके धारक भवनवासी
देवों संबंधी भवन हैं, वे सब अकृत्रिम जिन चैत्यालयों सहित हैं । इस प्रकार अत्यन्त
संक्षेपसे तिर्यग् लोक (मध्यलोक) का व्याख्यान किया गया ॥

अब तिर्यग् लोक (मध्यलोक) के मध्यमें स्थित जो मनुष्य लोक (ढाई द्वीप) है
उसका व्याख्यान करते हैं । उसमें प्रथम ही तिर्यग् लोकके बीचमें स्थित जो जंबूद्वीप है
उसमें जो सात क्षेत्र हैं उनका कथन करते हैं । दक्षिण दिशाके भागसे आरंभित होकर भरत,
हेमवत, हरि, विदेह, रन्म्यक, हैरण्यवत और ऐरावत इन नामोंके धारक सात क्षेत्र हैं ।
यहाँ क्षेत्र शब्दसे वर्ष, वंश अथवा जनपद अर्थका ग्रहण है । उन क्षेत्रोंको भिन्न भिन्न कर-
नेवाले जो छः कुलपर्वत (कुलाचल) हैं उनके नाम कहते हैं—दक्षिण दिशाके भागको
आदि लेकर हिमवत् १, महाहिमवत् २, निपध ३, नील ४, रुक्मी ५ और शिखरी ६, इन
नामोंके धारक, पूर्व पश्चिम लंबे कुलपर्वत उन भरत आदि सप्त क्षेत्रोंके बीचमें हैं । पर्वत
का अर्थ वर्षधरपर्वत अथवा सीमापर्वत है । उन पर्वतोंके ऊपर क्रमसे जो ह्रद हैं वे
कहते हैं । पद्म १, महापद्म २, तिर्गिच्छ ३, केसरी ४, महापुण्डरीक ५ और पुण्डरीक ६, इन
नामोंवाले अकृत्रिम षट् ह्रद हैं । ह्रदका अर्थ सरोवर है । अब उन पद्म आदि ६ ह्रदोंसे

तत आर्यखण्डार्द्धभागे पूर्वेण व्यावृत्य प्रथमावगाहापेक्षया दशगुणेन गत्वूतिपञ्चकाव-
गाहेन तथैव प्रथमविष्कम्भापेक्षया दशगुणेन योजनार्द्धसहितद्विपष्टियोजनप्रमाणविस्ता-
रेण च पूर्वसमुद्रे प्रविष्टा गङ्गा । तथा गङ्गावत्सिन्धुरपि तस्मादेव हिमवत्पर्वतस्यपद्मह-
दात्पर्वतस्यैवोपरि पश्चिमद्वारेण निर्गत्य पश्चादक्षिणदिग्विभागोनागत्य विजयार्द्धगुहाद्वारेण
निर्गत्यार्यखण्डार्द्धभागे पश्चिमेन व्यावृत्य पश्चिमसमुद्रे प्रविष्टेति । एवं दक्षिणदिग्विभाग-
समागतगङ्गासिन्धुभ्यां पूर्वापरायतेन विजयार्द्धपर्वतेन च पटत्वण्डीकृतं भरतक्षेत्रम् ॥

अथ महाहिमवत्पर्वतस्यमहापद्महदादक्षिणदिग्विभागेन हिमवतक्षेत्रमध्ये समागत्य
तत्रस्थनाभिगिरिपर्वतं योजनार्धेनाद्युशन्ती तस्यैवार्धे प्रदक्षिणं कृत्वा रोहितपूर्वसमुद्रं
गता । तथैव हिमवत्पर्वतस्थितपद्महदादुत्तरेणागत्य तमेव नाभिगिरिं योजनार्धेनाद्युशन्ती

आगममें कहे हुए क्रमके अनुसार जो चौहद नदियां निकली हैं उनका वर्णन करते हैं ।
वे इस प्रकार हैं—हिमवन् पर्वतपर स्थित जो पद्मनामक महाहृद है उससे अर्ध कोस प्रमाण
गहराई और साठे छः योजन प्रमाण चौड़ाईकी धारक गंगा नामक नदी पूवतोरण द्वारसे
निकलकर, उसी हिमवत् पर्वतके ऊपर पूर्व दिशामें पाचसी योजनतक जाती है, फिर
वहाँसे गंगाहृदके पास दक्षिण दिशाको मुड़कर, भूमिमें स्थित जो कुंड है उसमें वह गंगा
गिरती है । वहाँसे दक्षिण द्वार (दरवाजे) से निकलकर, भरत क्षेत्रके मध्यभागमें स्थित जो
लंबाईसे पूर्व पश्चिम समुद्रको स्पशित करनेवाला विजयार्द्ध पर्वत है उसकी गुहाके द्वारसे
निकलकर, वहाँसे आर्यखंडके अर्धभागमें पूर्वसे लौटकर, प्रथम अवगाहकी अपेक्षा दशगुणी
अर्थात् ५ गत्वूति (कोस) की गहराई और इसी प्रकार प्रथमके विष्कम्भसे दशगुण जो
साठे घासठ योजन प्रमाण विस्तार है उस सहित गंगानदी पूर्व समुद्रमें प्रवेश करती है ।
और इस गंगाकी भांति सिंधुनामक महानदी भी उसी हिमवत्पर्वतपर विद्यमान पद्महृदके
पश्चिमद्वारसे निकलकर, पर्वतपर ही गमन करके फिर दक्षिण दिशाको आकर, विजयार्द्धकी
गुहाके द्वारसे निकलकर, पश्चिमको मुड़कर, आर्यखंडके अर्धभागमें आकर, पश्चिम समु-
द्रमें प्रवेश करती है ॥ इस प्रकार दक्षिण दिशाको आर्य हृद जो गंगा और सिंधु नामक
दो नदियां हैं, इनसे और पूर्व तथा पश्चिमके समुद्रतक लंबा जो विजयार्द्ध पर्वत है उसमें
पट खंड (छः विभागोंमें घटा) हुआ भरत क्षेत्र है ॥

अथ पूर्वकथनके पश्चात् वर्णन करते हैं—महाहिमवन् पर्वतपर स्थित जो महापद्मनामा
हृद है, वहाँसे पश्चिम, दक्षिणकी दिशाकी ओरसे हिमवत क्षेत्रके मध्यमें आकर, वहाँपर
स्थित जो नाभिगिरि नामक पर्वत है, इसको आगे योजनतक सरती करती हुई, उसी पर्व-
तकी आधी प्रदक्षिण करती हुई रोहिता नामा नदी पूर्वसमुद्रकी गई है । और इसी प्रकार
रोहिताम्बा नामा जो नदी है यह हिमवन् पर्वतके पद्महृदसे उत्तरकी आकर, उसी नाभिगि-
रिकी अर्ध योजनपर्यन्त सरती करती हुई, उसी पर्वतकी आधी प्रदक्षिण करके पश्चिम

तस्यैवार्धप्रदक्षिणं कृत्वा रोहितास्या पश्चिमसमुद्रं गता । इति रोहिद्रोहितास्यासंज्ञं नदी-
द्वन्द्वं हैमवतसंज्ञजघन्यभोगभूमिक्षेत्रे ज्ञातव्यम् । अथ निषधपर्वतस्थिततिगिञ्जनामह-
दादक्षिणेनागत्य नाभिगिरिपर्वतं योजनार्धेनास्पृशन्ती तस्यैवार्धप्रदक्षिणं कृत्वा हरितपूर्व-
समुद्रं गता । तथैव महाहिमवत्पर्वतस्थमहापद्मनामहदादुत्तरदिग्विभागेनागत्य तमेव
नाभिगिरिं योजनार्धेनास्पृशन्ती तस्यैवार्धप्रदक्षिणं कृत्वा हरिकान्ता नाम नदी पश्चिम-
समुद्रं गता । इति हरिद्वारिकान्तासंज्ञं नदीद्वयं हरिसंज्ञमध्यमभोगभूमिक्षेत्रे विज्ञेयम् ।
अथ नीलपर्वतस्थितकेसरिनामहदादक्षिणेनागत्योत्तरकुरुसंज्ञोत्कृष्टभूमिक्षेत्रे मध्येन गत्वा
मेरुसमीपे गजदन्तपर्वतं भित्त्वा च प्रदक्षिणेन योजनार्धेन मेरुं विहाय पूर्वभद्रशाल-
वनस्य मध्येन पूर्वविदेहस्य च मध्ये शीतानामनदी पूर्वसमुद्रं गता । तथैव निषधपर्वतस्थि-
ततिगिञ्जहदादुत्तरदिग्विभागेनागत्य देवकुरुसंज्ञोत्तमभोगभूमिक्षेत्रमध्येन गत्वा मेरुस-
मीपे गजदन्तपर्वतं भित्त्वा च प्रदक्षिणेन योजनार्धेन मेरुं विहाय पश्चिमभद्रशालवनस्य
मध्येन पश्चिमविदेहस्य च मध्येन शीतोदा पश्चिमसमुद्रं गता । एवं शीताशीतोदासंज्ञं
नदीद्वयं विदेहाभिधाने कर्मभूमिक्षेत्रे ज्ञातव्यम् । यत्पूर्वं गङ्गासिन्धुनदीद्वयस्य विस्ता-
रावगाहप्रमाणं भणितं तदेव क्षेत्रे क्षेत्रे नदीयुगलं प्रति विदेहपर्यन्तं द्विगुणं द्विगुणं ज्ञात-
व्यम् । अथ गङ्गा चतुर्दशसहस्रपरिवारनदीसहिता, सिन्धुरपि तथा, तद्द्विगुणसंख्यानं

समुद्रमें गई है । ऐसे रोहित और रोहितास्या नामकी धारक दो नदियें हैमवत नामक जो
जघन्य भोगभूमिका क्षेत्र है उसमें जाननी चाहिये । और हरित नामा नदी निषध पर्वतके
तिगिञ्जहदसे दक्षिणको आकर, आवे योजनतक नाभिगिरि पर्वतको छूती हुई उसी पर्वतकी
आधी प्रदक्षिणा करके पूर्वसमुद्रमें गई है । एवमेव हरिकान्ता नामा नदी महाहिमवत् पर्व-
तके महापद्म नामक हृदसे उत्तर दिशाकी ओर आकर, उसी नाभिगिरिको आवे योजनतक
स्पर्शती हुई उसकी अर्ध प्रदक्षिणा देकर, पश्चिम समुद्रमें गई है । ऐसे हरित और हरि-
कान्ता नामक दो नदियां हरि नामका धारक जो मध्यम भोगभूमिका क्षेत्र है उसमें जाननी
चाहिये । अब शीता नामा नदी नील पर्वतके केसरी नामा हृदसे दक्षिणको आकर, उत्तर-
कुरु नामक उत्कृष्ट भोगभूमिक्षेत्रके बीचमें होकर, मेरुके पास जाकर, गजदंत पर्वतको भेद-
कर और आवे योजन पर्यन्त प्रदक्षिणासे मेरुको छोड़कर, पूर्व भद्रशालवन और पूर्व विदेहके
मध्यमें होकर, पूर्व समुद्रको गई है । इसी प्रकार शीतोदा नामा नदी निषधपर्वत पर विद्य-
मान जो तिगिञ्जहद है, वहांसे उत्तरको आकर, देवकुरु संज्ञक उत्तम भोगभूमि क्षेत्रके बीच-
मेंसे जाकर मेरुके पास गजदंत पर्वतको भेदकर और आवे योजन प्रदक्षिणासे मेरुको छोड़-
कर, पश्चिम भद्रशाल वनके और पश्चिम विदेहके मध्यमें गमन करके, पश्चिम समुद्रको
गई है । ऐसे शीता और शीतोदा नामक नदियोंका युगल विदेह नामक कर्मभूमिके
क्षेत्रमें जानना चाहिये । जो विस्तार और अवगाहका प्रमाण पहले गंगा और सिंधु नामक
दो नदियोंका कहा है, उससे दूना दूना प्रत्येक क्षेत्रमें जो नदियोंका युगल है, उसका विस्तार

रोहिद्रोहितास्याद्वयम्, ततोऽपि द्विगुणसंख्यानं हरिद्वरिकान्ताद्वयमिति । तथा पट्टवि-
शत्यधिकयोजनशतपञ्चकमेकोनविंशतिभागीकृतैकयोजनस्य भागपट्टकं च यदक्षिणोत्तरेण
कर्मभूमिसंज्ञकभरतक्षेत्रस्य विष्कम्भप्रमाणं तद्द्विगुणं हिमवत्पर्वते, तस्माद्द्विगुणं हैमवत्क्षेत्रे,
इत्यादि द्विगुणं द्विगुणं विदेहपर्वतं ज्ञातव्यम् । तथा पद्महृदो योजनसहस्रायामस्तद्वृ-
विष्कम्भो दशयोजनावगाहो योजनैकप्रमाणपद्मविष्कम्भस्तस्मान्महापद्मो द्विगुणस्तस्मा-
दपि तिगिच्छे द्विगुण इति ॥

अथ यथा भरते हिमवत्पर्वतान्निर्गतं गङ्गासिन्धुद्वयं, तद्योत्तरे कर्मभूमिसंज्ञैरावतक्षेत्रे
शिखरिपर्वतान्निर्गतं रक्षारक्षोदानदीद्वयम् । यथा च हैमवत्संज्ञे जघन्यभोगभूमिक्षेत्रे
महाहिमवत्हिमवन्नामपर्वतद्वयात्क्रमेण निर्गतं रोहितुरोहितास्यानदीद्वयं, यद्योत्तरे हेरण्यवत-
संज्ञजघन्यभोगभूमिक्षेत्रे शिखरिक्विससंज्ञपर्वतद्वयात्क्रमेण निर्गतं सुवर्णकूटारूप्यकूटान-
दीद्वयम् । तथैव यथा हरिसंज्ञानध्यमभोगभूमिक्षेत्रे निषधमहाहिमवन्नामपर्वतद्वयात्क्रमेण
निर्गतं हरिद्वरिकान्तानदीद्वयं, तद्योत्तरे रन्धकसंज्ञमध्यमभोगभूमिक्षेत्रे क्विमनीलनाम-
पर्वतद्वयात्क्रमेण निर्गतं नारीनरकान्तानदीद्वयमिति विज्ञेयम् । सुषमसुषमादिपट्टकाल-

जानना चाहिये । अब गंगा चौदह हजार परिवारकी नदियोंसहित है । सिंधु भी चौदह
हजार परिवार नदियोंकी धारक है। इनसे दूने अर्थात् अट्ठाईस हजार संख्या प्रमाण परिवार
की धारक रोहित तथा रोहितास्याको समझना चाहिये । और हरित्, हरिकान्ता ये दो नदियां
इनसे भी दूने परिवारकी धारक हैं । और पांचसौ छत्तीस योजन तथा एक योजनके पत्नीस
भागोंमेंसे ६ भाग प्रमाण दक्षिण और उत्तरसे कर्मभूमि संज्ञक भरतक्षेत्रके विष्कम्भका प्रमाण
है । उससे दूना हिमवत्पर्वतमें, हिमवत् पर्वतसे दूना हैमवत् क्षेत्रमें ऐसे उत्तरोत्तर दूना दूना
विष्कम्भ विदेह क्षेत्रपर्वत जानना चाहिये । और पद्महृद जो एक हजार योजन लंबा,
पांचसौ योजन चौड़ा तथा दश योजन गहरा है और जो उसमें एक योजन प्रमाण विष्कम्भ-
का धारक कमल है, उससे दूना महापद्महृदमें और उससे दूना तिगिच्छ हृदमें जानना ।

अथ जैसे भरतक्षेत्रमें हिमवत् पर्वतसे गंगा तथा सिंधु ये दो नदियां निकली हैं वैसे ही
उत्तर दिशामें कर्मभूमि संज्ञक जो गैरावत क्षेत्र है, उसमें शिखरी पर्वतसे निकली हुई रक्षा
तथा रक्षोदा नामक दो नदियां हैं । और जैसे हैमवत नामक जघन्य भोगभूमिके क्षेत्रमें महा-
हिमवत् और हिमवत् नामक दो पर्वतोंसे क्रमानुसार रोहित तथा रोहितास्या ये दो नदियां
निकली हैं, इसी प्रकार उत्तरमें हेरण्यवत संज्ञक जो जघन्य भोगभूमि क्षेत्र है उसमें शिखरी
और क्वमी नामक दो पर्वतोंसे क्रमानुसार सुवर्णकूटा तथा रूप्यकूटा ये दो नदियां निकली
हैं । इसी प्रकार हरिसंज्ञक मध्यम भोगभूमि क्षेत्रमें निषध और महाहिमवत् नामक दो
पर्वतोंसे जैसे क्रमानुसार हरित तथा हरिकान्ता ये दो नदियां निकली हैं, उसी प्रकार उत्त-
रमें रन्धक नामक मध्यम भोगभूमिके क्षेत्रमें क्वमी और नीलमंजुह्व दो पर्वतोंसे नारी तथा
नरकान्ता इन दो नदियोंको क्रमानुसार निकली हुई जानना चाहिये । सुषमसुषमा यदि

संबन्धिपरमागमोक्तायुक्तसेधादिसहिता दशसागरोपमकोटिकोटिप्रमितावसर्पिणी तद्यो-
त्सर्पिणी च यथा भरते वर्तते तथैवैरावते च । अयन्तु विशेषः, भरतम्लेच्छखण्डेषु विज-
याधनगेषु च चतुर्थकालसमयाद्यन्ततुल्यकालोऽस्ति नापरः । किं बहुना, यथा खट्वाया
एकभागे ज्ञाते द्वितीयभागस्तथैव ज्ञायते तथैव जम्बूद्वीपस्य क्षेत्रपर्वतनदीहृदादीनां देव
दक्षिणविभागे व्याख्यानं तदुत्तरेऽपि विज्ञेयम् ।

अथ देहममत्वमूलभूतमिथ्यात्वरागादिविभावरहिते केवलज्ञानदर्शनसुखाद्यनन्तगुणस-
हिते च निजपरमात्मद्रव्ये यथा सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रभावनाया कृत्वा विगतदेह देह-
रहिताः सन्तो मुनयः प्राचुर्येण यत्र मोक्षं गच्छन्ति स विदेहो भण्यते । तस्य जम्बूद्वीपस्य
मध्यमवर्तिनः किमपि विवरणं क्रियते । तद्यथा—नवनवतिसहस्रयोजनोत्सेध एकसह-
स्रावगाह आदौ भूमितले दशयोजनसहस्रप्रवृत्तविस्तार उपर्युपरि पुनरेकादशशहानिक्र-
मेण हीयमानत्वे सति मस्तके योजनसहस्रविस्तार आगमोक्ताकृत्रिमचैत्यालयदेववनदे-
वावासाद्यागमकथितानेकाश्रयसंहितो विदेहक्षेत्रमध्ये महामेरुनाम पर्वतोऽस्ति । स च
गजो जातस्तस्मान्मेरुगजात्सकाशादुत्तरमुखे दन्तद्वयाकारेण यन्निर्गतं पर्वतद्वयं तस्य

छहों कालों संबंधी जो परमागममें कहे हुए आयु तथा उत्सेध आदि हैं उनसहित दश-
कोटाकोटि सागर प्रमाण अवसर्पिणी तथा उत्सर्पिणी काल जैसे भरतमें है वैसे ही ऐरावतमें
भी है । और यह विशेष है कि भरतके म्लेच्छखंडोंमें और विजयाधं पर्वतोंमें चतुर्थकालकी
आदि तथा अन्तके समान काल है, इसके सिवाय दूसरा नहीं । विशेष क्या कहें—जैसे खट्वा
(खाट) का एक भाग जान लिया जावै तो उसका दूसरा भाग भी उसी प्रकार समझ
लिया जाता है, इसी प्रकार जंबू द्वीपके क्षेत्र, नदी, पर्वत और हृद आदिका जो दक्षिण
दिशा संबंधी व्याख्यान है वही उत्तर दिशामें भी जानना चाहिये ॥

अव शरीरमें ममत्वके कारणभूत जो मिथ्यात्व तथा राग आदि विभाव हैं उनसे रहित और
केवलज्ञान, केवलदर्शन, अनन्त सुख आदि अनन्त गुणोंसे सहित जो निज परमात्मा द्रव्य
है, उसमें जिस सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्ररूप भावना करके मुनिजन विगतदेह अर्थात्
देहरहित होकर अधिकतासे मोक्षको गमन करते हैं उसको विदेह कहते हैं । इस-
लिये जंबूद्वीपके मध्यमें वर्तमान जो विदेह क्षेत्र है उसका विस्तारसे वर्णन करते हैं । वह
इस प्रकार है—निन्यानवै हजार योजन ऊँचा, एक हजार योजन गहरा और, प्रथम भूमित-
लमें दशहजार योजन प्रमाण गोल विस्तारका धारक तथा ऊपर ऊपर एकादशश (ग्यारहवें
हिस्से) हानि क्रमसे घटते घटते होनेपर मस्तक (शिखर) पर एक हजार योजन विस्ता-
रका धारक और शास्त्रमें कहेहुए अकृत्रिम चैत्यालय, देव वन तथा देवोंके स्थान आदि
नाना प्रकारके आश्रयोंसहित ऐसा विदेह क्षेत्रमें महामेरु नामक पर्वत है । वही मानों
गज (हाथी) होगया । अतः उस मेरुरूप गजसे उत्तर-दिशामें दो दन्तोंके आकारसे जो
दो पर्वत निकले हुए हैं, उनकी 'दो गजदन्त' यह संज्ञा है । और वे दोनों उत्तर भागमें जो

गजदन्तद्वयसंज्ञेति, तयोत्तरे भागे नीलपर्वते लङ्गं तिष्ठति । तयोर्मध्ये यन्त्रिकोणाकारक्षेत्रमुत्तमभोगभूमिरूपं तस्योत्तरकुहसंज्ञा । तस्य च मध्ये मेरोरीशानदिग्विभागे शीतानीलपर्वतयोर्मध्ये परमागमवर्णितानाद्यकृत्रिमपार्थिवो जम्बूवृक्षस्तिष्ठति । तस्या एव शीताया उभयतटे यमलगिरिसंज्ञं पर्वतद्वयं विज्ञेयम् । तस्मात्पर्वतद्वयादक्षिणभागे क्रियन्तमध्वानं गत्वा शीतानदीमध्ये अन्तरान्तरेण पद्मादिद्वदपञ्चकमस्ति । तेषां हृदानानुभयपार्श्वयोः प्रत्येकं सुवर्णरत्नमयजिनगृहमण्डिता लोकानुयोगव्याख्यानान् दश दश सुवर्णपर्वता भवन्ति । तथैव निश्चयव्यवहाररत्नत्रयाराधकोत्तमपात्रपरमभक्तिदाहारदानफलेनोत्पन्नानां तिर्यग्मनुष्याणां स्वशुद्धात्मभावनीत्यन्ननिर्विकारसदानन्दैकलक्षणसुखामृतरसात्वाद्बिलक्षणस्य चक्रवर्तिभोगसुखादप्यधिकस्य विविधपञ्चेन्द्रियभोगसुप्तस्य प्रदायका ज्योतिर्गृहप्रदीपतूर्यभोजनवस्त्रमाल्यभाजनभूषणरागमदोत्पादकरसाङ्गसंज्ञा दशप्रकारकल्पवृक्षाः भोगभूमिक्षेत्रं व्याप्य तिष्ठन्तीत्यादिपरभागमोक्तप्रकारेणानेकाश्चर्याणि ज्ञातव्यानि । तस्मादेव मेरुगजादक्षिणदिग्विभागेन गजदन्तद्वयमध्ये देवकुहसंज्ञमुत्तमभोगभूमिक्षेत्रमुत्तरकुहवद्विज्ञेयम् ॥

नील पर्वत है उसमें लगे हुए हैं । उन दोनों गजदंतोंके मध्यमें जो त्रिकोण आकारवाला (त्रिकोना) उत्तम भोगभूमिरूप क्षेत्र है, उसका 'उत्तरकुह' नाम है । और उसके मध्यमें मेरुकी ईशान दिशामें शीता नदी और नील पर्वतके बीचमें परमागममें कहा हुआ अनादि, अकृत्रिम तथा पृथ्वीका विकाररूप जंबू वृक्ष है । उसी शीता नदीके दोनों किनारोंपर यमलगिरि नामक दो पर्वत जानने चाहिये । उन दोनों यमलगिरि पर्वतोंसे दक्षिण दिशामें फितने ही मार्गके चले जानेपर शीता नदीके बीच बीच में पद्म आदि पांच द्वद हैं । उन द्वदोंके दोनों पार्श्वों (पक्षवाहों) में से प्रत्येक पार्श्वमें लोकानुयोगके व्याख्यानके अनुसार सुवर्ण तथा रत्ननिर्मित ऐसे जिननीत्यालयोंसे भूषित दश दश सुवर्णपर्वत हैं । इसी प्रकार निश्चय तथा व्यवहाररूप रत्नत्रयकी आराधना करनेवाले जो उत्तम पात्र हैं, उनको परम भक्तिसे दिया हुआ जो आहारदान उसके फलसे उत्पन्न ऐसे तिर्यग और मनुष्योंको निज शुद्ध आत्माकी भावनासे स्वप्न, निर्विकार एवं सदा आनंदरूप सुखामृत रसके आश्वासे बिलक्षण और चक्रवर्तिके जो भोगसुख हैं उनसे भी अधिक ऐसे नानाप्रकारके पंचेन्द्रियों संयुक्तो भोग सुखोंके देनेवाले ज्योतिरत्न, गृहाङ्ग, प्रदीपान्ग, नूर्याङ्ग, भोजनाङ्ग, वस्त्राङ्ग, माल्याङ्ग, भाजनाङ्ग, भूषणाङ्ग तथा राग एवं मदकी उत्पन्न करनेवाले रसाङ्ग इन छह नामोंके पारक दश प्रकारके कल्पवृक्ष हैं । वे भोगभूमि क्षेत्रको व्याप्त करके, स्थित हैं । इत्यादि परमागमकथित प्रकारसे अनेक आश्चर्य समझने चाहिये और उसी मेरुगजसे निकले हुए दक्षिण दिशामें जो 'दो गजदन्त' हैं उनके मध्यमें उत्तरकुहके समान देवकुह नामक उत्तम भोगभूमिका क्षेत्र जानने योग्य है ॥

तस्मादेव मेरुपर्वतात्पूर्वस्यां दिशि पूर्वापरेण द्वाविंशतिसहस्रयोजनविष्कम्भं सवेदिकं भद्रशालवनमस्ति । तस्मात्पूर्वदिग्भागे कर्मभूमिसंज्ञः पूर्वविदेहोऽस्ति । तत्र नीलकुलपर्वतादक्षिणभागे शीतानद्या उत्तरभागे मेरोः प्रदक्षिणेन यानि क्षेत्राणि तिष्ठन्ति तेषां विभागः कथ्यते । तथाहि—मेरोः पूर्वदिशाभागे या पूर्वभद्रशालवनवेदिका तिष्ठति तस्याः पूर्वदिग्भागे प्रथमं क्षेत्रं भवति, तदनन्तरं दक्षिणोत्तरायतो वक्षारनामा पर्वतो भवति, तदनन्तरं क्षेत्रं तिष्ठति, ततोऽप्यनन्तरं विभङ्गानदी भवति, ततोऽपि क्षेत्रं, तस्मादपि वक्षारपर्वतस्तिष्ठति, ततश्च क्षेत्रं, ततोऽपि विभङ्गानदी, तदनन्तरं क्षेत्रं, ततः परं वक्षारपर्वतोऽस्ति, तदनन्तरं क्षेत्रं, ततो विभङ्गानदी, ततश्च क्षेत्रं, ततो वक्षारपर्वतस्ततः क्षेत्रं, तदनन्तरं पूर्वसमुद्रसमीपे यदेवारण्यं तस्य वेदिका चेति नवभित्तिभिरष्टक्षेत्राणि ज्ञातव्यानि । तेषां क्रमेण नामानि कथ्यन्ते—कच्छा १, सुकच्छा २, महाकच्छा ३, कच्छावती ४, आवर्त्ता ५, लाङ्गलावर्त्ता ६, पुष्कला ७, पुष्कलावती ८ चेति । इदानीं क्षेत्रमध्यस्थितनगरीणां नामानि कथ्यन्ते । क्षेमा १, क्षेमपुरी २, रिष्टा ३, रिष्टपुरी ४, खड्गा ५, मञ्जूपा ६, औषधी ७, पुण्डरीकिणी ८ चेति ॥

अत ऊर्ध्वं शीताया दक्षिणविभागे निपद्यपर्वतादुत्तरविभागे यान्यष्टक्षेत्राणि तानि कथ्यन्ते । तद्यथा—पूर्वोक्ता या देवारण्यवेदिका तस्याः पश्चिमभागे क्षेत्रमस्ति, तदनन्तरं

उसी मेरुपर्वतसे पूर्व दिशामें पूर्व पश्चिमको वार्डस हजार योजन विष्कंभका धारक वेदी-सहित भद्रशाल वन है । उससे पूर्व दिशामें कर्मभूमि संज्ञक पूर्व विदेह है । वहां नील नामक कुलाचलसे दक्षिण दिशामें और शीता नदीके उत्तर भागमें मेरुकी प्रदक्षिणा रूप जो क्षेत्र हैं उनके विभागोंका कथन करते हैं । सो इस प्रकार है—मेरुसे पूर्वदिशाके भागमें जो पूर्वभद्रशालवनकी वेदिका स्थित है, उससे पूर्व दिशाके भागमें प्रथम क्षेत्र है, उसके पीछे दक्षिण उत्तर लंबा वक्षार नामक पर्वत है, उसके पीछे क्षेत्र है, उसके भी आगे विभंगा नाम नदी है, उससे भी आगे क्षेत्र है, उस क्षेत्रके अनन्तर भी वक्षार पर्वत है, फिर क्षेत्र है, फिर भी विभंगा नदी है, उसके अनन्तर क्षेत्र है, उसके पश्चात् वक्षार पर्वत है, उसके आगे क्षेत्र है, उससे आगे फिर विभंगा नदी और फिर क्षेत्र है, उससे आगे फिर वक्षार पर्वत है, फिर क्षेत्र है, उसके अनन्तर पूर्व समुद्रके पास जो देवारण्य नाम वन है, उसकी वेदिका है । ऐसे नौ भित्तियों (दीवारों) से आठ क्षेत्र जानने चाहिये । उनके क्रमसे नाम कहते हैं—कच्छा १, सुकच्छा २, महाकच्छा ३, कच्छावती ४, आवर्त्ता ५, लाङ्गलावर्त्ता ६, पुष्कला ७ और पुष्कलावती ८, ऐसे यह क्रमानुसार आठों क्षेत्रोंके नाम हैं । अब क्षेत्रोंके मध्यमें स्थित जो नगरियां हैं, उनके नाम कहते हैं । वे क्रमसे ये हैं—क्षेमा १, क्षेमपुरी २, रिष्टा ३, रिष्टपुरी, ४, खड्गा ५, मञ्जूपा ६, औषधी ७ और पुण्डरीकिणी ८ ॥

इसके आगे शीता नदीसे दक्षिण भागमें निपद्य पर्वतसे उत्तर भागमें जो आठ क्षेत्र हैं उनको कहते हैं । वे इस प्रकार हैं—पहले कही हुई जो देवारण्यकी वेदी है उसके पश्चिम

वक्षारपर्वतस्ततः परं क्षेत्रं, ततो विभङ्गा नदी, ततश्च क्षेत्रं, तस्माद्वक्षारपर्वतस्ततश्च क्षेत्रं, ततो विभङ्गा नदी, ततः क्षेत्रं, ततो वक्षारपर्वतः, ततः क्षेत्रं, ततो विभङ्गा नदी, तदनन्तरं क्षेत्रं, ततो वक्षारपर्वतस्ततः क्षेत्रं, ततो मेरुदिग्भागे पूर्वभद्रशालवनवेदिका भवतीति नवभित्तिमध्येऽष्टौ क्षेत्राणि ज्ञातव्यानि । इदानीं तेषां क्रमेण नामानि कथ्यन्ते—वच्छा १, सुवच्छा २, महावच्छा ३, वच्छावती ४, रम्या ५, रम्यका ६, रमणीया ७, मङ्गलावती ८ चेति । इदानीं तन्मध्यस्थितनगरीणां नामानि कथ्यन्ते—सुषोमा १, कुण्डला २, अपराजिता ३, प्रभाकरी ४, अङ्का ५, पद्मा ६, शुभा ७, रत्नसंचया ८ चेति । इति पूर्वविदेहक्षेत्रविभागव्याख्यानं समाप्तम् ॥

अथ मेरोः पश्चिमदिग्भागे पूर्वापरद्वाविंशतिसहस्रयोजनविष्कम्भो पश्चिमभद्रशालवनानन्तरं पश्चिमविदेहद्विषति । तत्र निषधपर्वतादुत्तरविभागे शीतोद्गानद्या दक्षिणभागे यानि क्षेत्राणि तेषां विभाग उच्यते । तथाहि—मेरुदिग्भागे या पश्चिमभद्रशालवनवेदिका तिष्ठति तस्याः पश्चिमभागे क्षेत्रं भवति, ततो दक्षिणोत्तरायतो वक्षारपर्वतस्तिष्ठति, तदनन्तरं क्षेत्रं, ततो विभङ्गा नदी, ततश्च क्षेत्रं, ततो वक्षारपर्वतस्ततः परं क्षेत्रं, ततो विभङ्गा नदी, ततः क्षेत्रं, ततो वक्षारपर्वतस्ततः क्षेत्रं, तदनन्तरं पश्चिमसमुद्रसमीपे यद्भूतारण्यघनं तिष्ठति तस्य वेदिका चेति नवभित्तिषु मध्येऽष्टौ क्षेत्राणि भवन्ति । तेषां नामानि कथ्यन्ते । पद्मा १, सुपद्मा २, महापद्मा ३, पद्मावती ४, शंखा ५, नलिना

भागमें क्षेत्र है, तदनन्तर वक्षार पर्वत है, उसके आगे क्षेत्र है, फिर विभङ्गा नदी है, उसके पश्चान् क्षेत्र है, फिर वक्षार पर्वत है और फिर क्षेत्र है, तत्पश्चान् विभङ्गा नदी है, फिर क्षेत्र है, पुनः वक्षार पर्वत है, फिर क्षेत्र है, फिर विभङ्गा नदी है, उसके अनन्तर क्षेत्र है, फिर वक्षार पर्वत है, फिर क्षेत्र है, उसके आगे मेरुकी (उत्तर) दिशाके भागमें पूर्वभद्रशालवनकी वेदी है । ऐसे नौ भित्तिषुके मध्यमें आठ क्षेत्र जानने योग्य हैं । उन क्षेत्रोंके क्रमसे नाम कहते हैं—वच्छा १, सुवच्छा २, महावच्छा ३, वच्छावती ४, रम्या ५, रम्यका ६, रमणीया ७ और मङ्गलावती ८ । अथ उन क्षेत्रोंमें स्थित जो नगरियां हैं उनके नाम कहते हैं—सुषोमा १, कुण्डला २, अपराजिता ३, प्रभाकरी ४, अङ्का ५, पद्मा ६, शुभा ७ और रत्नसंचया ८ । इस प्रकार पूर्वविदेहक्षेत्रके विभागोंका व्याख्यान समाप्त हुआ ॥

अथ मेरुसे पश्चिम दिशाके भागमें पूर्वं पश्चिममें चाईम हजार योजन विष्कम्भका धारक पश्चिम भद्रशालवनके पश्चान् पश्चिम विदेह है । वही निषध पर्वतसे उत्तरके विभागमें और शीतोद्ग नदीके दक्षिण विभागमें जो क्षेत्र हैं, उनका विभाग कहा जाता है । माही दिग्वाते है—मेरु दिशाके (उत्तरके) भागमें जो पश्चिम भद्रशालवनकी वेदिका है, उसके पश्चिम भागमें क्षेत्र है, उसके आगे दक्षिण उत्तर संया वक्षार पर्वत है, उसके अनन्तर क्षेत्र है, फिर विभङ्गा नदी है, और फिर क्षेत्र है, उसके आगे वक्षार पर्वत है, उसके पश्चान् क्षेत्र है, फिर विभङ्गा नदी है, उसके अनन्तर क्षेत्र है, उन क्षेत्रके पश्चान् वक्षार पर्वत है,

६, कुमुदा ७, सलिला ८ चेति । तन्मध्यस्थितनगरीणां नामानि कथयन्ति—अश्वपुरी १, सिहपुरी २, महापुरी ३, विजयापुरी ४, अरजापुरी ५, विरजापुरी, ६ अशोकापुरी ७, विशोकापुरी ८ चेति ॥

अत ऊर्ध्वं शीतोदाया उत्तरभागे नीलकुलपर्वतादक्षिणे भागे यानि क्षेत्रात्रि तिष्ठन्ति तेषां विभागभेदं कथयति । पूर्वभगिता या भूतारण्यवनवेदिका तस्याः पूर्वभागे क्षेत्रं भवति । तदनन्तरं वक्षारपर्वतस्तदनन्तरं क्षेत्रं, ततो विभङ्गा नदी, ततः क्षेत्रं, ततो वक्षारपर्वतः, ततश्च क्षेत्रं, ततश्च विभङ्गा नदी, ततोऽपि क्षेत्रं, ततो वक्षारपर्वतस्ततः क्षेत्रं, ततो विभङ्गा नदी, ततः क्षेत्रं, ततश्च वक्षारपर्वतस्ततः क्षेत्रं, ततो मेरुदिशाभागे पश्चिम-भद्रशालवनवेदिका चेति नवभित्तिषु मध्येऽष्टौ क्षेत्राणि भवन्ति । तेषां क्रमेण नामानि कथ्यन्ते—बप्रा १, सुवप्रा २, महावप्रा, ३, वप्रकावती, ४, गन्धा ५, सुगन्धा ६, गन्धिला ७, गन्धमालिनी ८ चेति । तन्मध्यस्थितनगरीणां नामानि कथ्यन्ते । विजया १, वैजयन्ती २, जयन्ती ३, अपराजिता ४, चक्रपुरी ५, खङ्गपुरी ६, अयोध्या ७, अबध्या ८ चेति ॥

पश्चात् क्षेत्रं है, उसके अनंतर पश्चिम समुद्रके समीपमें जो भूतारण्य नामक वन है उसकी वेदिका है । ऐसे नौ भित्तियोंके मध्यमें आठ क्षेत्र होते हैं । उनके नाम कहते हैं,—पद्मा १, सुपद्मा २, महापद्मा ३, पद्मकावती ४, शंखा ५, नलिना ६, कुमुदा ७, और सलिला ८ । उन क्षेत्रोंके मध्यमें स्थित नगरियोंके नाम कहते हैं । अश्वपुरी १, सिहपुरी २, महापुरी ३, विजयापुरी ४, अरजापुरी ५, विरजापुरी ६, अशोकापुरी ७ और विशोकापुरी ८ ॥

अब इसके अनन्तर शीतोदाके उत्तरभागमें और नील कुलाचलसे दक्षिणभागमें जो क्षेत्र हैं उनके विभाग—भेदका वर्णन करते हैं । पहले कही हुई जो भूतारण्यवनकी वेदिका है उसके पूर्वभागमें क्षेत्र है १, और उसके पश्चात् वक्षार नामा पर्वत है, उसके अनंतर पुनः क्षेत्र है २, उसके पश्चात् विभङ्गा नदी है, उसके पश्चात् पुनः क्षेत्र है ३, उसके पश्चात् पुनः वक्षार पर्वत है, उसके अनंतर पुनः क्षेत्र है ४, उसके पश्चात् पुनः विभङ्गा नदी है, उसके अनन्तर पुनः क्षेत्र है ५, उसके पश्चात् पुनः वक्षारपर्वत है, उसके पश्चात् पुनः क्षेत्र है ६, उसके पश्चात् पुनः विभङ्गा नदी है, उसके अनन्तर क्षेत्र है ७, उसके पश्चात् वक्षारपर्वत है, उसके अनन्तर पुनः क्षेत्र है ८, उसके अनंतर मेरुकी दिशाके भागमें पश्चिम भद्रशालवनकी वेदिका है । इस रीतिसे नौ भित्तियोंके मध्यमें आठ क्षेत्र हैं । अब क्रमसे उनके नाम कहते हैं—बप्रा १, सुवप्रा २, महावप्रा ३, वप्रकावती ४, गंधा ५, सुगंधा ६, गंधिला ७ और गंधमालिनी ८, ये अष्ट क्षेत्र हैं । अब क्षेत्रोंके मध्यमें वर्तमान नगरियोंके नाम कहते हैं । विजया १, वैजयन्ती २, जयन्ती ३, अपराजिता ४, चक्रपुरी ५, खङ्गपुरी ६, अयोध्या ७ और अबध्या ८, ये क्रमसे हैं ॥

अथ भरतक्षेत्रे यथा गङ्गासिन्धुनदीद्वयेन विजयार्धपर्वतेन च ऋच्छेच्छखण्डपञ्चकमार्यखण्डं वेति षट् खण्डानि जातानि । तथैव तेषु द्वात्रिंशत्क्षेत्रेषु गङ्गासिन्धुसमाननदीद्वयेन विजयार्धपर्वतेन च प्रत्येकं षट् खण्डानि ज्ञातव्यानि अयं तु विशेषः । एतेषु सर्वदेव चतुर्थकालादिसमानकालः, उत्कर्षेण पूर्वकोटिजीवितं, पश्चात्तवापोत्सेधश्चेति विज्ञेयम् । पूर्वप्रमाणं कथ्यते । “पुंश्वस्त ह्य परिमाणं सदरिः खलु सदसहरसकोटीशो । छप्पणं च सहस्राः घोषत्वा वासगणनाशो । १ ।” इति संक्षेपेण जम्बूद्वीपव्याख्यानं समाप्तम् ॥

तदनन्तरं यथा सर्वद्वीपेषु सर्वसमुद्रेषु च द्वीपसमुद्रमर्यादाकारिका योजनाष्टकोत्सेधा वयवेदिकास्ति तथा जम्बूद्वीपेऽप्यस्तीति विज्ञेयम् । तद्वहिर्भागे योजनत्रयसहस्रवलयविष्कम्भ आगमकथित पोद्दशसहस्रयोजनजलोत्सेधाधनेकाश्रयसहितो लवणसमुद्रोऽस्ति । तस्मादपि बहिर्भागे योजनलक्षचतुष्टयवलयविष्कम्भो घातकीखण्डद्वीपोऽस्ति । तत्र च दक्षिणभागे लवणोदधिकालोदधिसमुद्रद्वयवेदिकास्पर्शा दक्षिणोत्तरायामः सहस्रयोजनविष्कम्भः शतचतुष्टयोत्सेध इक्ष्वाकारनामपर्वतोऽस्ति । तयोत्तरविभागेऽपि । तेन पर्वतद्वयेन खण्डीकृतं पूर्वापरघातकीखण्डद्वयं ज्ञातव्यम् । तत्र पूर्वघातकीखण्डद्वीपमध्ये चतुर-

अथ भरतक्षेत्रमें जैसे गंगा और सिंधु इन दोनों नदियोंसे तथा विजयार्ध पर्वतसे पांच ऋच्छेच्छ खंड और एक आर्य खंड ऐसे छः खंड हुए हैं, उसी प्रकार पूर्वोक्त जो वत्सीस बिदेह क्षेत्र हैं उनमें गंगा सिंधुके मनान दो नदियों और विजयार्ध पर्वतसे प्रत्येक क्षेत्रके छः खंड जानने चाहिये और यह विशेष (अधिकता) है कि इन मध्य क्षेत्रोंमें सदा ही चौथे कालकी आदिमें जैसा काल रहता है वैसे ही है । उत्कर्ष (उःकृष्टता) से कोटि पूर्व प्रमाण तो आयु है, और पाँचसँ भनुप प्रमाण शरीरका उत्सेध है, यह जानना चाहिये । पूर्वका प्रमाण कहते हैं—“सत्तर लाख कोटि छप्पन हजार” ये परसनगनासे पूर्वका प्रमाण जानना चाहिये । ऐसे संक्षेपसे जम्बूद्वीपका व्याख्यान समाप्त हुआ ।

उम जम्बूद्वीपके पञ्चान् जैसे मध्य द्वीप और समुद्रोंमें द्वीप और समुद्रकी मर्यादा (सीमा हट) करनेवाची आठ योजन ऊँची पत्थकी वेदिका (दीवार) है, उसी प्रकारसे जम्बूद्वीपमें भी है, यह जानना चाहिये । उम वेदिकाके पाश्चिमी भागमें दो लाख योजन प्रमाण गोलाकार विष्कम्भका धारक शास्त्रमें एक सौसह हजार योजन जलकी ऊँचाई आदि अनेक आश्रयों सहित लवणसमुद्र है । उस लवणसमुद्रके बायें भागमें चार लाख योजन गोल विष्कम्भका धारक धानकोखंड द्वीप है । और बहुरि दक्षिण भागमें लवणोदधि और कालोदधि इन दोनों समुद्रोंकी वेदिकाकी स्पर्शा करनेवाला, दक्षिणसे उत्तरकी ओर लंबा, एक हजार विष्कम्भका धारक तथा चारसौ योजन ऊँचा इक्ष्वाकारनाम पर्वत है । और इसी प्रकार उत्तर भागमें भी एक इक्ष्वाकार पर्वत है । इन दोनों पर्वतोंमें नडस्य हुए ऐसे,

या । इन्द्रपर्वतानां तु धातकीखण्डकुलपर्वतापेक्षया द्विगुणो विष्कम्भ आयामश्च । उत्सेधप्रमाणं पुनर्दक्षिणभागे विजयार्थपर्वते योजनानि पञ्चविंशतिः, हिमवति पर्वते शतं, महाहिमवति द्विशतं, निपथे चतुःशतं, तथोत्तरभागे च । मेरुसमीपगजदन्तेषु शतपञ्चकं, नदीसमीपे चक्षुरेषु ज्ञान्त्यनिपथनीलसमीपे चतुःशतं च, शेषपर्वतानां च मेरुस्येव । यदेव जम्बूद्वीपे भणितं तदेवार्धद्वीपेषु च विज्ञेयम् । तथा नामानि च क्षेत्रपर्वतनदीदेशनगरादीनां तान्येव । तथैव कोशद्वयोत्सेधा पञ्चशतधनुर्विस्तारा पश्चिम-गर्भमयी घनादीनां वेदिकाः सर्वत्र समाप्तेति । अत्रापि चक्राकारवत्त्वता आरधिवरसंस्थानानि क्षेत्राणि ज्ञातव्यानि । मानुषोत्तरपर्वतादभ्यन्तरभाग एव मनुष्यास्तिष्ठन्ति न च वहिर्भागे । तेषां च जघन्यजीवितमन्तर्मुहूर्त्तप्रमाणम्, उत्कर्षेण पत्यग्रयं, मध्ये मध्य-गविकल्पा गृहवस्तथा तिरश्चा च । एवमसंख्येयद्वीपसमुद्रविस्तीर्णनियंत्तलोकमध्येऽर्धद्वीप-प्रमाणः संक्षेपेण मनुष्यलोको व्याख्यातः ॥

अथ मानुषोत्तरपर्वतसकाशाद्गहिर्भागे स्वयम्भूरमणद्वीपार्थं परिहित्व्य चोऽस्ती नानेन्द्र-

धातकीखण्डकी अपेक्षा भरत आदि दूने नहीं हैं । और कुलपर्वतोंका विष्कम्भ तथा आयाम धातकीखण्डके कुलपर्वतोंकी अपेक्षा द्विगुण है । और ऊँचाईका प्रमाण जो दक्षिण भागमें विजयार्थपर्वत है उसमें पचीस योजन है, हिमवत् पर्वतमें सी १०० योजन, महा-हिमवान् पर्वतमें दोसी योजन, निपथमें चारसी योजन प्रमाण है । तथा उत्तर भागमें भी इसी प्रकार उत्सेध प्रमाण है । मेरुके समीप भागमें जो गजदंत हैं उनमें पांचसी योजनकी ऊँचाई है । नदीके निकटघर्त्ती जो चक्षुर पर्वत हैं उनमें तथा अन्तिम नील और निपथ पर्वतके पास चारसी योजनकी ऊँचाई है । और मेरुको छोड़कर जो शेष (बाकीके) पर्वत हैं उनमें जो जंबूद्वीपमें फही है सोही दार्ष्ट द्वीपमें जाननी चाहिये । तथा क्षेत्र, पर्वत, नदी, देश, नगर आदिके नाम भी यही हैं जो कि जंबूद्वीपमें हैं । और इसी प्रकार दो कौज ऊँची पांचसी धनुष चौड़ी पश्चिम रत्ननिर्मित जो घन आदिकी वेदिका है वह सब द्वीपोंमें समान है । इस पुष्करार्थ द्वीपमें भी चक्रके आकार समान पर्वत हैं और आरोके छिद्रोंके समान क्षेत्र हैं, वह समानता चाहिये । मानुषोत्तर पर्वतके अभ्यन्तर (अंदर) के भागमें ही मनुष्य निवास करते हैं और धाम भागमें नहीं, और उन मनुष्योंका जघन्य आयु अन्तर्मुहूर्त्तके तथा एकद्वि आयु तीन पत्यके बराबर है । मध्यमें मध्यन विकल्प वस्तुमें हैं । तिर्यक्तोंका आयु भी मनुष्योंके आयुके सदृश ही है । इस प्रकार असंख्यान द्वीप मनु-ष्योंसे विस्तारकी प्राप्त जो नियंत्रणके है, उसके मध्यमें दार्ष्ट द्वीप प्रमाण जो मनुष्यको है उसका संक्षेपसे व्याख्यान किया ॥

अथ मानुषोत्तर पर्वतसे धाम भागमें स्वयम्भूरमण नामा द्वीपके अर्धभागकी देकर जो नानेन्द्र नामक पर्वत है इस पर्वतके पूर्व भागमें जो असंख्यान द्वीप समुद्र हैं उनमें वरपि

नामा पवतस्तस्मात्पूर्वभागे ये संख्यातीता द्वीपसमुद्रास्तिष्ठन्ति तेषु यद्यपि व्यन्तरा निरन्तरा इति वचनाद् व्यन्तरदेवावासास्तिष्ठन्ति तथापि पत्यप्रमाणायुषां तिरश्चां संबन्धिनी जघन्यभोगभूमिरिति ज्ञेयम् । नागेन्द्रपर्वताद्द्विर्भागे स्वयम्भूरमणद्वीपार्धं समुद्रे च पुनर्विदेहवत्सर्वदैव कर्मभूमिश्चतुर्थकालश्च । परं किन्तु मनुष्या न सन्ति । एवमुक्तलक्षणतिर्यग्लोकस्य, तदन्तरं मध्यमभागवर्तिनो मनुष्यलोकस्य च प्रतिपाददेन संक्षेपेण मध्यमलोकव्याख्यानं समाप्तम् । अथ मनुष्यलोके द्विहीनशतचतुष्टयं तिर्यग्लोके तु नन्दीश्वरकुण्डलरुचकाभिधानद्वीपत्रयेषु क्रमेण द्विपञ्चाशच्चतुष्टयचतुष्टयसंख्याश्चाकृत्रिमाः स्वतन्त्रजिनगृहा ज्ञातव्याः ॥

अत ऊर्ध्वं ज्योतिर्लोकः कथ्यते । तद्यथा—चन्द्रादित्यग्रहनक्षत्राणि प्रकीर्णतारकाश्चेति ज्योतिष्कदेवाः पञ्चविधा भवन्ति । तेषां मध्येऽस्माद्भूमितलादुपरि नवत्यधिकसप्तशतयोजनाः न्याकाशे गत्वा तारकविमानाः सन्ति । ततोऽपि योजनदशकं गत्वा सूर्यविमानाः, ततः परमशीतियोजनानि गत्वा चन्द्रविमानाः, ततोऽपि त्रैलोक्यसारकथितक्रमेण योजनचतुष्टयं गते

व्यन्तर देव निरन्तर रहते हैं, इस वचनसे व्यन्तर देवांके आवास हैं तथापि एक पत्य प्रमाण आयुके धारक तिर्यचों संबन्धिनी जघन्य भोगभूमि है ऐसा जानना चाहिये । तथा नागेन्द्रपर्वतसे बाह्य भागमें जो स्वयंभूरमण नामक आधा द्वीप और पूर्ण स्वयंभूरमण समुद्र है, उसमें विदेह क्षेत्रके समान सदा ही कर्मभूमि और चतुर्थ काल रहता है । परन्तु विशेष यह है कि वहाँपर मनुष्य नहीं हैं । इस प्रकार पूर्वोक्तलक्षणके धारक तिर्यग्लोकके तथा उसके पश्चात् उस तिर्यक् लोकके मध्यमें विद्यमान जो मनुष्य लोक है उसके संक्षेपसे निरूपणद्वारा मध्यलोकका व्याख्यान समाप्त हुआ । और मनुष्यलोकमें तीनसौ अट्टानवे ३६८ और तिर्यक् लोकमें नन्दीश्वर द्वीपमें बावन ५२, कुण्डल द्वीपमें ४ तथा रुचक द्वीपमें ४, इस प्रकार सब मिलके मध्यलोकमें चारसौ अट्टावन ४५८ अकृत्रिम स्वतंत्र चैत्यालय जानने चाहिये ॥

अब इसके अनन्तर ज्योतिष्कलोकका वर्णन करते हैं । वह इस प्रकार है—चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णतारा ऐसे ज्योतिष्क देव पांच प्रकारके होते हैं । उनके मध्यमें इस पृथ्वीतलसे ऊपर सातसौ नब्बे ७२० योजन आकाशमें जाकर तारोंके विमान हैं, और वहाँसे दश योजन ऊपर जाकर सूर्य के विमान हैं । उसके पश्चात् अस्सी योजन ऊपर जाकर चन्द्रमाके विमान हैं । उसके अनन्तर त्रैलोक्यसारमें कहे हुए क्रमानुसार चार योजन ऊपर जाकर अश्विनी आदि नक्षत्रोंके विमान हैं । उनके पश्चात् चार योजन ऊपर जाकर बुधके विमान हैं । उसके अनन्तर तीन योजन ऊपर जाकर शुकके विमान हैं । और वहाँसे तीन योजन ऊपर चलकर बृहस्पतिके विमान हैं । उसके पश्चात् तीन योजनपर मंगलके विमान हैं । और वहाँसे भी तीन योजनके अनन्तर शनैश्चरके विमान हैं । सोही कहा है—

अन्यादिनक्षत्रविमानाः, ततःपरं योजनचतुष्टयं गत्वा बुधविमानाः, ततः परं योजनत्रयं । शुक्रविमानाः, ततो योजनत्रये गते बृहस्पतिविमानाः, ततो योजनत्रयानन्तरं मङ्ग-
मानाः, ततोऽपि योजनत्रयानन्तरं शनैश्चरविमाना इति । तथा चोक्तं "णशुद्धतरस-
या दस सीदी चउदुगं तु तिचउक्तं । ताराविससिरिक्खा बुहभगवअंगिरारसणी
।" ते च ज्योतिष्कदेवा अर्धचतुर्थीद्वीपेषु निरन्तरं मेरोः प्रदक्षिणेन परिभ्रमणगतिं
रिन्ति । तत्र घटिकाप्रहरदिवसादिरूपः स्थूलव्यवहारकालः समयनिमिपादिसूक्ष्मव्यव-
रकालवत् यद्यप्यनादिनिघनेन समयघटिकादिविश्रितविकल्परहितेन कालाणुद्रव्यरू-
। निश्चयकालेनोपादानभूतेन जन्यते तथापि चन्द्रादित्यादिव्योतिष्कदेवविमानगमना-
मनेन कुम्भकारेण निमित्तभूतेन मृत्पिण्डोपादानजनितघट इव व्यव्यते प्रकटीक्रियते
।यते तेन कारणेनोपचारेण ज्योतिष्कदेवकृत इत्यभिधीयते । निश्चयकालस्तु तद्विमानग-
परिणतेर्बहिरङ्गसङ्कारिकारणं भवति कुम्भकारचक्रभ्रमणस्याधस्तनशिलावदिति ॥

इदानीमर्धचतुर्थीद्वीपेषु चन्द्रादित्यसंख्या कथ्यते । तथाहि—जम्बूद्वीपे चन्द्रद्वयं सूर्य-
द्वयं च, लवणोदे चतुष्टयं, धातकीखण्डद्वीपे द्वादश चन्द्रादित्याश्च, कालोदकममुद्रे द्विच-
त्वारिंशच्चन्द्रादित्याश्च, पृष्कार्थे द्वीपे द्वासप्ततिचन्द्रादित्याश्चेति । ततः परं भरतेरावतस्थि-
तजम्बूद्वीपचन्द्रसूर्ययोः किमपि विवरणं क्रियते । तद्यथा—जम्बूद्वीपाभ्यन्तरे योजनाना-

“सातसी नद्ये, दस, अस्सी, चार, चार, तीन, तीन, और तीन योजन ऊपर क्रमसे
वारा, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल और शनैश्चर के विमान हैं । १।” ।
वे ज्योतिष्कदेव द्वाह्र द्वीपोंमें निरन्तर (सदा) मेरुकी प्रदक्षिणापूर्वक परिभ्रमण (गमन)
करते हैं । उन द्वाह्र द्वीपोंमें घटिका, प्रहर, दिवस आदिरूप स्थूल (मोटा) व्यवहार काल
हैं । समय, निमिष आदि सूक्ष्म कालके समान यद्यपि यह काल अनादिनिघन (आदि और
अन्तरहित) और समय, घटिका आदि विवक्षित भेदोंसे रहित जो कालाणुद्रव्यरूप उपा-
दानभूत निश्चयकाल है उससे उत्पन्न होता है; तथापि जैसे निमित्तभूत कुम्भकारद्वारा
मृत्तिकापिठ है उपादानकारण जिसका ऐसा घट प्रकट किया जाता है, उसी प्रकार चन्द्र,
सूर्य आदि ज्योतिष्कदेवोंके विमानोंके गमनागमन (जाने आने)से यह काल जाना जाता
है, इस कारण उपचारसे “व्यवहार काल ज्योतिष्कदेवोंका किया हुआ है” ऐसा कहा
जाता है । और जो निश्चय काल है वह तो जैसे कुम्भकारके चक्र (चाक)के भ्रमणमें उस
चक्रके नक्षिकी शिला चट्टिरंग महकारी कारण है, उस प्रकार उन ज्योतिष्कदेवोंके विमा-
नोंकी गति-परिणति (गमनरूप परिणाम)में बहिरंग महकारी कारण होता है ॥

अब द्वाह्र द्वीपोंमें जो चन्द्र और सूर्य हैं उनको संख्याका कथन करते हैं । यह इस
प्रकार है—जम्बूद्वीपमें दो चन्द्रमा और दो सूर्य हैं, लवणोदकममुद्रेमें चार चन्द्रमा और चार
सूर्य हैं, धातकीखण्ड द्वीपमें चारह चन्द्रमा और चारह सूर्य हैं, कालोदक ममुद्रेमें द्वा-
सप्त ५२ चन्द्रमा और द्वासाप्त ५२ ही सूर्य हैं तथा पृष्कार्थे द्वीपमें बहतर ७२ चन्द्रमा

मशीतिशतं बहिर्भागे लवणसमुद्रसंघ्ने त्रिंशदधिकशतत्रयमिति समुदायेन दशोत्तरयो-
जनशतपञ्चकं चारक्षेत्रं भण्यते तच्चन्द्रादित्ययोरेकमेव । तत्र भरतेन बहिर्भागे तस्मिन्ना-
रक्षेत्रे सूर्यस्य चतुरशीतिशतसंख्या मार्गा भवन्ति, चन्द्रस्य पञ्चदशैव । तत्र जम्बूद्वीपा-
भ्यन्तरे कर्कटसंक्रान्तिदिने दक्षिणायनप्रारम्भे निषधपर्वतस्योपरि प्रथममार्गं सूर्यः प्रथ-
मोदयं करोति । यत्र सूर्यविमानस्थं निर्दोषपरमात्मनो जिनेश्वरस्याकृत्रिमं जिनविम्बं
प्रत्यक्षेण दृष्ट्वा अयोध्यानगरीस्थितो निर्मलसम्यक्त्वानुरागेण भरतचक्री पुष्पाञ्जलिमुत्सि-
प्यार्घं ददातीति । तन्मार्गस्थितभरतक्षेत्रादित्यस्यैरावतादित्येन सह तथापि चन्द्रस्यान्यचन्द्रेण
सह यदन्तरं भवति तद्विशेषेणागमतो ज्ञातव्यम् ॥

अथ "सदभिस भरणी अहा सादी असलेस जेद्रमवरचरा । रोहिणिविसहपुणवसु
तिउत्तरा मज्झिमा सैसा । १ ।" इति गाथाकथितक्रमेण यानि जघन्योत्कृष्टमध्यनक्षत्राणि
तेषु मध्ये कस्मिन्नक्षत्रे कियन्ति दिनान्यादित्यस्तिष्ठतीति । "इन्दुरवीदो रिक्खा सत्तट्टिव-
पंचगयणखंडहिया । अहियहिदरिक्खखंडा इन्दुरवीअत्थणमुहुत्ता । १ ।" इत्यनेन गाथा-
सूत्रेणागमकथितक्रमेण प्रथक् पृथगानीय मेलापके कृते सति पडधिकपट्टियुतत्रिशतसंख्य-

और बहत्तर ही सूर्य हैं। इसके अनन्तर भरत और ऐरावतमें स्थित जो जम्बूद्वीपके चन्द्र
तथा सूर्य हैं उनका कुछ थोड़ासा विवरण करते हैं। वह इस प्रकार है-जम्बूद्वीपके भीतर
एकसौ अस्सी और बाह्य भागमें अर्थात् लवणसमुद्रके संबंधमें तीनसौ तीस योजन ऐसे
दोनों मिलकर पांचसौ दश योजन प्रमाण सूर्यका चारक्षेत्र (गमनका क्षेत्र) कहलाता है।
सो चन्द्र तथा सूर्य इन दोनोंका एक ही है। इनमें भरक्षेत्रसे बाह्य भागमें उस चारक्षेत्रमें
सूर्यके एकसौ चौरासी मार्ग होते हैं और चन्द्रमाके पन्द्रह ही मार्ग हैं। उनमें जंबूद्वीपके
भीतर कर्कट संक्रान्तिके दिवस जब कि दक्षिण अयनका प्रारंभ होता है तब निषध पर्वतके
ऊपर प्रथम मार्गमें सूर्य प्रथम उदय करता है। जहांपर सूर्यके विमानमें वर्तमान जो
निर्दोष परमात्मा श्रीजिनेन्द्र हैं उनके अकृत्रिम जिनविम्बको अयोध्या नगरीमें स्थित भरत-
क्षेत्रका चक्रवर्ती निर्मल सम्यक्त्वके अनुरागसे अवलोकन करके, पुष्पांजलि उलालकर, अर्घ
देता है। उस प्रथम मार्गमें स्थित जो भरतक्षेत्रका सूर्य है उसका ऐरावत क्षेत्रके सूर्यके
साथ तथा चंद्रमाका चन्द्रमाके साथ और भरतक्षेत्रके सूर्य चन्द्रमाओंका मेरुके साथ जो
अन्तर (फासला व दूरी) रहता है वह विशेषतासे आगमोंसे जानना चाहिये ॥

अब "शतभिषा, भरणी, आर्द्रा, स्वाती, आश्लेषा, ज्येष्ठा ये छः नक्षत्र जघन्य हैं।
रोहिणी, विशाखा, पुनर्वसु, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा, और उत्तराभाद्रपद ये ६ नक्षत्र
उत्कृष्ट हैं। इनके अतिरिक्त शेष जो नक्षत्र हैं वे मध्यम हैं। १। इस गाथामें कहे हुए
क्रमके अनुसार जो जघन्य, उत्कृष्ट तथा मध्यम नक्षत्र हैं, उनमें किस नक्षत्रमें कितने दिन
सूर्य ठहरता है सो कहते हैं। एक मुहूर्तमें चन्द्र १७६८, सूर्य १८३० और नक्षत्र १८३५
गगनखंडोंमें गमन करते हैं, इसलिये अधिकभागोंसे नक्षत्रखंडोंके भाग देनेसे जो मुहूर्त

दिनानि भवन्ति । तस्य दिनसमूहार्थस्य यदा द्वीपाभ्यन्तरादक्षिणेन दहिर्भागेषु दिनकरो गच्छति तदा दक्षिणायनसंज्ञा; यदा पुनः समुद्रात्सकाशादुत्तरेणाभ्यन्तरमार्गेषु समायाति तदोत्तरायणसंज्ञेति । तत्र यदा द्वीपाभ्यन्तरे प्रथममार्गपरिघो कर्कटसंक्रान्तिदिने दक्षिणायनप्रारम्भे तिष्ठत्यादित्यस्तदा चतुर्णवतिसहस्रपञ्चविंशत्यधिकपञ्चषोडशतप्रमाण उक्तपेणादित्यविमानस्य पूर्वोपरेणातपविस्तारो ज्ञेयः । तत्र पुनरष्टादशसहस्रैर्दिवसो भवति द्वादशसहस्रैर् रात्रिरिति । ततः क्रमेणातपहानी सत्यां सुहृत्तद्वयस्यैकपष्टिमागीकृतस्यैको भागो दिवसमध्ये दिनं प्रति होयते यावत्लवणसमुद्रेऽवसानमार्गं मायमासे सकरसंक्रान्तावुत्तरायणदिवसे त्रिपष्टिसहस्राधिकषोडशषोडशतप्रमाणो जघन्येनादित्यविमानस्य पूर्वोपरेणातपविस्तारो भवति । तथैव द्वादशसहस्रैर्दिवसां भवत्यष्टादशसहस्रैर् रात्रिञ्चेति । शेषं विशेषणव्याख्यानं लोकविभागादौ विलेयम् ।

ये तु मनुष्यक्षेत्राद्ब्रह्मिर्भागे ज्योतिष्कविमानास्तेषां चलनं नास्ति । ते च मानुषोत्तरपर्वताद्ब्रह्मिर्भागे पञ्चाशत्सहस्राणि योजनानां गत्वा बलयाकारं पंक्तिरूपेण पूर्वक्षेत्रं परिवेष्ट्य

प्राप्त होते हैं, उन सुहृत्तोंको चंद्र और सूर्यके आसन्न सुहृत्त जानने चाहिये । अर्थात् वतने सुहृत्तों तक चन्द्रमा और सूर्यकी एक नक्षत्र पर स्थिति जाननी चाहिये । इस प्रकार इस गाथामें कहे हुए क्रमसे भिन्नभिन्न दिनोंको लेकर, उनको जोड़नेसे तीनसौ छपासठ ३६६ दिन होते हैं । जब द्वीपके भीतरसे दक्षिण दिशाके वाह्य मार्गमें सूर्य गमन करता है तब तीनसौ छपासठ दिनके आगे जो एकसौ तिरासी १८१ दिन हैं उनकी दक्षिणायन संज्ञा होती है, और इसी प्रकार जब सूर्य समुद्रसे उत्तर दिशाको अभ्यन्तर मार्गमें आता है तब शेष जो १८३ दिन हैं उनका उत्तरायण नाम होता है । उनमें जब द्वीपके अभ्यन्तर भागमें कर्कट संक्रान्तिक दिन दक्षिण अयनके प्रारंभमें सूर्य प्रथम मार्गकी परिधिमें स्थित होता है तब चौरानवे हजार पांचसौ पचीस योजन प्रमाण सूर्यके विमानका पूर्व पश्चिमसे आतप (धूपका) विस्तार (फैलाव) होता है यह जानना चाहिये । और उस समय अठारह सुहृत्तोंसे दिन और बारह सुहृत्तोंसे रात्रि होती है । फिर वहाँसे क्रम क्रमसे आतपकी दानि होनेपर दो सुहृत्तोंके इकसठ भागोंमेंसे एक भाग प्रतिदिन दिवसमें घटता है । यह तबतक घटता है जबतक कि लवणसमुद्रके अन्तके भागमें मायमासमें सकर संक्रान्तिमें उत्तरायण दिवसके प्रारंभमें जघन्यतासे सूर्यके विमानका आतप विस्तार प्रेसठ हजार सोलह योजन प्रमाण होता है । उस समय उनी प्रकार बारह सुहृत्तोंसे दिन और अठारह सुहृत्तोंसे रात्रि होती है । इसके अतिरिक्त अन्य जो विशेष वर्णन है सो लोकविभाग आदिमें जानना चाहिये ॥

और जो मनुष्यक्षेत्र (दाई द्वीप)से दहिर्भागमें ज्योतिष्कविमान है उनका चलन(गमन) नहीं है; तथा ये मानुषोत्तर पर्वतके पाच भागमें पचास हजार योजन गमन कर, बलयाकार (गोंगाकार) पंक्तिरूप क्रमसे पूर्व (पड़ने) क्षेत्रको चंद्र (गिर) कर, रहते हैं । उनमें

लक्ष्मण मध्ये परमस्वास्थ्यभावनोत्पन्ननिर्वाकुलपारमार्थिकसुखविलक्षणानि पञ्चेन्द्रियसु-
खाभिलाषजनितव्याकुलत्वोत्पादकानि दुःखानि सहमानः सन् भ्रमिनोऽयं जीवो यदा पुनरे-
वंगुणविशिष्टस्य धर्मस्य लाभो भवति तदा राजाधिराजार्द्धमाण्डलिकमहानाण्डलिकचलदेव-
वासुदेवकामदेवसफलचक्रवर्तिदेवेन्द्रगणधरदेवतीर्थकरपरमदेवप्रथमकल्याणत्रयपर्वन्तं वि-
विधाभ्युदयसुखं प्राप्य पश्चाद्भेदरत्नत्रयभावनावलेनाश्रयानन्तमुत्पादिगुणास्वप्नमहत्पदं
सिद्धपदं च लभते तेन कारणेन धर्म एव परमरसरसायनं निधिनिधानं कल्पवृक्षः काम-
धेनुश्चिन्तामणिरिति । किं वदन्ता, ये जिनेश्वरप्रणोतं धर्मं प्राप्य दृढमतवो जातास्त एव
धन्याः । तथा चोक्तम्—“धन्या ये प्रतिबुद्धा धर्मं खलु जिनवरैः समुपदिष्टे । ये प्रतिपन्ना
धर्मं स्वभावनोपस्थितमनीषाः । १ ।” इति संक्षेपेण धर्मानुपेक्षा समाप्ता ॥

इत्युक्तवद्वान्ना अनित्याशरणसंसारैकत्वान्यत्वाभुचिन्त्वास्त्रयसंवरनिर्जराशोकवोधिदुर्लभ-
धर्मतत्त्वाभुचिन्तनसंज्ञा निराश्रयमुद्गात्मतत्त्वपरिणतिरूपस्य संघरस्य कारणभूता द्वा-
दानुपेक्षाः समाप्ताः ॥

धर्म ७ लाय, प्रत्येक वनस्पतिमें १० लाय, चै इन्द्रो, ते इन्द्रो और चो इन्द्रो इनमें दो दो
लाय देव, नारकी और निर्धच इन तीनोंमें चार चार लाय तथा मनुष्योंमें चौदह लाय
योनियाँ हैं । १ । इस गाधामें कही हुई चौरामी लाय योनियोंमें परम स्वास्थ्यकी भावनासे
उत्पन्न, व्याकुलतारहित ऐसे पारमार्थिक सुखसे चित्तव्रण (भिन्न) और पापों इन्द्रियोंके
सुखोंकी अभिलाषा (चाँछा)से उत्पन्न, व्याकुलताको पैदा करनेवाले ऐसे जो दुःख हैं
वनको सहते हुए इस जीवने परिभ्रमण किया । जब इस जीवकी पूर्वोक्त प्रकारके धर्मकी
प्राप्ति होती है तब राजाधिराज, महाराज, अर्धमंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, चलदेव, नारायण,
कामदेव, प्रकपत्ती, देव, इन्द्र गणधर देव, तीर्थकर परम देवके पदों तथा तीर्थकरोंके
धर्म, जन्म तथा तप कन्याओंके पर्यन्तके जो अनेक प्रकारके अभ्युदय सुख हैं उन सुखोंको
प्राप्त होकर, तदनन्तर अनेक रत्नत्रयकी भाषनाके वनमें अश्रय और अन्तं गुणोंका ग्यान
जो धरतं पद है उसको और सिद्ध पदको प्राप्त होगा है । इस कारण धर्म ही परम
रमका रसायन है, धर्म ही निधियोंका निधान (भंडार) है, धर्म ही कल्पवृक्ष है, धर्म ही
कामधेनु गाध है और धर्म ही चिन्तामणि रत्न है । विशेष क्या कहें, जो जिनेश्वरके पद
हूय धर्मको प्राप्त होकर, दृढ बुद्धिके धारक (मन्वन्तरी) हुए हैं वे ही धन्य हैं । सोही
कहा है—“जिनहोंने जिनवरमें उपदिष्ट धर्मको जाना है और आसक्तानमें उत्तर बुद्धिके
धारक जिन्होंने इस धर्मको दृढतः किया है वे मय धन्य हैं । १ ।” इस प्रकार संक्षेपमें
धर्मानुपेक्षा समाप्त हुई ।

इस प्रकार पूर्वोक्त मरणकी धारक अनित्य, अशरण, संसार, पश्चात्, अन्वय, अनु-
चित्त, आश्रय, संघर, निर्जरा, शोक, बोधिदुर्लभ और धर्मोत्पन्न इनका अनुचित्त

कारविकल्पभेदेन व्रतच्छेदेन रागादिविकल्परूपसायवोभ्यो निवर्त्य निजशुद्धात्मन्वात्मान-
मुपस्थापयतीति छेदोपस्थापनम् । अथवा छेदे व्रतखण्डे सति निषिंकारसंवित्तिरूपनिश्च-
यप्रायश्चित्तेन तत्साधकव्यहिरण्यव्यवहारप्रायश्चित्तेन वा स्वात्मन्युपस्थापनं छेदोपस्थापन-
मिति । अथ परिहारविमुक्तिं कथयति—“तीसं वासा जन्मे वासपुण्यं च तित्थय-
रमूले । पणकस्याणं पट्टिदो संज्जुण दुगाउ अ विहारो । १ ।” इति गाथाकथित-
क्रमेण मिथ्यावरागादिविकल्पमलानां प्रत्याख्यानेन परिहारेण विशेषेण स्वात्मनः शुद्धि-
नैर्मल्यं परिहारविमुक्तिश्चारित्रमिति । अथ सूक्ष्मसाम्परायचारित्रं कथयति । सूक्ष्मार्तान्द्रि-
यनिजशुद्धात्मसंवित्तिवलेन सूक्ष्मलोभाभिधानसाम्परायन्य कषायस्य चत्र निरवशेषोपश-
मनं श्रपणं वा तत्सूक्ष्मसाम्परायचारित्रमिति । अथ यथाख्यातचारित्रं कथयति—यथा
महजशुद्धस्वभावत्वेन निष्कम्पत्वेन निष्कषायमात्मस्वरूपं तथैवाख्यातं कथितं यथाख्या-
तचारित्रमिति ॥

और द्वेषका परिहार (त्याग) है उसरूप सामायिक है । अथवा शुद्ध आत्माके अनुभवके
बलसे आर्ष तथा रौद्र ध्यानका त्याग करने स्वरूप सामायिक है । अथवा समस्त सुख
तथा दुःखोंमें जो मध्यस्थ रहना तद्रूप सामायिक है । अब छेदोपस्थापन नामक चारित्रके
द्वितीय भेदका वर्णन करते हैं—जब एकही समयमें संपूर्ण विकल्पोंके त्यागरूप परम सामा-
यिकमें स्थित होनेको यह जीव असमर्थ होता है तब “समस्त हिंसा, अनृत (असत्य),
स्तेय (चोरी), अमल तथा परिमद इन पाँचोंसे जो विरति (रहितता) हो व्रत है ।” इस
कथनके अनुसार विकल्पभेदसे पाँच प्रकारके व्रतोंका छेदन होनेपर जो राग आदि विक-
ल्परूप सायसोंसे जीवको छुड़ाकर निज शुद्ध आत्मामें उपस्थापन करे सो छेदोपस्थापन है ।
अथवा छेद अर्थात् व्रतका खंडन (भंग वा नाश) होनेपर निषिंकार निज आत्मामें ज्ञानरूप
निश्चय प्रायश्चित्तरे बलसे अथवा व्यवहार प्रायश्चित्त जो निज आत्मामें स्थितिका होना
सो छेदोपस्थापन है । अथ परिहारविमुक्तिका कथन करते हैं “जो जन्मसे ३० वर्ष
तककी अवस्थाको सुखमें व्यतीत करके वर्षद्वयस्य (८ वर्ष) पर्यन्त तीर्थकरके चरणोंमें
प्रत्याख्यानको पढ़कर तीनों माँघाकालोंको छोड़कर प्रतिदिन दो कोश गमन करता है,
इस मुनिके परिहारविमुक्ति संगम होता है ॥ १ ॥”

इस नायामें कहे हुए क्रमानुसार निष्कारण, राग इत्यादिक जो विकल्प-मल हैं उनका
प्रत्याख्यान (परिहार अथवा त्याग) करके अविकल्पाके साथ जो आत्मार्तौ शुद्धि अर्थात्
निर्मलता है सो परिहारविमुक्तिनामक एतौच चारित्र है । अथ सूक्ष्म साम्पराय चारित्रका
कथन करते हैं—सूक्ष्म, इन्द्रियोंके अगोचर वेदा जो निज शुद्ध आत्मा उसके ज्ञानके बलसे
सूक्ष्म लोभ नामक साम्परायव्यवहारका जहािर पूर्णरूपमें उपदानन अथवा श्रपण (नाश)
होता है वह सूक्ष्मसाम्पराय चारित्र है । अथ यथाख्यात चारित्रका वर्णन करते हैं—जैसा

संवरानुप्रेक्षां च सारभूता, सा चैव संवरं करिष्यति किं विशेषप्रपञ्चेनेति । भगवानाह—
त्रिगुणिलक्षणनिर्विकल्पसमाधिस्थानां यतीनां तथैव पूर्यते तत्रासमर्थानां पुनर्वहुप्रकारेण
संवरप्रतिपक्षभूतो मोहो विजृम्भते तेन कारणेन व्रतादिविस्तारं कथयन्त्याचार्याः ॥३५॥
“असिद्धिसदं किरियाणं अकिरियाणं तु होइ चुलसोदी । सत्तट्टी अण्णाणी वेणइया हुंति
वत्तोसं । १ । जांगा पयइपिदेसा ठिदिअणुभागा कसायदो हुंति । अपरिणदुच्छिण्णेसु अ
बंधो ठिदिकारणं णरियि । २ ।” एवं संवरतत्त्वव्याख्यानं सूत्रद्वयेन तृतीयं स्थलं गतम् ॥

अथ सम्यग्दृष्टिर्जावस्य संवरपूर्वकं निर्जरातत्त्वं कथयति,—

जड कालेण तत्रेण य भुत्तरस कम्मभूमालं जेण ।

भावेण महदि णेया तस्मदणं चेदि णिज्जरा दृविहा ॥ ३६ ॥

व्याख्या । ‘णेया’ इत्यादिख्याख्यानं कथ्यते—“णेया” शातव्या । का ? “णिज्जरा” भाव-

पाप इन दोनों आत्मबलोंके संवरके कारण होते हैं यह समझना चाहिये । यहाँ सोन नामक
राजसेठ कहता है कि हे भगवान् ! ये जो पूर्वोक्त व्रत, समिति आदिक संवरके कारण हैं
इनमें संवरानुप्रेक्षा जो है सो ही मारभूत है और यही इस जीवके आत्मबका मपर कर
देगी फिर आपने जो विशेष प्रपंच (अधिक विस्तारसे कथन) किया है, इससे क्या प्रयो-
जन है ? इस प्रश्न का उत्तर भगवान् नेमिचंद्र स्वामी देते हैं कि-मन वचन तथा काय इन
तीनोंकी गुणित्वरूप जो निर्विकल्प समाधि (ध्यान) है उसमें स्थित जो मुनि हैं उनके
तो उस गुणित्वसे ही पूर्ण अर्थात् संवर हो जाता है और उसमें अज्ञानमय जो जीव हैं उनके
नाना प्रकारसे संवरका प्रतिपक्षीभूत मोह उत्पन्न होता है इस कारण आचार्य व्रत
आदिका कथन करते हैं ॥ ३५ ॥ क्रियायादियोंके एकता अर्थात् १८०, अक्रियायादियोंके
चौरासी ८४, अज्ञानियोंके सहस्र ६० और ज्ञानियोंके दसौस ३२, ऐसे कुल मिलाकर
तीनसौ तिस्रसठ भेद पार्वतियोंके हैं । १ । योगसे प्रकृति और प्रदेश बंध होते हैं, कथा-
योंसे स्थिति तथा अनुभान बंध होता है और जिसके कथायस्थान उद्वेगम नहीं हैं गया
हांग होगये हैं ऐसे उपजातकथाय व स्त्रीयकथाय और मद्योगकेवली हैं उनमें तत्काल बंध
स्थितिका कारण नहीं है । २ । इस प्रकार संवर तत्त्वके व्याख्यानमें दो सूत्रोंद्वारा तृतीय
स्थल समाप्त हुआ ।

अथ सम्यग्दृष्टौ जीव संवर पूर्वक निर्जरा हांती हे इस कारण निर्जरा तत्त्वका कथन
करते हैं ।

गाथाभाषार्थः—जिस ध्यानादि परिणामरूप भावसे कर्मरूपी पुद्गल कथ देखर नष्ट
होते हैं वह ही भावनिर्जरा है और मषिपाक निर्जराकी अपेक्षासे गयाकाल अर्थात् फाल-
गुणित्वरूप कालसे तथा अविपाक निर्जराकी अपेक्षासे वरते जो कर्मरूप पुद्गलोंका नष्ट
होना है सो द्रव्यनिर्जरा है ॥ ३६ ॥

अत्राह शिष्यः—सविपाकनिर्जरा नरकादिरतिष्वद्यानिनामपि दृश्यते संज्ञानिनामेवेति नियमो नास्ति । तत्रोत्तरं—अत्रैव मोक्षकारणं या संवरपूर्विका निर्जरा सैव प्राणा । या पुनरज्ञानिनां निर्जरा सा गजस्तानवत्रिफला । यतः स्तोत्रं कर्म निर्जरयति बहुतरं चघ्नाति तेन कारणेन सा न प्राणा । या तु सरागसद्ब्रह्मिणां निर्जरा सा यद्यप्यशुभकर्मविनाशं करोति तथापि संसारस्थितिं स्तोत्रां कुन्ते । तद्भवे तीर्थंकरप्रकृत्यादिविशिष्टपुण्यवन्धकारणं भवति पारम्पर्येण मुक्तिकारणं चेति । वीतरागसद्ब्रह्मिणां पुनः पुण्यपापद्वयविनाशे तद्भवेऽपि मुक्तिकारणमिति । उक्तं च श्रीकृन्दकुन्द्याचार्यदेवैः “जं अण्णाणी कम्मं खवेदि भवमद-महत्तमकोटीहिं । नं णाणी तिहिं गुत्तो खवेदि उस्सासमित्तेण । १ ।” कश्चिदाह—सद्ब्रह्मिणां वीतरागविशेषणं किमर्थं रागादयो हेवा नदीया न भवन्तीति भेदविद्यमाने जाते सति रागानुभवेऽपि ज्ञानमात्रेण मोक्षो भवतीति । तत्र परिहारः । अन्यकारे पुण्यद्वयम् एकः प्रदीपहस्तस्तद्वृत्ति, अन्यः पुनरेकः प्रदीपरहितस्तद्वृत्ति । स च कृपे पतनं सर्पादिकं वा न जानाति तस्य विनाशे दोषो नास्ति । यस्तु प्रदीपहस्तन्तस्य कृपपतनादिविनाशे प्रदीपरत्नं नास्ति । यस्तु कृपपतनादिकं व्यजति नभ्य प्रदीपफलमस्ति । तथा कोऽपि रागादयो हेवा नदीया न भवन्तीति भेदविद्यमानं न जानाति स कर्मणा बध्यते तावत् । अन्यः कोऽपि रागादिभेदविद्यमाने जातेऽपि यावताज्ञेन रागादिकमनुभवति तावताज्ञेन सोऽपि बध्यत

उसका सामर्थ्य कहा गया और द्रव्यनिर्जराका कथन नहीं किया गया: 'इदि' इस-प्रकार द्रव्य और भावस्पर्से ही प्रकारकी निर्जरा जाननी चाहिये ॥

यहाँ शिष्य कहता है कि जो सविपाक निर्जरा है वह तो नरक आदि गतियोंमें अज्ञानियोंके भी होती हुई देख पड़ती है । इसलिये सन्त्यग्ज्ञानियोंके सविपाक निर्जरा होती है यह नियम नहीं है ? इस शिष्यमें उत्तर यह है कि गदापर जो संवर पूर्वक निर्जरा है उसीको प्रहण करना चाहिये । क्योंकि, वही मोक्षका कारण है । और जो अज्ञानियोंके निर्जरा होती है वह तो गजस्तान (हार्थिके ग्ज्ञान)के समान निष्फल है । क्योंकि, अज्ञानी जोष छोड़े कर्मोंको तो निर्जरा करता है और बहुतसे कर्मोंको बाधता है । इस कारण अज्ञानियोंकी सविपाक निर्जराका चर्चा प्रहण नहीं करना चाहिये । तथा जो सराग सन्त्यग्ब्रह्मियोंके निर्जरा है वह यद्यपि अशुभ कर्मोंका नाश करता है और शुभ कर्मोंका नाश नहीं करता तथापि संसारकी स्थितिको अल्प करती है अर्थात् जोष के संसारपरिधमनको घटाती है । इसी भवमें तीर्थंकर प्रकृति आदि विशिष्ट पुण्यवन्धका कारण हो जाती है और परवरासे मोक्षका कारणभूत होती है । और जो वीतराग सन्त्यग्ब्रह्मिणोंके स्तोत्र पुण्य तथा पाप दोषोंका नाश होनेपर इसी भवमें वह सविपाक निर्जरा मोक्षका कारण हो जाती है । मोक्षी भी कृन्दकुन्द आचार्य देयने कथन किया है—“अज्ञानां जिन कर्मोंका एक साथ करोहु योंमें नाश करता है परन्तु कर्मोंको ज्ञानी जोष मनोवचनकारकों मुक्तिका धारक होकर एक वन्द्यास मात्रमें दृष्ट कर देता है । १ ।” यहाँ कोई संज्ञाका

न्तिकम्बाभाविकाचिन्त्याद्भुतानुपमसकलविमलकेवलज्ञानाद्यनन्तगुणास्पदसवस्थान्तरं मोक्षो भण्यते तथापि विशेषेण भावद्रव्यरूपेण द्विधा भवतीति वार्तिकम् । तद्वया—“णेयो स भावमुक्त्वो” णेयो ज्ञातव्यः स भावमोक्षः । स कः “अप्पणो ह् परिणामो” निश्चयर-
त्नत्रयात्मककारणसमयसाररूपो “हु” स्फुटमात्मनः परिणामः । कथंभूतः “सव्वस्स कम्मणो जो खयहेद्दु” सर्वस्य द्रव्यभावरूपमोहनोयादिघातिचतुष्टयकर्मणो यः क्षयहेतु-
रिति । द्रव्यमोक्षं कथयति । “द्व्वविमुक्त्वो” अयोगिचरमसमये द्रव्यविमोक्षो भवति, फोड्सा “कम्मपुद्दभावो” टक्कोत्कीर्णशुद्धयुद्धैकस्वभावपरमात्मन आयुरादिशेषाघातिकर्म-
णामपि य आत्यन्तिकपृथग्भावो विश्लेषो विघटनमिति ॥

तस्य मुक्तात्मनः सुखं कथ्यते । “आत्मोपादानसिद्धं स्वयमतिशयवद्वीतवार्धं विशालं, वृद्धिहासव्यपेतं विषयविरहितं निष्प्रतिद्वन्द्वभावम् । अन्यद्रव्यानपेक्षं निरुपमममितं शश्वतं मर्यादाकालमुत्कृष्टानन्तसारं परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातम् । १ ।” कश्चिदाह—
इन्द्रियसुखमेव सुखं मुक्तात्मनामिन्द्रियशरीराभावे पूर्वोक्तमतीन्द्रियसुखं कथं घटत इति । तत्रोत्तरं दीयते—सामारिकसुखं तावन् श्लोसेषादिपञ्चेन्द्रियविषयप्रभवमेव, यत्पुनः पञ्चे-

शरीररहित आत्मा है उसके आत्यंतिक, स्वाभाविक, अचिन्त्य, अद्भुत तथा अनुपम ऐसे जो सकल विमल केवलज्ञान आदि गुण हैं उन सबका ग्यानभूत जो अवस्थान्तर है वही मोक्ष कहल जाता है, तथापि विशेषतासे भाव और द्रव्यरूपसे वह मोक्ष दो प्रकारका होता है” यह वार्तिक पाठ है । सो इस प्रकार है—“णेयो स भावमुक्त्वो” उसको भावमोक्ष जानना चाहिये । उसको किसको ? “अप्पणा ह् परिणामो” निश्चयसे निश्चयरत्नत्रय लक्षण जो कारणसमयसार है उसरूप आत्माके परिणामको । कैसे आत्माके परिणाम को ? “सव्वस्स कम्मणो जो खयहेद्दु” जो कि सब अर्थात् द्रव्य तथा भावरूप मोहनोय आदि चार घातिया कर्म हैं उनके नाशका कारण है उसको । अब द्रव्यमोक्षके स्वरूपको कहते हैं—
“द्व्वविमुक्त्वो” अयोगी गुणस्थानवर्ती जीवके अन्य समयमें द्रव्यमोक्ष होता है । यह द्रव्यमोक्ष कैसा है ? “कम्मपुद्दभावो” टंकोत्कीर्ण शुद्ध युद्ध स्वरूप एक स्वभावका धारक जो परमात्मा है उसके आयुः आदि जो शेष (वने ह्) चार अपातिना कर्म हैं उनका भी जो अतिशय करके भिन्न होना तथा नाश होना है उस स्वरूप है ॥

अब हम मुक्तात्माके सुखका वर्णन करते हैं । “निज आगारूप उपादान कारणसे सिद्ध, स्वयं अतिशयसूक्ष्म, घातासे सुख, विशाल, वृद्धि तथा हास (न्यूनता)से रहित, विषयोंसे सुख, समिष्टन्त अर्थात् प्रतिपक्षगामे वर्जित, अन्य द्रव्योंको अपेक्षामे सुख, उपमारहित, अपमान (अवयव), निषेध और मरण ज्ञानमें वृत्तन तथा अतन्तमारता-
सुख ऐसा जो परम सुख है वह हम मोक्षमें उन सिद्धोंके द्वारा है । १ ।” वदतिर कोई शंका रहता है कि इन्द्रियोंमें उपलब्ध हुआ जो सुख है वही सुखही और सिद्ध जायेंगे इन्द्रियों तथा शरीरका अभाव है इसलिए पूर्वोक्त जो अतीन्द्रिय सुख है वह सिद्धोंके जैसे

न्द्रियविषयव्यापाररहितानां निर्व्याकुलचित्तानां पुरुषाणां सुखं तदतीन्द्रियसुखमत्रैव दृश्यते । पञ्चेन्द्रियमनोजनितविकल्पजालरहितानां निर्विकल्पसमाधिस्थानां परमयोगिनां रागादिरहितत्वेन स्वसंवेद्यमात्मसुखं तद्विशेषेणातीन्द्रियम् । यच्च भावकर्मद्रव्यकर्मरहितानां सर्वप्रदेशाह्लादैकपारमार्थिकपरमानन्दपरिणतानां मुक्तात्मनामतीन्द्रियसुखं तदत्यन्तविशेषेण ज्ञातव्यम् । अत्राह शिष्यः—संसारिणां निरन्तरं कर्मवन्धोऽस्ति, तथैवोदयोऽप्यस्ति, शुद्धात्मभावनाप्रस्तावो नास्ति, कथं मोक्षो भवतीति ? तत्र प्रत्युत्तरं । यथा शत्रोः क्षीणावस्थां दृष्ट्वा कोऽपि धीमान् पर्यालोचयत्ययं मम हनने प्रस्तावन्ततः पौरुषं कृत्वा शत्रुं हन्ति तथा कर्मणामप्येकरूपावस्था नास्ति हीयमानस्थित्यनुभागत्वेन कृत्वा यदा लघुत्वं क्षीणत्वं भवति तदा धीमान् भव्य आगमभाषया “खयडवसन्निय विसोही देसणपाउगगकरणलद्धी य । चत्तारिवि सामण्णा करणं सम्मत्तचारित्ते । १ ।” इति नायाकथितलच्छिपञ्चकसंज्ञेनाध्यात्मभाषया । निजशुद्धात्माभिमुखपरिणामसंज्ञेन च निर्मलभावनाविशेषखड्गेन पौरुषं कृत्वा कर्मशत्रुं हन्तीति । यत्पुनरन्तःकोटाकोटीप्रमितकर्मस्थितिरूपेण तथैव लतादारुस्थानीयानुभागरूपेण च कमलध्रुत्वे जातेऽपि सत्ययं जीव आगमभाषया अधःप्रवृत्तिकरणापूर्वकरणा निवृत्तिकरणसंज्ञामध्यात्मभाषया स्वशुद्धात्माभिमुखपरिणतिरूपां कर्महननबुद्धिं कापि काले न करिष्यतीति तदभयत्वगुणस्यैव लक्षणं

हो सकता है ? इसपर उत्तर देते हैं कि सांसारिक जो सुख है वह तो बीसेवन आदिरूप जो पांचों इन्द्रियोंके विषय हैं उन्हींसे उत्पन्न होता है और जो पांचों इन्द्रियोंके विषयोंके व्यापारसे रहित तथा व्याकुलताशून्य चित्तवाले पुरुष हैं उनका जो सुख है वह अतीन्द्रिय सुख है । और इस लोक में ही देखा भी जाता है । और पांचों इन्द्रियों तथा मनसे उत्पन्न जो विकल्पोंके समूह हैं उनसे रहित और निर्विकल्प ध्यानमें स्थित ऐसे परम योगियोंके राग आदिको शून्यतापूर्वक जो स्वसंवेद्य (निजके अनुभवसे जानने योग्य) आत्माका सुख है वह विशेष करके अतीन्द्रिय है । और भावकर्म तथा द्रव्यकर्मोंसे रहित, तथा संपूर्ण आत्माके प्रदेशोंमें आह्लादका जनक ऐसा जो पारमार्थिक परम सुख है उसमें परिणत ऐसे मुक्त जीवोंके जो अतीन्द्रिय सुख है वह अत्यन्त विशेषतासे अतीन्द्रिय जानना चाहिये । अब यहाँपर शिष्य कहता है कि हे गुरो ! संसारी जीवोंके निरन्तर कर्मोंका बंध होता है और इसी प्रकार कर्मोंका उदय भी सदा होता रहता है इस कारण शुद्ध आत्माके ध्यानका प्रस्ताव (प्रसंग) ही नहीं है फिर उनका मोक्ष कैसे होता है ? अब इस शिष्यके प्रश्नका उत्तर देते हैं कि जैसे कोई बुद्धिमान् अपने शत्रुकी क्षीण अवस्थाको देखकर, अपने मनमें विचार करता है कि यह मेरे मारनेका प्रस्ताव है अर्थात् शत्रु दुर्बल है इसलिये यह अवसर शत्रुको मारनेका है; और इस विचारके पश्चात् उद्यम करके, वह बुद्धिमान् अपने शत्रुको मारता है, इसी प्रकार कर्मोंकी भी सदा एकरूप अवस्था नहीं रहती, इस कारण स्थितिवंध और अनुभागबंधकी न्यूनता होनेसे जब कर्म लघु अर्थात्

ज्ञानव्यमिति । अन्यदपि दृष्टान्तनवकं मोक्षविषये ज्ञातव्यम्—“रयणदीवदिणयरद्विडु,
दुद्रउ धाउपहाणु । सुण्णुत्पकलिदुउ अराणि, णव दिट्ठंता जाणि । १ ।” नन्वनादिकाले
मोक्षं गच्छतां जीवानां जगच्छून्यं भविष्यतीति ? तत्र परिहारः । यथा—भाषिकालस-
मयानां क्रमेण गच्छतां यद्यपि भाषिकालसमवराशेः स्तोक्तत्वं भवति तथाप्यवसानं
नास्ति । तथा मुक्तिं गच्छतां जीवानां यद्यपि जीवराशेः स्तोक्तत्वं भवति तथाप्यवसानं
नास्ति, इति चेत्तद्विं पूर्वकाले बहवोऽपि जीवा मोक्षं गता, इदानीं जगतः शून्यत्वं किं न
दृश्यते ? किञ्चाभवानामभयममानभवानां च मोक्षो नास्ति, कथं शून्यत्वं भव-
प्यतीति ॥ ३७ ॥

एवं संक्षेपेण मोक्षतन्वन्व्याख्यानैकसूत्रेण पञ्चमं स्थलं गतम् ।

लोकं होते हैं तब बृद्धिमान भव्य जीव आगम भाषासे ‘अयोपत्रम रत्विष, विमुद्रिरत्विष,
देशनारत्विष, धायोग्यलत्विष और करणलत्विष ये पाँच रत्विषयां हैं । इनमें चार तो सामान्य हैं
और पाँचवीं सन्यस्तवचारित्र्यमें होती है ।’ इस भाषासे कही हुई पाँच रत्विषयां नामक तथा
अध्यात्म भाषासे निज शुद्ध आत्माके सन्मुख परिणाम नामक जो निर्मल भावनाविशीरूप
रत्न है उससे पौरुष करके कर्मशत्रुको नष्ट करता है । और जो अन्तः फोटाकोटि प्रमाण
कर्मस्थितिरूप तथा इसी प्रकार लताकाष्ठके स्थानापन्न अनुभाग रूपसे कर्मोंका लघुत्व
(शीघ्रत्व) होनेपर भी यह जीव आगमभाषासे अधःप्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण और अनिष्ट-
सिकरण नामक तथा अध्यात्मभाषासे निज शुद्ध आत्माके सन्मुख परिणामरूप जो कर्मोंको
नष्ट करनेकी बुद्धि है उसको किन्ही समयमें नहीं करेगा, यह जो कथन है, सो अभव्यन्व
सुणका ही लक्षण जानना चाहिये । और अन्य भी नौ दृष्टान्त मोक्षके विषयमें जानने
योग्य हैं । रत्नदीपक इत्यादि ।

अब यहाँ कोई संता करता है कि अनादि कालसे मोक्षको जति हुए जीवोंसे जगत्की
शून्यता ही आगमों अर्थात् अनादिकालसे जो मोक्षको जीव जा रहे हैं तो न्यून होते होते
कभी न कभी जगत्में आद्य सर्वथा न रहेंगे । इस संकाका परिहार करते हैं कि जैसे क्रमसे
जाते हुये जो भविष्यत् कालके समय हैं उनसे यद्यपि भविष्यकालके समयोंकी राशिमें
न्यूनता होती है तथापि उस समयराशिका अन्य कदापि नहीं; इसी प्रकार मुक्तिमें जाते
हुए जायेंगे यद्यपि जगत्में जीवराशिकी न्यूनता होती है तथापि उस जीवराशिका अंत
नहीं है । यदि ऐसा बहो हो यह सका भी होती है कि पूर्व कालमें बहुत जीव मोक्षहो
गये हैं तब इस समय जगत्की शून्यता क्यों नहीं देख पड़ती ? तो इसपर यह भी उल्लेख है
कि अभव्य जीव तथा अभवके समान भव्य जीवोंका मोक्ष नहीं है । फिर जगत्की
शून्यता कैसे होगी ॥ ३७ ॥

इस प्रकार संक्षेपसे मोक्षब्रह्मके व्याख्यानरूप एक सूत्रसे पञ्चम स्थल समाप्त हुआ ।

अत ऊर्ध्वं पद्मस्थले गाथापूर्वार्धेन पुण्यपापपदार्थद्वयस्वरूपमुत्तरार्धेन च पुण्यपापप्रकृ-
तिसंख्यां कथयामीत्यभिप्रायं मनसि धृत्या भगवान् सूत्रमिदं प्रतिपादयति;—

सुह्रअसुह्रभावजुत्ता पुण्णं पावं हवंति खलु जीवा ।

सादं सुहाउ णामं गोदं पुण्णं पराणि पावं च ॥ ३८ ॥

व्याख्या । “पुण्णं पावं हवंति खलु जीवा” चिदानन्दैकसहजशुद्धस्वभावत्वेन पुण्य-
पापबन्धमोक्षादिपर्यायरूपविकल्परहिता अपि सन्तानागतानादिकर्मबन्धपर्यायेण पुण्यं
पापं च भवन्ति खलु स्फुटं जीवाः । कथंभूताः सन्तः “सुह्रअसुह्रभावजुत्ता” “उद्रम
मिथ्यात्वविषं भाषय दृष्टिं च कुरु परां भक्तिम् । भावनमस्काररतो ज्ञाने युक्तो भव
सदापि । १ । पञ्चमहाव्रतरक्षां कोपचतुष्कस्य निग्रहं परमम् । दुर्दान्तेन्द्रियविजयं तपः-
सिद्धिविधौ कुरुद्योगम् । २ ।” इत्यार्याद्वयकथितलक्षणेन शुभोपयोगभावेन परिणामेन
तद्विलक्षणेनाशुभोपयोगपरिणामेन च युक्ताः परिणताः । इदानीं पुण्यपापभेदान् कथ-
यति “सादं सुहाउ णामं गोदं पुण्णं” सद्देव्यशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यं भवति “पराणि

अब इसके आगे षष्ठ (छठे) स्थलमें गाथाके पूर्वार्धसे पुण्य तथा पापरूप जो दो
पदार्थ हैं उनके स्वरूपको और उत्तरार्धसे पुण्य प्रकृति तथा पाप प्रकृतियोंकी संख्याको
कहता हूँ, इस अभिप्रायको मनमें धारण कर, भगवान् इस सूत्रका प्रतिपादन करते हैं;—

गाथाभावार्थः—शुभ तथा अशुभ परिणामोंसे युक्त जीव पुण्य और पापरूप होते
हैं । सातावेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम तथा उच्च गोत्र नामक कर्मोंकी जो प्रकृतियें हैं वे
तो पुण्य प्रकृतियें हैं और सब पापप्रकृतियें हैं ॥ ३८ ॥

व्याख्यार्थः—“पुण्णं पावं हवंति खलु जीवा” चिदानन्दरूप सहज शुद्ध भावसे
पुण्य पाप बन्ध तथा मोक्ष आदि पर्याय स्वरूप विकल्पोंसे रहित भी जीव हैं तथापि
संतान (प्रवाह)से प्राप्त जो अनादि कर्मबन्ध पर्याय है उससे पुण्य तथा पाप भी होते हैं
अर्थात् पुण्य पापको प्राप्त होते हैं । कैसे होते हुए जीव पुण्य पापको धारण करते हैं ?
इसलिये यह विशेषण कहते हैं । “सुह्रअसुह्रभावजुत्ता” । “मिथ्यात्वरूपी विषका वमन करदो,
सम्यग्दर्शनकी भावना करो, उत्कृष्ट भक्तिको करो, और भाव नमस्कारमें तत्पर होकर
सदा ज्ञानमें लगे रहो । १ । पांच महाव्रतोंकी रक्षा करो, क्रोध आदि चार कषायोंका पूर्ण
रूपसे निग्रह करो, दुर्दान्त (प्रबल) इन्द्रियरूप शत्रुओंका विजय करो तथा बाह्य और
अभ्यन्तर भेदसे दो प्रकारका जो तप है उसको सिद्ध करनेमें उद्योग करो ।” इस प्रकार
दोनों आर्याछन्दोंसे कहे हुए लक्षणसहित शुभ उपयोगरूप भाव परिणामसे तथा उसके
विपरीत अशुभ उपयोग रूप परिणामसे युक्त (परिणत) जो जीव हैं वे पुण्य पापको धारण
करते हैं अथवा स्वयं पुण्य पापरूप हो जाते हैं । अब पुण्य तथा पापके भेदोंको कहते हैं ।
“सादं सुहाउ णामं गोदं पुण्णं” साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम और उच्च गोत्र

पात्रं च" तस्मादपराणि कर्माणि पापं चेति । तद्यथा—सद्वैद्यमेकं, तिर्यग्मनुष्यदेवायु-
स्त्रयं, सुभगयशःकीर्त्तितीर्थकरत्वादिनामप्रकृतीनां सप्तत्रिंशत्, तथोर्ध्वगोत्रमिति समुदा-
येन द्विचत्वारिंशत्संख्याः पुण्यप्रकृतयो विद्येयाः श्रेया द्वयशीतिपापमिति । तत्र "दर्शन-
विशुद्धिर्धनयसंपन्नता शीलव्रतेष्वननिचारोऽभीक्ष्णज्ञानोपयोगसंवेगो शक्तिस्त्यागतपसी
साधुसमाधिर्वैयापृच्यकरणमहोदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकापरिहाणिमार्गप्रभावना
प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वम्" इत्युक्तलक्षणपोदशभावनोत्पन्नतीर्थकरनामकर्मैव
विशिष्टं पुण्यम् । पोदशभावनासु मध्ये परमागमभाषया 'मूढत्रयं मदाध्याष्टौ तयानाय-
तनानि पट् । अष्टौ शङ्कादशश्रेति दृशोपाः पञ्चविंशतिः । । । ।" इति श्लोककथितपञ्च-
विंशतिमन्तरहिता तथाध्यात्मभाषया निजशुद्धात्मोपादेयरुचिरुपा सम्यक्त्वभावनैव
मुद्रयेति विद्योद्यम् । सम्यग्द्वैर्जाघस्य पुण्यपापद्वयमपि हेयम् । कथं पुण्यं करोतीति ? तत्र
युक्तिमाह । यथा कौऽपि देशान्तरस्थमनोहरस्त्रीसमोपादानतपुत्रयाणां तदर्थं दानसम्मा-

चे कर्म तो पुण्यरूप हैं और इनसे भिन्न जो श्रेय कर्म हैं वे पापकर्म हैं । सो इस प्रकार है—
साक्षा वेदनी एक प्रकृति; तिर्यंच, मनुष्य और देव इन भेदोंसे शुभ आयुकी प्रकृतियें तीन
३, सुभग, यशःकीर्त्ति तथा तीर्थकरपना आदि रूप नामकर्मकी प्रकृतियें सैंतीस ३७ और
७३ गोत्र एक १, ऐसे सब मिलके समुदायसे बयालीस ४२ संख्याकी धारक पुण्य प्रकृ-
तियें जाननी चाहिये । बाकीकी जो बयाली प्रकृतियां आठों कर्मोंकी हैं वे सब पाप-
प्रकृतियां हैं ॥

उनमें "दर्शनविशुद्धि १ धनयसंपन्नता २ शील तथा व्रतोंमें अनिचाररहितता ३ निर-
न्तर ज्ञानमें उपयोग ४ संवेग ५ शक्तिपूर्वक त्याग ६ शक्तिपूर्वक तप ७ साधुसमाधि
८ वैयापृच्यका करना ९ अह्नमें भक्ति १० आचार्यभक्ति ११ बहुश्रुतभक्ति १२
प्रवचनभक्ति १३ आवश्यकोंमें हानि न करना अर्थात् पट् आवश्यकोंकी निरन्तर धारण
करना १४ मार्गप्रभावना १५ और प्रवचनवत्सल्य १६ ये तीर्थशूर प्रकृतिके चरके
कारण हैं ।" इन कहे हुए लक्षणको धारक जो सोलह भावना हैं उनमें उत्पन्न जो तीर्थकर
नामकर्म हैं सो विशिष्ट पुण्य हैं । उक्त सोलह भावनाओंमें परमागम भाषामें "यौन मूढता,
आठ मर, कः (६) अनावसन और आठ शंका आदि श्रेय ऐसे पशोम २१ सम्पन्न-
जनके श्रेय हैं । १ ।" इस प्रकार श्लोकमें कहे हुए पशोम सम्पन्नजनके मर (श्रेय तथा
अनिचारों)में रहित ऐसी तथा अध्यात्मगतगामे निज शुद्ध आत्मा ही उपदेश (पदप
करने योग्य) है, इस प्रकारकी जो मति (प्रीति) है उसरूप जो सम्पन्नकी भावना है
सांही सुख है यह जानना चाहिये । शंका—सम्पत्तौ जीवके तो सुख तथा पाप वे दोनों
ही हेय (भयाङ्क) हैं फिर यह पुण्य कैसे करना है ? इस शंकाके मन्त्रागममें युक्तिहा
कथन करते हैं । जैसे कोई मनुष्य अन्य देशमें विद्यमान ऐसी मनोहर (रूप वा श्रवण-

अथ प्रथमतः सूत्रपूर्वार्धेन व्यवहारमोक्षमार्गमुत्तरार्धेन च निश्चयमोक्षमार्गं निरूपयति,—

सम्महंसणणाणं चरणं मुखस्स कारणं जाणे ।

ववहारा णिच्छयदो तत्तियमइओ णिओ अप्पा ॥ ३९ ॥

व्याख्या । “सम्महंसणणाणं चरणं मुखस्स कारणं जाणे ववहारा” सम्यग्दर्शन-ज्ञानचारित्रत्रयं मोक्षस्य कारणं हे शिष्य जानीहि व्यवहारनयात् । “णिच्छयदो तत्तियमइओ णिओ अप्पा” निश्चयतस्तत्त्रितयमयो निजात्मेति । तथाहि- वीतरागसर्वज्ञप्रणीतपटुद्रव्यपञ्चास्तिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थसम्यक्श्रद्धानज्ञानव्रताद्यनुष्ठानविकल्परूपो व्यवहारमोक्षमार्गः । निजनिरञ्जनशुद्धात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणैकाग्र्यपरिणतिरूपो निश्चयमोक्षमार्गः । अथवा धातुपापाणेऽग्निवत्साधको व्यवहारमोक्षमार्गः, सुवर्णस्थानोयनिर्विकारस्वोपलब्धिसाध्यरूपो निश्चयमोक्षमार्गः । एवं संक्षेपेण व्यवहारनिश्चयमोक्षमार्गलक्षणं ज्ञातव्यमिति ॥ ३९ ॥

अथाभेदेन सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि स्वशुद्धात्मैव तेन कारणेन निश्चयेनात्मैव निश्चयमोक्षमार्गं इत्याख्याति । अथवा पूर्वोक्तमेव निश्चयमोक्षमार्गं प्रकारान्तरेण दृश्यति;—

अब प्रथमही सूत्रके पूर्वार्धसे व्यवहार मोक्षमार्गको और उत्तरार्धसे निश्चय मोक्षमार्गको कहते हैं;—

गाथाभावार्थः—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनोंके समुदायको व्यवहारसे मोक्षका कारण जानो । तथा निश्चयसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और चारित्र स्वरूप जो निज आत्मा है उसको मोक्षका कारण जानो ॥ ३९ ॥

व्याख्यार्थः—“सम्महंसणणाणं चरणं मुखस्स कारणं जाणे ववहारा” हे शिष्य ! व्यवहारनयसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्चारित्र इन तीनोंके समुदायको मोक्षका कारण जानो । “णिच्छयदो तत्तियमइओ णिओ अप्पा” और निश्चयसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा चारित्र इन तीनों स्वरूप जो निज आत्मा है वही मोक्षका कारण है । भावार्थ—श्रीवीतराग सर्वज्ञसे कहे हुए जो छः द्रव्य, पांच अस्तिकाय, सात तत्त्व और नव पदार्थ हैं इनका भले प्रकार श्रद्धान करना, जानना, और व्रत आदिका आचरण करना इत्यादि विकल्परूप जो है सो तो व्यवहार मोक्षमार्ग है । और जो अपने निरंजन शुद्ध आत्मतत्त्वका सम्यक् श्रद्धान, ज्ञान तथा आचरणमें एकाग्रपरिणति रूप है वह निश्चय मोक्षमार्ग है । अथवा धातु पापाणके विषयमें अग्निके सदृश जो साधक है वह तो व्यवहार मोक्षमार्ग है तथा सुवर्णके स्थानापन्न निर्विकार जो निज आत्मा है उसके स्वरूपको प्राप्तिरूप जो साध्य है उस स्वरूप निश्चय मोक्षमार्ग है । इस प्रकार संक्षेपसे व्यवहार तथा निश्चय मोक्षमार्गके लक्षणको जानना चाहिये ॥ ३९ ॥

अब अनेकसे सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र निजशुद्ध आत्मा ही है इस कारण निश्चयनवसे

रयणत्तयं ण वट्टइ अप्पाण मुइत्तु अप्णदवियत्ति ।

तस्मा तत्तियमइत्तु होदि हु मुक्खस्स कारणं आदा ॥ ४० ॥

व्याख्या । "रयणत्तयं ण वट्टइ अप्पाण मुइत्तु अप्णदवियत्ति" रत्नत्रयं न वर्तते स्वकी-
यशुद्धात्मानं मुक्त्वा अन्याचेतने द्रव्ये । "तस्मा तत्तियमइत्तु होदि हु मुक्खस्स कारणं
आदा" तस्मात्तत्प्रितयमय आत्मैव निश्चयेन मोक्षस्य कारणं भवतीति जानीहि । अयं
विस्तारः—-रागादिविकल्पोपाधिरहितचिजमत्कारभावनोत्पन्नमधुररसात्त्वाद्मुखोऽहमिति
निश्चयरूपं सम्यग्दर्शनं, तस्यैव सुखस्य समस्तविभावेभ्यः स्वसंवेदनज्ञानेन पृथक् परिच्छे-
दनं सम्यग्ज्ञानं, तस्यैव दृष्टशुतानुभूतभोगाकाङ्क्षप्रभृतिस्समस्तापध्यानरूपमनोरथजनितसंफ-
ल्पविकल्पजालत्यागेन तत्रैव सुखे रतस्य सन्तुष्टस्य तृप्तस्यैकाकारपरमसमरसीभावेन
द्रवीभूतचित्तस्य पुनः पुनः स्थिरीकरणं सम्यक्चारित्र्यम् । इत्युक्तञ्चरणं निश्चयरत्नत्रयं
शुद्धात्मानं विहायान्यत्र षट्पटादिविच्छिन्न्ये न वर्तते यतस्ततः कारणादभेदनयेनानेकद्र-
व्यात्मकैकप्रपानकवत्तदेव सम्यग्दर्शनं, तदेव सम्यग्ज्ञानं, तदेव चारित्र्यं, तदेव स्वात्म-
तत्त्वमित्युक्तञ्चरणं निजशुद्धात्मानमेव मुक्तिकारणं जानीहि ॥ ४० ॥

आत्मा ही निश्चय मोक्षमार्ग है, इस प्रकार फयन करते हैं । अथवा पहले कहे हुए निश्चय
मोक्षमार्ग को ही अन्य प्रकारसे दृढ़ करते हैं ।

शाधाभावार्थः— आत्माको छोड़कर अन्य द्रव्यमें रत्नत्रय नहीं रहता, इस कारण रत्न
त्रयमयी जो आत्मा है वही निश्चयसे मोक्षका कारण है ॥ ४० ॥

व्याख्यार्थः— "रयणत्तयं ण वट्टइ अप्पाण मुइत्तु अप्णदवियत्ति" निज शुद्ध
आत्माको छोड़कर अन्य अचेतन द्रव्यमें रत्नत्रय नहीं रहता है । "तस्मा तत्तियमइत्तु
होदि हु मुक्खस्स कारणं आदा" इस कारण रत्नत्रयमय आत्माको ही निश्चयसे
मोक्षका कारण जानो । अयं विस्तारमें वर्णन करते हैं— राग आदि विकल्पोंकी उपारिमे
रहित जो चित्त चमत्कारकी भावनासे उत्पन्न मधुर रस (अमृत) है उसके आस्वाद रूप
सुखका धारक मैं हूँ, इस प्रकार निश्चयस्य सम्यग्दर्शन है । और इस पूर्वोक्त सुखके जो
राग आदि समस्त विभाव हैं उनसे स्वसंवेदन ज्ञानज्ञान मिश्र करना अथवा जानना है मो
सम्यग्ज्ञान है । और इसी प्रकार देखो, मुझे तया अनुभव किये हुए जो भोग इनमें वांछा
करना आदि जो समस्त दुष्परिणत्य मनोरथ हैं उनमें तयस्य हुए संकल्प विकल्पोंके त्यागमें
कर्मों सुखमें संतुष्ट तथा एक आशरका धारक जो परम सज्जता भाव कर्मसे धरतयमान
विशेषा धारणार निरर करना सम्यक् चारित्र्य है । इस प्रकार कहे हुए अज्ञानका धारक
जो रत्नत्रय है वह शुद्ध आत्माको छोड़कर अन्य जो षट्, षट् आदि षड् द्रव्य है इनमें
नहीं रहता है, इस कारण अर्थात्से अनेक द्रव्योंमें एक प्रपानक अर्थात् यद्दान, सौक्य,
निर्भी, निरभ आदि द्रव्योंरूप तंत्राईसे समान यह आत्मा ही सम्यग्दर्शन है, वह

एवं प्रथमस्थले सूत्रद्वयेन निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गस्वरूपं संक्षेपेण व्याख्याय तदनन्तरं द्वितीयस्थले गाथापट्कपर्यन्तं सम्यक्त्वादित्रयं क्रमेण विवृणोति । तत्रादौ सम्यक्त्वमाह—

जीवादीसद्दहणं सम्मत्तं रूवमप्पणो तं तु ।

दुरभिणिवेशविमुक्कं णाणं सम्मं खु होदि सदि जद्धि ॥ ४१ ॥

व्याख्या । “जीवादीसद्दहणं सम्मत्तं” वीतरागसर्वज्ञप्रणीतशुद्धजीवादितत्त्वविषये चलमलिनावगाढरहितत्वेन श्रद्धानं रुचिनिश्चय इदमेवेत्यमेवेति निश्चयबुद्धिः सम्यग्दर्शनम् । “रूवमप्पणो तं तु” तच्चाभेदनयेन रूपं स्वरूपं तु पुनः, कस्यात्मन आत्मपरिणाम इत्यर्थः । तस्य सामर्थ्यमाहात्म्यं दर्शयति । “दुरभिणिवेशविमुक्कं णाणं सम्मं खु होदि सदि जद्धि” यस्मिन् सम्यक्त्वे सति ज्ञानं सम्यग् भवति स्फुटं । कथम्भूतं सम्यग्भवति “दुरभिणिवेशविमुक्कं” चलितप्रतिपत्तिगच्छत्तृणस्पर्शशुक्तिकाशकलरजतविज्ञानसदृशैः संशयविभ्रमविमोहैर्मुक्तं रहितमित्यर्थः ।

आत्मा ही सम्यग्ज्ञान है, वह आत्मा ही चारित्र है तथा वही निज आत्मतत्त्व है । इस प्रकार कहे हुए लक्षणवाले निज शुद्ध आत्माको ही मुक्तिका कारण जानो ॥ ४० ॥

इस प्रकार प्रथम स्थलमें दो सूत्रोंद्वारा संक्षेपसे निश्चय मोक्षमार्ग और व्यवहार मोक्षमार्गके स्वरूपका व्याख्यान करके अब आचार्य छः गाथाओंतक क्रमसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र इन तीनोंका विस्तारसे वर्णन करते हैं । उनमें प्रथम ही सम्यक्त्व (सम्यग्दर्शन) को कहते हैं—

गाथाभावार्थः—जीव आदि पदार्थोंका जो श्रद्धान करना है वह सम्यक्त्व है और वह सम्यक्त्व आत्माका स्वरूप है । और इस सम्यक्त्वके होनेपर संशय, विपर्यय तथा अनध्यवसाय इन तीनों दुरभिनिवेशोंसे रहित होकर सम्यग्ज्ञान कहलाता है ॥ ४१ ॥

व्याख्यार्थः—“जीवादीसद्दहणं सम्मत्तं” वीतराग सर्वज्ञ श्रीजिनेन्द्रसे कहे हुए जो शुद्ध जीव आदि तत्त्व हैं उनके विषे चल मलिन तथा अवगाढकी रहितता पूर्वक जो श्रद्धान अर्थात् रुचि अथवा “जो जिनेन्द्रने कहा वही यह है, जिस प्रकारसे जिनेन्द्रने कहा है उस प्रकारसे यह है” इस प्रकार जो निश्चयरूप बुद्धि है वह सम्यग्दर्शन है । “रूवमप्पणो तं तु” और वह सम्यग्दर्शन अभेद नयसे आत्माका स्वरूप है अर्थात् आत्माका परिणाम है । अब सम्यग्दर्शनके सामर्थ्य अथवा माहात्म्यको दिखाते हैं । “दुरभिणिवेशविमुक्कं णाणं सम्मं खु होदि सदि जद्धि” जिस सम्यक्त्वके होनेपर चलायमान ज्ञान अर्थात् यह पुरूप है अथवा स्थाणु (काष्ठका टूठ) है इस रूप संशय, गमन करते हुए जैसा टणके स्पर्श आदिका ज्ञान होता है उस ज्ञानके समान विमोह, अथवा अनध्यवसाय तथा सीपके टुकड़ेमें चांदीके विज्ञानके समान जो विभ्रम अर्थात्

इतो विस्तरः—सम्यक्त्वे सति ज्ञानं सम्यग्भवतीति यदुक्तं तस्य विवरणं कियते तथाहि—गीतमान्निभूतिवायुभूतिनामानो विप्राः पञ्चपञ्चशतब्राह्मणोपाध्याया वेदच-
तुष्टयं, त्र्योतिष्ठकन्याकरणादिपडज्ञानि, मनुस्मृत्याष्टादशस्मृतिशास्त्राणि तथा भारताष्ट-
ष्टादशपुराणानि मीमांसा न्यायविस्तर इत्यादिलौकिकसर्वशास्त्राणि यद्यपि जानन्ति तथापि
तेषां हि ज्ञानं सम्पत्क्यं विना मिथ्याज्ञानमेव । यदा पुनः प्रसिद्धकथान्यायेन सीवीरव-
र्द्धमानस्यामितीर्थकरपरमदेवसमवसरणे मानस्तम्भाघटोक्तनमात्रादेवागमभाषया दर्शन-
चारित्रमोहनीयोपशमन्नयसंज्ञेनाध्यात्मभाषया स्वगुणात्माभिमुखपरिणामसंज्ञेन च काला-
दिलच्छिद्विशेषेण मिथ्यात्वं विलयं गतं तदा तदेव मिथ्याज्ञानं सम्यग्ज्ञानं जातम् ।
ततश्च “जयति भगवान् हेमाभोजप्रचारविजृम्भिताघमरमुहुट्टीन्द्रायोर्द्रोर्णप्रभापरि-
चुम्बितौ । क्लृपहृदया मानोद्गाताः परस्परवैरिणो विगतकल्पाः पादौ यस्य प्रपद्य
विशिष्यसुः ।” इति नमस्कारं कृत्वा जिनदीक्षां गृहीत्वा कचलोपानन्तरमेव चतुर्गानसप्रद्वि-
सम्पन्नास्योऽपि गणधरदेवाः संजाताः । गीतमस्यामी भग्योपकारार्थं द्वादशाङ्गधनुस्त्वचनं
कृतवान् । पश्चान्निश्चयरत्नप्रभावनायनेन त्रयोऽपि मोक्षं गताः । श्रेयाः पञ्चदशशतप्रमित-
ब्राह्मणा जिनदीक्षां गृहीत्वा यथासम्भवं स्वर्गं मोक्षं च गताः । अमदवसेनः

विपर्यय है तीनोंसे रहित हुआ जो ज्ञान है वह सम्यग् (समोर्चीन) ज्ञान होता है । भावार्थ—सम्यक्त्वके पहले संशय, विपर्यय और अनध्यवसायरूप दोषोंसे दूषित होनेके कारण ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं कहलाता है और सम्यक्त्वके होते ही उक्त दोष ज्ञानमेंसे चले जाते हैं इस कारण वह सम्यग्ज्ञान कहलाता है । सो यह सम्यक्त्व (सम्यग्दर्शन) का ही माहात्म्य है ।

अथ विस्तारसे वर्णन करते हैं । उसमें प्रथम ही सम्यग्दर्शन होनेपर ज्ञान सम्यग्ज्ञान होता है यह जो कहा गया है उसका विवरण करते हैं । तथाहि—पाँच पाँचसौ ब्राह्मणोंके अध्यापक (पढ़ानेवाले) गीतम, जन्निभूति और वायुभूति नामक तीन ब्राह्मण चारों वेद, त्र्योतिष्ठक, त्याकरण आदि छठीं अङ्ग, मनुस्मृति आदि अठारह स्मृतिशास्त्र, महाभारत आदि अठारह पुराण, तथा मीमांसा, न्यायविस्तर इत्यादि समस्त लौकिक शास्त्रोंको जानते थे सो भी उनका ज्ञान, सम्यग्दर्शनके विना मिथ्याज्ञान ही था । परन्तु जब वे प्रसिद्ध कथाके अनुसार सीवीर पर्यमान (महावीर) यामी तीर्थेन्द्र परम देवके समवसरणमें गये तब मानस्तम्भके देवनेमात्रसे ही आत्म भाषासे दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीयके कर्णोपशमसे और अध्यात्म भाषासे निज गुण आत्मनाके समुच्च परिणाम तथा काष्ठ आदि लक्षिरथोंके विघ्नोपसे उनका मिथ्यात्व नाशको प्राप्त हो गया और इसी समय उनका जो मिथ्याज्ञान था वही सम्यग्ज्ञान हो गया । और सम्यग्ज्ञान होते ही “जयति भगवान्” इत्यादि रूप जो प्रसिद्ध लोक है उसमें भगवान्को अनुरोध करके मोक्षिनेन्द्रको दोस्राको धारण कर देतींछा जो लोच बिंबा, वसुके पीतों दो मंडि, सुत, अक्षयि और मनःपंच नामक धार ज्ञान

पुनरेकादशङ्गधारकोऽपि सम्यक्त्वं विना मिथ्याज्ञानी सञ्जात इति । एवं सम्यक्त्व-
माहात्म्येन ज्ञानतपश्चरणव्रतोपशमध्यानादिकं मिथ्यारूपमपि सम्यग्भवति । तदभावे
विषययुक्तदुग्धमिव सर्वं वृथेति ज्ञातव्यम् ।

तच्च सम्यक्त्वं पञ्चविंशतिमलरहितं भवति । तद्यथा—देवतामूढलोकमूढसमयमूढ-
भेदेन मूढत्रयं भवति । तत्र क्षुधाद्यष्टादशदोषरहितमनन्तज्ञानाद्यनन्तगुणसहितं बीत-
रागसर्वज्ञदेवतास्वरूपमजानन् ख्यातिपूजालाभरूपलावण्यसौभाग्यपुत्रफलवराज्यादिविभू-
तिनिमित्तं रागद्वेषोपहतार्त्तरीन्द्रपरिणतक्षेत्रपालचण्डिकादिमिथ्यादेवानां यदाराधनं करोति
जीवस्तदेवतामूढत्वं भण्यते । न च ते देवाः किमपि फलं प्रयच्छन्ति । कथमिति चेत् ?
रावणेन रामस्वामिलक्ष्मीधरविनाशार्थं बहुरूपिणी विद्या साधिता, कौरवैस्तु पाण्डवनि-
र्मूलनार्थं कात्यायनी विद्या साधिता, कंसेन च नारायणविनाशार्थं ब्रह्मयोऽपि विद्याः
समाराधितास्ताभिः वृत्तं न किमपि रामस्वामिपाण्डवनारायणानाम् । तैस्तु यद्यपि
मिथ्यादेवता नानुकूलितास्तथापि निर्मलसम्यक्त्वोपार्जितेन पूर्वकृतपुण्येन सर्वं निर्विघ्नं

तथा सात ऋद्धियौके धारक होकर तीनों ही श्रीमहावीर स्वामीके समबशरणमें गणधर
देव होगये । उनमेंसे गौतमस्वामीने भग्यजीवौके उपकारके अर्थ द्वादशङ्गरूप श्रुतकी
रचना की । फिर वे तीनों ही निश्चयरत्नत्रयकी भावनाके बलसे मोक्षको प्राप्त हुए ।
और एकादश (ग्यारह) अंगोंका पाठी भी जो एक अभयसेन नामक मुनि था वह
सम्यक्त्वके विना मिथ्याज्ञानी ही रहा । इन उक्त दोनों कथाओंसे निश्चित हुआ कि
सम्यक्त्वके माहात्म्यसे मिथ्यारूप भी जो ज्ञान, तपश्चरण, व्रत, उपशम तथा ध्यान
आदि हैं वे सम्यग् हो जाते हैं । और सम्यक्त्वके विना विष (जहर) से मिले
दुग्धके समान ज्ञान-तपश्चरणादि सब वृथा हैं, यह जानना चाहिये ।

और वह सम्यक्त्व पच्चीस २५ मलोंसे अर्थात् दोषोंसे रहित होता है । वह
इस प्रकार है—उन पच्चीस दोषोंमें देवतामूढ, लोकमूढ तथा समयमूढके भेदोंसे तीन
मूढता हैं । उनमें क्षुधा, तृषा आदि अठारह दोषोंसे रहित, अनन्त ज्ञान आदि अनन्त
गुणोंसहित जो श्रीवीतराग सर्वज्ञ देव हैं उनके स्वरूपको नहीं जानता हुआ जीव
ख्याति (लोकमें प्रसिद्धता), पूजा, लाभ, रूप, लावण्य, सौभाग्य, पुत्र, स्त्री और
राज्य आदिकी संपदाको प्राप्त होनेके लिये जो राग तथा द्वेषसे युक्त और आर्त्त तथा
रीद्र ध्यानरूप परिणामोंके धारक क्षेत्रपाल चण्डिका आदि मिथ्यादृष्टी देवोंका
आराधन करता है उसको देवतामूढ कहते हैं । और ये क्षेत्रपाल, चण्डिका आदि देव
कुछ भी फल नहीं देते हैं । फल कैसे नहीं देते हैं ? यदि ऐसा पूछो तो उत्तर यह है
कि—रावणने श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मणजीके विनाशके लिये बहुरूपिणी विद्या
सिद्ध की, और कौरवोंने पाण्डवोंका मूलसे नाश करनेके अर्थ कात्यायनी विद्या सिद्ध

ज्ञातमिति । अथ लोकमूढत्वं कथयति । गङ्गादिनदीतीर्थस्नानसमुद्रस्नानप्रातःस्नानजलप्रवेशमरणाग्निप्रवेशमरणगोम्रहणादिमरणभूम्यग्निवटपृक्षपूजादानि पुण्यकारणानि भवन्तीति यद्वदन्ति तल्लोकमूढत्वं विज्ञेयम् । अथ समयमूढत्वमाह । अहानिजनचिन्तनसत्कारोत्पादकं ज्योतिष्कमन्त्रवादादिकं दृष्ट्वा वीतरागसर्वज्ञप्रणीतसमयं विहाय कुदेवागमलिङ्गिनीभयाशास्त्रेहलोभैर्धर्मार्थं प्रणामचिन्तयपूजापुरस्कारादिकरणं समयमूढत्वमिति । एषमुच्छलक्षणं मूढश्रयं सरागसन्त्यग्दृष्टपक्षस्यायां परिहरणीयमिति । त्रिगुमावस्थालक्षणवीतरागसन्त्यक्तव्यप्रस्तावे पुनर्निजनिर्जलननिर्दोषपरमात्मैव देव इति निश्चयबुद्धिदेवतामूढरहितत्वं विज्ञेयम् । तथैव मिथ्यास्वरागादिक्रममूढभावत्यागेन स्वशुद्धात्मन्येवावस्थानं लोकमूढरहितत्वं विज्ञेयम् । तथैव च समन्तशुभाशुभमकृत्यविकल्परूपपरभाषत्यागेन निर्विकारतास्विकपरमानन्दफलक्षणपरमसमरमीभावेन तस्मिन्नेव सन्त्यग्रूपेणायत्नं गमनं परिणमनं समयमूढरहितत्वं बोद्धव्यम् । इति मूढश्रयं व्याख्यातम् ।

को भी, तथा कंसने शीष्ण नारायणके नाशके लिये बहुतसी विद्याओंकी आराधना की थी । परन्तु इन विद्याओंने श्रीरामचन्द्रजी, पाँदव और श्रीकृष्णनारायणका कुछ भी अनिष्ट नहीं किया । और श्रीरामचन्द्रजी आदिने इन मिथ्यादृष्टी देवोंको अनुकूल नहीं किया अर्थात् नहीं आराधये तो भी निर्मलसन्त्यग्दर्शनसे उपाजित जो पूर्वभयका पुण्य है उससे इनके सब विघ्न दूर होगये । अब लोकमूढताका कथन करते हैं । "गंगा आदि जो नदीरूप तीर्थ हैं उनमें स्नान करना, समुद्रमें स्नान करना, प्रातः (प्रभात) कालमें स्नान करना, जलमें प्रवेश करके मर जाना, मृतक (मुरदे) की अग्नि (चिना) में प्रवेश करके मरना, गो (गाय) के पुच्छ आदिकी प्रहण करके मरण करना, पृथिवी-अग्नि और वट (वट) पृक्ष आदिकी पूजा करना" ये सब पुण्यके कारण हैं इन प्रकार जो लोग कहते हैं, इनको लोकमूढता जानना चाहिये । अब समयमूढ अर्थात् शास्त्र अथवा धर्म-मूढताको कहते हैं । अहानी लोगोंके विनामें सत्कार (आश्रय) छपस करनेवाले ज्योतिष्क अथवा मन्त्रवाद आदिकी देवकर, भीषीतराग सवैशद्वारा कदा हुआ जो समय (धर्म) है, इनको छोड़कर मिथ्यादृष्टी देव, मिथ्या आगम और लोटा सच करनेवाले बुद्धिही, इन सबका भयमें, बाँटामें, नेहसे और लोभधम जो धर्मके लिये प्रणाम, चिन्तन, पूजा, सत्कार आदिहा करना है उस सबको समयमूढता जानना चाहिये । इन प्रकार पूर्वोक्त लक्षणको धारक जो तीन मूढता हैं इनको मरारागसम्पददृष्टीको अवस्था (दशा) में त्यागना चाहिये । और मन, चञ्चल तथा कायकी मुक्तिरूप अवस्था है मग्नज जिसका देना जो वीतरागसन्त्यक्त है उसके प्रस्ताव (निरूपण) में अपना निर्जन तथा निर्दोष जो परमात्मा है वही देव है वही जो निश्चय बुद्धि है वही देवमूढतासे रहितता जान

कंसनेन प्रार्थना कृता तदा ताभ्यां पार्यालोचितं मदीयः पुत्रो नवमो वासुदेवो भविष्यति तस्य हस्तेन जरासिन्धुनाभ्रो नवमप्रतिवासुदेवस्य कंसस्यापि मरणं भविष्यतीति जैनागमे भणितं तिष्ठतीति, तथैवातिमुक्तभट्टारकैरपि कथितमिति निश्चित्य कंसाय स्वकोयं बालकं दत्तम् । तथा शेषभयैरपि जिनागमे शङ्का न कर्त्तव्येति । इदं व्यवहारेण सम्यक्त्वस्य व्याख्यानम् । निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहारनिःशङ्कागुणस्य सहकारित्वेनेहलोकात्राणागु-
प्तिमरणव्याधिवेदनाकस्मिकाभिधानभयसप्तकं मुक्त्वा घोरपसर्गपरीपहप्रस्तावेऽपि शुद्धो-
पयोगलक्षणनिश्चयरत्नत्रयभावेनैव निःशङ्कगुणो ज्ञातव्य इति ।

अथ निष्काङ्क्षितागुणं कथयति । इहलोकपरलोकाशास्त्रभोगाकाक्षानिदानत्यागो-
केवलज्ञानानन्दगुणव्यक्तिरूपमोक्षार्थं ज्ञानपूजातपश्चरणाद्यनुष्ठानकरणं निष्काङ्क्षागुणो
भण्यते । तथानन्तमतीकन्याकथा प्रसिद्धा । द्वितीया च सीतामहादेवीकथा । सा
कथ्यते । सीता यदा लोकापवादपरिहारार्थं दिव्ये शुद्धा जाता तदा रामस्वामिना दत्तं

पढ़ा गया है, वह मिथ्या नहीं हो सकता, इस प्रकार शंकारहित होकर अपना वड़ा
भाई जो तीन लोकका कंटक रावण था उसको छोड़कर तीस अक्षौहिणी सेना प्रमाण
जो अपना चतुरंग (हाथी, घोड़ा, रथ, पयादेरूप) बल था उस सहित श्रीरामचन्द्रजीके
समीप चला गया । इसी प्रकार देवको तथा वसुदेवको भी शंकारहित जानना चाहिये ।
सोही दिखाते हैं कि, जैसे जब कंसने देवकीके बालकको मारनेके लिये प्रार्थना की तब
देवकी और वसुदेवने विचार किया कि मेरा पुत्र नवम (९ वां) नारायण होगा और उसके
हाथसे जरासिन्धुनामक नवम प्रतिनारायणका और कंसका मरण होगा यह जैनागममें कहा
हुआ है, और श्री भट्टारक अतिमुक्त स्वामीने भी ऐसा ही कहा है, इस प्रकार निश्चय
करके कंसको अपना बालक देना स्वीकार किया । जैसे इन उक्त पुरुषों ने अपनी शंका-
रहित प्रवृत्ति की, इसी प्रकार अन्य भव्यजीवोंको भी जैनशास्त्रोंमें शंका नहीं करनी चाहिये ।
यह व्यवहारनयसे सम्यक्त्वका व्याख्यान किया । और निश्चयसे उस व्यवहार निःशंका-
गुणकी सहायतासे इस लोकका भय १, परलोकका भय २, रक्षाके स्थानके अभावसे उत्पन्न
भय ३, मरणभय ४, व्याधिभय ५, वेदनाभय ६ और आकस्मिक भय ७, इन नामोंके
धारक जो सात भय हैं उनको छोड़कर घोर उपसर्ग तथा परीपहोंके आनेपर भी शुद्ध
उपयोगरूप जो निश्चय रत्नत्रय है उसकी भावनाको ही निःशंका गुण जानना चाहिये ।

अब निष्काङ्क्षित गुणको कहते हैं । इस लोक तथा परलोकसंबंधी आशास्त्र जो
भोगाकाक्षानिदान है इसका त्याग करके जो केवल ज्ञान आदि अनन्त गुणोंकी
प्रकटरूप मोक्ष है उसके अर्थ ज्ञान, पूजा, तपश्चरण आदि अनुष्ठानोंका जो करना
है वही निष्काङ्क्षिता गुण कहलाता है । इस गुणमें अनंतमतीकी कथा प्रसिद्ध है । दूसरी
सीता महारानीकी कथा है, उसको कहते हैं । जब लोकके अपवाद (निंदा)को दूर

महादेवीविभूतिपदं त्यक्त्वा सकलभूषणानगरकेवलिपादमूले कृतान्तवक्रादिराजभि-
त्या बहुराज्ञीभिश्च सह जिनदीक्षां गृहीत्वा शशिप्रभाभाषिकासमुदायेन सह ग्रामपुरखे-
कादिविहारेण भेदाभेदरत्नत्रयभावनया द्विपष्टिवर्षाणि जिनसमयप्रभावनां कृत्वा पञ्चा-
वसाने त्रयस्त्रिंशद्विषसपर्यन्तं निर्विकारपरमात्मभावनामहितं संन्यासं कृत्वाऽच्युताभि-
मानपोडशस्वर्गं प्रतीन्द्रतां याता । ततश्च निर्मलसम्यक्त्वफलं दृष्ट्वा धर्मानुरागेण नरके राव-
णलक्ष्मणयोः संशोधनं कृत्वेदानीं स्वर्गं तिष्ठति । अग्रे स्वर्गादागत्य सकलचक्रवर्ती भवि-
ष्यति । तौ च रावणलक्ष्मीधरो तस्य पुत्रौ भविष्यतः । ततश्च तीर्थङ्करपादमूले पूर्वभव-
न्तरं दृष्ट्वा पुत्रद्वयेन सह परिवारेण च सह जिनदीक्षां गृहीत्वा भेदाभेदरत्नत्रयभावनया
पञ्चानुत्तरविमाने त्रयोऽप्यहमिन्द्रा भविष्यन्ति । तस्मादागत्य रावणस्तोत्रकरो भवि-
ष्यति, सीता च गणधर इति, लक्ष्मीधरो धातकीखण्डद्वीपे तीर्थकरो भविष्यति । इति
व्यवहारनिष्कामितागुणो विज्ञातः । निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहारनिष्कामितागुणस्य
सहकारित्वेन दृष्टश्रुतानुभूतपञ्चेन्द्रभोगत्यागेन निश्चयरत्नत्रयभावनोत्पन्नपारमार्थिकत्वा-
न्तोत्थमुत्सामृतरसे चित्तसन्तोषः स एव निष्कामिता गुण इति ।

करनेके लिये सीताजी अग्निकुण्डमें दिव्य (योज) लेकर निर्दोष सिद्ध हुई तब श्रीराम-
चंद्रजीने इनको पट्टमहाराजिका पद दिया; परन्तु सीताजीने पट्टमहादेवीकी सम्पदाको
छोड़कर केवलशान्ति श्रीमकलभूषण मुनिके चरणमूलमें कृतान्तवक्र आदि राजा तथा
बहुतसी रानियोंसहित श्रीजिनदीक्षाको ग्रहण करके शशिप्रभा आदि आर्यिकाओंके समूह
सहित ग्राम, पुर, खेटक आदिमें विहारद्वारा भेदाभेदरूप रत्नत्रयकी भावनासे
पासठपर्यं पर्यन्त जिनसतकी प्रभावना की । फिर अन्त्य समयमें तैंतीस दिन पर्यन्त निर्विकार
परमात्माके ध्यानपूर्वक संन्यास (समाधि मरण) करके अच्युत नामक सोलहवें स्वर्गमें
प्रतीन्द्र हुई । और बहूपर उन्होंने (सीताजीके जीव प्रतीन्द्रने) अवधिज्ञातसे निर्मल
सम्यग्दर्शनके फलको देखकर प्रसन्नके अनुरागसे नरकमें जाकर रावण और लक्ष्मणके जीवों-
को संशोधा और वे (प्रतीन्द्र) अब स्वर्गमें विराज रहे हैं । आगे सीताजीका जीव स्वर्गसे
आकर सकल चक्रवर्ती होगा और वे दोनों रावण तथा लक्ष्मणके जीव इस चक्रवर्तिके पुत्र
होंगे । पश्चात् श्रीतीर्थङ्करके चरणमूलमें अपने पूर्वभवोंको देखकर दोनों पुत्र तथा परिवार-
सहित सीताजीका जीव सकल चक्रवर्ती दीक्षाको ग्रहण कर भेदाभेदरत्नत्रयके भाव-
नासे, सीता, रावण तथा लक्ष्मण वे तीनों ही पाँच अनुत्तर विमानोंमें अहमिन्द्र होंगे ।
यहसे आकर रावण तो तीर्थङ्कर होगा और सीताजीका जीव गणधर होगा । तथा
लक्ष्मणकी धातकीखण्ड द्वीपमें तीर्थङ्कर होंगे । इस प्रकार व्यवहार निष्कामितागुणका
स्वरूप जानना चाहिये । और निश्चयसे हमी व्यवहार निष्कामितागुणकी महत्त्वकासे देखने,
इसे तथा अनुभव किये हुए जो पवित्र इन्द्रियोंमें हमी भोग हैं उनके

अथ छद्मस्थानां ज्ञानं सत्तावलोकनदर्शनपूर्वकं भवति, मुक्तात्मनां युगपदिति प्रतिपादयति;—

दंसणपुच्छं जाणं छद्मस्थानं ण दोण्णि उवउग्गा ।

जुगवं जत्ता केवल्लिणाहे जुगवं तु ते दोवि ॥४४॥

श्याख्या । “दंसणपुच्छं जाणं छद्मस्थानं” सत्तावलोकनदर्शनपूर्वकं ज्ञानं भवति छद्मस्थानां संसारिणां । कस्मात् । “ण दोण्णि उवउग्गा जुगवं जत्ता” ज्ञानदर्शनोपयोगद्वयं युगपन्न भवति यस्मान्, “केवल्लिणाहे जुगवं तु ते दोवि” केवल्लिनाये तु युगपत्तो ज्ञानदर्शनोपयोगो द्वौ भवत इति ।

अथ विस्तारः । चक्षुरादीन्द्रियाणां स्वकीयव्यक्तीयप्रयोपशमानुसारेण तद्योग्यदेशस्थित-स्वरूपादिविषयाणां ग्रहणमेव सन्निरातः सम्बन्धः सन्निकर्षो भवति । न च नैवाधिकम-तद्यक्षुरादीन्द्रियाणां स्वरूपादिरस्वकीयस्वकीयविषयसार्थं गमन इति सन्निकर्षो वक्तव्यः । स एव सम्बन्धो लक्षणं यस्य तद्ग्रहणं सन्निकर्षकत्वं सत्तावलोकनदर्शनं तत्पूर्वं शुक्लमिदमि-

नेवात्या विकल्प न करे तद्यतक तो जो सत्तामात्रका ग्रहण है उसको दर्शन कहते हैं । और फिर जब यह शुक्ल है, यह रूप है इत्यादि रूपसे विकल्प उत्पन्न होते हैं तब वस्तुको ज्ञान कहते हैं ॥ ४४ ॥

अब जो लक्षण है उनके जो ज्ञान होता है वह तो सत्तावलोकनरूप दर्शन पहले ही लेना है तब होता है, और जो मुक्तको अब जानू केवलज्ञानी हैं उनके दर्शन और ज्ञान एक ही समयमें होते हैं, ऐसा प्रतिपादन करते हैं:—

गाथार्थः—छद्मस्थ जीवोंके दर्शनपूर्वक ज्ञान होता है । क्योंकि, छद्मस्थोंके ज्ञान और दर्शन ये दोनों उपयोग एक समयमें नहीं होते । तथा जो केवली भगवान् हैं उनके ज्ञान तथा दर्शन ये दोनों ही उपयोग एक समयमें होते हैं ॥ ४४ ॥

श्याख्यार्थः—“दंसणपुच्छं जाणं छद्मस्थानं” लक्षण अर्थात् संसारी जीवोंके सत्तावलोकन-दर्शन पहले ही लेना है तब ज्ञान होता है । क्योंकि, “ण दोण्णि उवउग्गा जुगवं जत्ता” छद्मस्थोंके ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग ये दोनों एक समयमें नहीं होते इत्यर्थे । “केवल्लिणाहे जुगवं तु ते दोवि” और केवली भगवानमें ये दोनों ज्ञान, दर्शन उपयोग एकसाँ समयमें होते हैं ।

अथ विस्तारमे पर्यन्त करते हैं—चक्षु आदि इन्द्रियोंके अपने अपने लक्ष्योपगतके अनु-सार अपने योग्य देशमें विद्यमान जो निजस्वर आदि विषय हैं वस्तुका ग्रहण करना है वस्तुको सन्निरात, संबन्ध अथवा सन्निकर्ष कहते हैं । और नैवाधिक मत्के समान चक्षु आदि इन्द्रियोंका जो अपने अपने स्वयं आदि विषयोंके पास जाना है, वस्तुको सन्निकर्ष नहीं करना चाँहिऐ भाषार्थ—नेत्र आदि इन्द्रियोंद्वारा जो मत् आदिका ग्रहण किया

त्याद्यवग्रहादिकल्परूपमिन्द्रियानिन्द्रियजनितं मतिज्ञानं भवति । इत्युक्तलक्षणमतिज्ञान-पूर्वकं तु धूमादग्निविज्ञानवदर्यादर्यान्तरग्रहणरूपं लिङ्गजं, तथैव घटादिशब्दग्रहणरूपं शब्दजं चेति द्विविधं श्रुतज्ञानं भवति । अथावधिज्ञानं पुनरवधिदर्शनपूर्वकमिति । ईहा-मतिज्ञानपूर्वकं तु मनःपर्ययज्ञानं भवति ।

अत्र श्रुतज्ञानमनःपर्ययज्ञानजनकं यदवग्रहेहादिरूपं मतिज्ञानं भणितम्, तदपि दर्शन-पूर्वकत्वादुपचारेण दर्शनं भण्यते, यतस्तेन कारणेन श्रुतज्ञानमनःपर्ययज्ञानद्वयमपि दर्शन-पूर्वकं ज्ञातव्यमिति । एवं छद्मस्थानां सावरणक्षयोपशमिकज्ञानसहितत्वात् दर्शनपूर्वकं ज्ञानं भवति । केवलिनां तु भगवतां निर्विकारस्वसम्बेदनसमुत्पन्ननिरावरणक्षायिकज्ञान-सहितत्वान्निर्मेघादित्ये युगपदातपप्रकाशवद्दर्शनं ज्ञानं च युगपदेवेति विज्ञेयम् । छद्मस्था

जाता है वही सन्निकर्ष है, और नैयायिकमतमें जो नेत्र आदि इन्द्रियोंका अपने रूप आदि विषयोंके पास गमन करने रूप सन्निकर्ष माना है वह नहीं । वह सम्यन्व अथवा सन्निकर्ष ही है लक्षण जिसका, ऐसा जो निर्विकल्पक-सत्तावलोकन-दर्शन उसके होनेके पीछे "यह शुक्ल (सफेद) है", इत्यादि अवग्रह आदि विकल्पोंरूप-पांचों इन्द्रियों तथा अनिन्द्रिय-मनसे उत्पन्न मतिज्ञान होता है । और इस पूर्वोक्त लक्षणका धारक मतिज्ञान पहले हो लेता है तब धूम (धुआं) से जैसे अग्निका ज्ञान हो जाता है इसी प्रकार एक पदार्थसे दूसरे पदार्थको ग्रहण करनेरूप लिंगज (चिन्हसे उत्पन्न हुआ) तथा इसी प्रकार घट आदि शब्दोंके सुननेरूप शब्दज (शब्दसे उत्पन्न हुआ), ऐसे दो प्रकारका श्रुतज्ञान होता है । भावार्थ-श्रुतज्ञान दो प्रकारका है एक तो लिंगज और दूसरा शब्दज; उनमें एक पदार्थको जानकर उसके जरियेसे जो दूसरे पदार्थका जान लेना है वह तो लिंगज श्रुतज्ञान है और शब्दोंके सुननेसे जो ज्ञान होता है वह शब्दज श्रुतज्ञान है । और अवधिदर्शन पहले हो लेता है तब अवधिज्ञान होता है । और जो मनःपर्ययज्ञान है वह ईहानामक मतिज्ञानपूर्वक होता है ।

यहांपर श्रुतज्ञानको उत्पन्न करनेवाला अवग्रह, और मनःपर्ययज्ञानको उत्पन्न करने-वाला ईहा, आदिरूप जो मतिज्ञान कहा है अर्थात् श्रुतज्ञानको उत्पन्न करनेवाला अवग्रह-रूप मतिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानको उत्पन्न करनेवाला ईहारूप मतिज्ञान कहा गया है; वह मतिज्ञान भी दर्शन पहले हो लेता है तभी होता है । इस लिये मतिज्ञान भी उप-चारसे दर्शन कहलाता है । इस कारण श्रुतज्ञान और मनःपर्ययज्ञान इन दोनोंको भी दर्शनपूर्वक जानना चाहिये । इस पूर्वोक्त प्रकारसे छद्मस्थ जीव आवरणसहित क्षयोपश-मिक ज्ञानसहित हैं, इस कारण छद्मस्थोंके दर्शनपूर्वक ज्ञान होता है । और केवली भग-वान् विकाररहित और अपने संवेदन (जानने)से उत्पन्न ऐसा जो क्षायिक ज्ञान है उससे सहित हैं, इसलिये केवली भगवानोंके जैसे वहलके आवरणरहित सूर्यके एक ही

इति कोऽर्थः ? छद्मशब्देन ज्ञानदर्शनावरणद्वयं भण्यते, तत्र तिष्ठन्तीति छद्मस्थाः । पर्व-
तर्काभिप्रायेण सत्तावलोकनदर्शनं व्याख्यातम् ।

अत ऊर्ध्वं सिद्धान्ताभिप्रायेण कथ्यते । तथाहि—उत्तरज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं यन् प्रयत्नं
तद्रूपं यन् स्वम्यात्मनः परिच्छेदनमवलोकनं तद्दर्शनं भण्यते । तदनन्तरं यद्बहिर्विषये
विकल्परूपेण पदार्थग्रहणं तद्ज्ञानमिति वाचिकम् । यथा कोऽपि पुरुषो घटविषयवि-
कर्णं कुर्वन्नास्ते, पश्चात् पटपरिज्ञानार्थं चित्ते जाते सति घटविकल्पाद्व्यावर्च्यं यत् स्वरूपे
प्रयत्नमवलोकनं परिच्छेदनं करोति तद्दर्शनमिति । तदनन्तरं पटोऽयमिति निश्चयं यद्बहि-
र्विषयरूपेण पदार्थग्रहणविकल्पं करोति तद् ज्ञानं भण्यते ।

अत्राह निष्पद्य-यथात्ममाहकं दर्शनं, परमाहकं ज्ञानं भण्यते, तर्हि यथा नैया-
यिकमते ज्ञानमात्मानं न जानाति, तथा जैनमतेऽपि ज्ञानमात्मानं न जानातीति
दूषणं प्राप्नोति । अथ परिहारः । नैयायिकमते ज्ञानं पृथग्दर्शनं पृथगिति गुणद्वयं

समयमें आनप और प्रकाश होते हैं, उसी प्रकार दर्शन और ज्ञान ये दोनों एकही समयमें
होते हैं ऐसा जानना चाहिये । प्रश्न— जो गायामें 'छद्मव्य' कहा गया है, इसका क्या
अर्थ है ? उत्तर—छद्म शब्दसे ज्ञानावरण तथा दर्शनावरण ये दोनों कहे जाते हैं,
जिस छद्ममें जो रहें वे छद्मस्थ हैं । इस प्रकार तर्क (न्याय)के अभिप्रायसे सत्तावलोकन
दर्शनका व्याख्यान किया गया ।

अब इसके आगे सिद्धान्तके अभिप्रायसे कहते हैं । सो ही दिखाते हैं । आगेके कालमें
होनेवाला जो ज्ञान है उसकी उत्पत्तिका निमित्त जो प्रयत्न उस स्वरूप जो निज आत्माका
परिच्छेदन अर्थात् अवलोकन (देखना) यह दर्शन कहलाता है, और उसके पीछे जो
बाह्य विषयमें विकल्परूपसे पदार्थका ग्रहण है वह ज्ञान है; यह वाचिक है । जैसे कोई
पुरुष पहले घटके विषयका विकल्प करता हुआ बैठा है, फिर उसी पुरुषका चित्त जब
पटमें जाननेके भिन्ने होता है, तब वह पुरुष पटके विकल्पसे हटकर जो स्वरूपमें प्रयत्न
अर्थात् अवलोकन (परिच्छेदन) करता है, उसको दर्शन कहते हैं । उसके अनंतर वह
पट है, इस प्रकारसे निश्चयरूप जो बाह्य विषयरूपसे पदार्थके ग्रहणस्वरूप विकल्पको
करता है वह विकल्प, ज्ञान कहलाता है ।

यदाह निष्पद्य करता है कि हे गुरु ! यदि धार आत्मा (अपने)का ग्रहण करनेवाला
जो है उसको दर्शन और जो वह पदार्थको ग्रहण करनेवाला है उसको ज्ञान कहते हैं जो
नैयायिकोंके मतमें जैसे ज्ञान आत्माको नहीं जानता है, वैसेही जैनमतमें भी ज्ञान
आत्माको नहीं जानता है, ऐसा दूषण प्राप्त होता है । अब इस निष्पद्यी शंकाको आचार्य
रूप करते हैं कि नैयायिकमतमें ज्ञान ज्ञान और दर्शन ज्ञान इस प्रकारसे ही गुण नहीं हैं
अर्थात् ज्ञान और दर्शन में ही जैसे जैसे गुण नहीं हैं । इस कारण उन नैयायिकोंके

अथ मतं—यदि दर्शनं बहिर्विषये न प्रवर्त्तते तदान्वयत्त्वं सर्वजनानामन्वयत्वं प्राप्नोतीति नैवं वक्तव्यम् । बहिर्विषये दर्शनाभावेऽपि ज्ञानेन विशेषेण सर्वं परिच्छिन्नञ्चाति । अयं तु विशेषः—दर्शनेनात्मनि गृहीते सत्यात्माविनाभूतं ज्ञानमपि गृहीतं भवति; ज्ञाने च गृहीते सति ज्ञानविषयभूतं बहिर्विषयपि गृहीतं भवतीति । अथोक्तं भयना यथात्मप्राहृकं दर्शनं भण्यते, तर्हि 'जं सामाण्यं गृह्यं भावागं तद्दर्शनमिति' गाथायाः कथं घटते ? तत्रोत्तरं, सामान्यग्रहणमात्मग्रहणं न दर्शनं । कस्मादिति चेत्—आत्मा वस्तुपरिच्छिन्ति कुर्वन्निदं जानामीदं न जानामीति विशेषपक्षपातं न करोति, किन्तु सामान्येन वस्तु परिच्छिन्नति । तेन कारणेन सामान्यग्रहणेनात्मा भण्यत इति गाथायाः ।

किंचिदुक्त्वा, यदि कोऽपि तर्काय सिद्धान्तार्थं च तात्त्विकान्तदुरापहत्यागेन नययिभागेन मध्यस्थवृत्त्या व्याख्यानं करोति, तदा द्वयमपि घटत इति । कथमिति चेत्—तर्कं मुख्य-वृत्त्या परसमयव्याख्यानं । तत्र यदा कोऽपि परसमयी वृच्छति—ज्ञानागमे दर्शनं ज्ञानं

प्रमाण जैसे प्रदोष अपने और परका प्रकाशक है, उसी प्रकार अपनेमें प्राप्त सामान्यको और पर पदार्थमें प्राप्त विशेषको जानता है । इस कारण अभेदसे आत्माके ही प्रमाणत्व है ।

अथ ऐसा कहो कि, यदि दर्शन वाह्य विषयमें नहीं प्रवर्त्तता है तो अंधेकी तरह सब मनुष्योंके अंधेपनेकी प्राप्ति होती है । तो समाधान यह है कि, ऐसा न कहना चाहिये । क्योंकि, यद्यपि वाह्य विषयमें दर्शनका अभाव है, तथापि आत्मा ज्ञानद्वारा विशेष रूपमें सब पदार्थोंको जानता है । और अधिक जाना यह है कि जब दर्शनसे आत्माका ग्रहण होता है तब आत्मा में ज्ञान जो ज्ञान है वह भी दर्शन करके ग्रहण किया जाता है, और जब दर्शनसे ज्ञानकी ग्रहण किया तो ज्ञानकी विषयभूत जो वाह्य वस्तु है उसका भी ग्रहण किया । अथ कदाचिन् यह कहो कि, जो आप आत्माकी ग्रहण करनेवालेको दर्शन कहते हो तो "जो पदार्थोंका सामान्य ग्रहण है वह दर्शन कहनाता है" यह जो गाथाका अर्थ है, वह आपके कथनमें कैसे घटता है ? तो इसका यह उत्तर है कि, यद्यपि सामान्य ग्रहण इस प्रकारका आत्माका ग्रहण करनेसे अर्थ है, और यह आत्मग्रहण ही दर्शन है । ऐसा क्यों क्यों है ? यह पूछो तो उत्तर यह है कि, यद्यपि ज्ञान करना हुआ तो ज्ञान है यह भी इसको जानता है, इसको नहीं जानता है, इस प्रकारसे जो विशेष पक्षपात है उसकी नहीं करता है, किन्तु सामान्यरूपसे वस्तु (पदार्थ)को जानता है, इस कारण सामान्य इस प्रकारसे आत्मा कहा जाता है । यह गाथाका अर्थ है ।

कहना कहनेसे क्या ? यदि कोई भी तर्क (भाष्य) के और सिद्धान्तके अर्थको जान-कर पक्षानुरूप जो दुरापहत (दुरा दृष्ट) है उसका त्याग करके, नयोंके विभागेसे मध्य-स्थता धारण करके व्याख्यान करता है, तब ही सामान्य और विशेष ये दोनों ही सिद्ध

चेति गुणद्वयं जीवस्य कथ्यते, तत्कथं घटत इति । तदा तेपामात्मग्राहकं दर्शनमिति कथिते सति ते न जानन्ति । पश्चादाचार्यैस्तेषां प्रतीत्यर्थं स्थूलव्याख्यानानि बहिर्विषये यत् सामान्यपरिच्छेदनं तस्य सत्तावलोकनदर्शनसंज्ञा स्थापिता । यत्र शुक्लमिदमित्यादिविशेषपरिच्छेदनं तस्य ज्ञानसंज्ञा स्थापितेति दोषो नास्ति । सिद्धान्ते पुनः स्वसमयव्याख्यानं मुख्यवृत्त्या । तत्र सूक्ष्मव्याख्याने क्रियमाणे सत्याचार्यैरात्मग्राहकं दर्शनं व्याख्यातमित्यत्रापि दोषो नास्ति ।

अत्राह शिष्यः—सत्तावलोकनदर्शनस्य ज्ञानेन सह भेदो ज्ञातस्तावदिदानीं यत्तत्त्वाश्रद्धानरूपं सम्यग्दर्शनं वस्तुविचाररूपं सम्यग्ज्ञानं तयोर्विशेषो न ज्ञायते । कस्मादिति चेत्—सम्यग्दर्शने पदार्थनिश्चयोऽस्ति, तथैव सम्यग्ज्ञाने च को विशेष इति । अत्र परि-

होते हैं । कैसे सिद्ध होते हैं ? ऐसा पूछो तो उत्तर यह है कि, तर्क (न्याय) में मुख्यतासे परसमय अर्थात् अन्यमतका व्याख्यान है । इसलिये उसमें यदि कोई अन्यमतावलम्बी पूछे कि, जैनमतमें जीवके दर्शन और ज्ञान ये जो दो गुण कहे जाते हैं वे कैसे सिद्ध होते हैं ? तब इसके उत्तरमें यदि उन अन्यमतियोंको यह कहें कि, जो आत्माको ग्रहण करनेवाला है उसको दर्शन कहते हैं; तो ऐसा कहनेपर वे अन्यमती नहीं समझते हैं । तब आचार्योंने उनके प्रतीति होनेके लिये विस्ताररूप व्याख्यानसे जो बाह्यविषयमें सामान्य जानना है उसको तो 'दर्शन' ऐसी संज्ञा (नाम) स्थापित की, और जो 'यह शुक्ल (सफेद) है' इत्यादि रूपसे बाह्यमें विशेषका जानना है, उसको 'ज्ञान' यह संज्ञा ठहराई, इसलिये दोष नहीं है । और सिद्धान्तमें मुख्यतासे निजसमय (जैनमत) का व्याख्यान है, इसलिये सिद्धान्तमें जब सूक्ष्म व्याख्यान किया गया तब आचार्योंने जो आत्माका ग्राहक है उसको दर्शन कहा । इस कारण इस कथनमें भी दोष नहीं है ।

अब यहां शिष्य कहता है कि हे गुरो ! सत्ताका अवलोकन करनेवाला जो दर्शन है उसका तो ज्ञानके साथ भेद जाना । अब "जो तत्त्वार्थका श्रद्धान करनेरूप सम्यग्दर्शन और पदार्थका विचार करने स्वरूप सम्यग्ज्ञान है" इन दोनोंमें भेद नहीं जाना जाता । क्यों नहीं जाना जाता ? यह पूछें तो उत्तर यह है कि, पदार्थका निश्चय सम्यग्दर्शनमें है, वही सम्यग्ज्ञानमें है । इसलिये सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानमें क्या भेद है अर्थात् कुछ भी नहीं । अब इस शिष्यकी अंकाका आचार्य समाधान करते हैं कि, पदार्थके ग्रहण करनेमें जाननेरूप जो क्षयोपशम विशेष है, वह ज्ञान कहलाता है । और उस ज्ञानमें ही भेदनयसे जो वीतराग सर्वज्ञ श्रीजिनेन्द्रद्वारा कहे हुए शुद्ध आत्मा आदि तत्त्व हैं उनमें यह ही तत्त्व है, ऐसा ही तत्त्व है, इस प्रकारका जो निश्चय है वह सम्यक्त्व है । और अभेदनयसे अर्थात् अभेदरूपसे तो जो ही सम्यग्ज्ञान है वही सम्यग्दर्शन है । ऐसा किस कारणसे है ? यह पूछो तो उत्तर यह है कि, तत्त्व नहीं है उसमें तत्त्वकी

कारः । अर्धप्रद्वेषपरिनिष्कृतिरूपः क्षयोपशमविशेषो ज्ञानं भण्यते, तत्रैव भेदनयेन वीत-
रागसर्वशत्रुणीतशुद्धात्माद्रितत्त्वेत्विदमेवेत्यमेवेति निश्चयसम्यक्त्वमिति । अपिफलरूपेणा-
भेदनयेन पुनर्यदेव सम्यग्ज्ञानं तदेव सम्यक्त्वमिति । कर्मादिति चेत्—अतत्त्वे तत्त्व-
बुद्धिरदेवे देवबुद्धिरधर्मं धर्मबुद्धिरत्यादिविपरीताभिनिवेशरहितस्य ज्ञानस्यैव सम्यग्विदो-
पगवाच्योऽवस्थाविशेषः सम्यक्त्वं भण्यते यतः कारणान् ।

यदि भेदो नास्ति तर्हि कथमावरणद्वयमिति चेत्—तत्रोत्तरम् । येन कर्मणामर्थपरिनिष्क-
ृतिरूपः क्षयोपशमः प्रकृष्टायते तस्य ज्ञानावरणसंज्ञा, तस्यैव क्षयोपशमविशेषस्य यत्
कर्म पूर्वोक्तलक्षणं विपरीताभिनिवेशसुत्पादयति तस्य मिथ्यात्वमङ्गोति भेदनयेनावरण-
भेदः । निश्चयनयेन पुनरभेदविषयार्था कर्मत्वं प्रत्यावरणद्वयमप्येकमेव विज्ञानमवयम् ।
एवं दर्शनपूर्वकं ज्ञानं भवतीति व्याख्यानरूपेण गाथा गता ॥ ४४ ॥

अथ सम्यग्दर्शनज्ञानपूर्वकं रत्नत्रयान्मकमोक्षमार्गवृत्तीयावयवभूतं त्वशुद्धात्मानुभूतिरूप-
पशुद्धोपयोगलक्षणव्रीतरागचारित्रस्य पारम्पर्येण साधकं सरागचारित्रं प्रतिपादयतिः—

अमुहादौ विणिविच्छीं मुहे पविच्छीं य जाण चारिच्छं ।

वदसमिदिगुत्तिह्वं ववहारणयाद् जिणमणियम् ॥ ४५ ॥

बुद्धि करना, देव नहीं है उसमें देवकी बुद्धि करना और अधर्ममें धर्मकी बुद्धि करना
इत्यादि रूपसे जो विपरीत अभिनिवेश (चला आग्रह) है, उस विपरीताभिनिवेशसे
रहित जो ज्ञान है, उसीका जो सम्यग् इस विदोपगते फेद जानेवाला अवस्थाविशेष है
यह सम्यक्त्व कहलाता है । यही इस अर्थके करनेमें हेतु है ।

जो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानमें भेद नहीं है तो आठ कर्मोंमें दर्शनावरण और
ज्ञानावरण ये दो आवरण कैसे फेद गये हैं ? यह जका फरो तो, यही समाधानरूप उत्तर
यह है कि, जिस कर्मसे पदार्थके जाननेरूप क्षयोपशम टका जाता है, उसकी तो 'ज्ञाना-
वरण' यह संज्ञा है । और उस ज्ञानावरणके क्षयोपशमविशेषके जो कर्म पहले फेद हुये
लक्षणवाले विपरीत अभिनिवेशको उत्पन्न करता है, उसकी मिथ्यात्व यह संज्ञा है । इस
कारण भेदनयमें आवरणका भेद है । और अधेदकी विषयतामें कर्मत्वके प्रति जो दो
आवरण हैं उन दोनोंको एक ही जानना चाहिये । इस प्रकार दर्शन पहले ही ज्ञान है तब
ज्ञान होता है; ऐसे व्याख्यान करनेवालों जो गाथा है वह समझ हई ॥ ४५ ॥

अथ सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानके प्रति होनेवाला रत्नत्रयस्य रूप जो मोक्षमार्ग है, उसका
गीसरा अवयवरूप और निज शुद्ध आत्माके अनुभवपर्यन्त जो शुद्धोपयोगरूप लक्षण
धारक-व्रीतरागचारित्र है, उसकी परंपरामे साधनेवाला जो सरागचारित्र है, उसका
प्रतिपादन करने है,—

गायानाचार्यः—जो अनुभव (धर) कायमें दूर जाना और दूर कार्यमें प्राप्त होना
असंभवगता है उसको चारित्र्य जानना चाहिये । चारित्र्यभेददर्शन उपबहारणमें उस
चारित्र्यकी ५ प्रक, १ मणिति और ३ बुद्धिभेदरूप कहा है ॥ ४६ ॥

प्रवर्णं विहायान्यसर्वपरिग्रहनिवृत्तौ नवमः, गृहस्थापारादिमर्वसाधयानुमतनिवृत्तौ दशमः, त्रिष्टाहादिनिवृत्त एकादशम इति । एतेष्वेकादशश्रावकेषु मध्ये प्रथमपट्टकं तार-
तम्येन जघन्यम्, ततश्च प्रथं मध्यमम्, ततो द्वयमुत्तममिति संक्षेपेण दर्शनिकभावकारो-
कादशभेदाः ज्ञातव्याः ॥

अथैकदेशचारित्र्यव्याख्यानान्तरं मकरचारित्र्यमुपदिशति । “अमुहादां विणिविचिी
सुहे पविचिी य जाण चारित्तं” अशुभान्निवृत्तिः शुभे प्रवृत्तिश्चापि जानीति चारित्र्यम् ।
तत्र कथम्भूतं—“वदमभिमिदिगुत्तिरुर्वं ववहारणयादु जिणभणियं” प्रतस्मिनिगुमिरुपं
व्यवहारनयाज्जनेरुत्तमिति । तथाहि—प्रत्याख्यानावरणनक्षत्रवर्णयकपायकयोपशमे मति
“धनयकसाओगाढो दुम्मुद्विगुगितदुष्टगोष्टिजुदो । इगो इम्मगापरो इवओगो इस्स गो
असुहां । ५ ।” इति नायाकथितलक्षणादशुभोपचोनाज्जिवृत्तिस्तद्विलक्षण्ये शुभोपयोगे प्रवृ-
त्तिश्च हे शिष्य चारित्रं जानीति । तथाचाराराधनादिचरणशान्तिव्यवहारेण पञ्चमहा-

होता है । दिनमें ब्राह्मण्ये धारण करनेसे छठी प्रतिमाचाला कल्पाना है । सूर्यका ब्राह्मण-
यके धारण करनेसे सप्तम प्रतिमाका धारा होता है । चारुंभ आदि संपूर्ण व्यापारोंसे
रहित होता है तब अष्टम प्रतिमाका धारा कहा जाता है । चन्द्रके आच्छादनको छौं-
कन अन्य सब परिग्रहोंसे रहित होता है तब नवमी प्रतिमाका धारक होता है । गृहसंघर्षों
व्यापार आदि संपूर्ण साधन (हिसामदित) कार्योंमें जब संमति (मन्दा) देनेसे रहित
होता है तब दशमी प्रतिमाका धारा कहलाना है । अपने निमित्त किये हुये आहारका
त्याग करनेवाला ग्यारहवीं प्रतिमाका धारा भावक कहा जाता है । इन प्रतिमाभेदसे
ग्यारह प्रकारके भावकोंके बीचमें जो पट्टी छः प्रतिमाओं हैं उनमें रहनेवाले नारयण
(होनाधिकता) से जघन्य भावक हैं । इनके आगे सानवी, आठवी और नववी प्रतिमाके
धारक मध्यम भावक हैं । इनके पश्चात् दसवी और ग्यारहवीं इन दो प्रतिमाओंके
धारक उत्तम भावक हैं । इस प्रकार संक्षेपसे देवचारित्र्यके दर्शनिक आदि ग्यारह
भेद जानने पादिये ।

अथ इस एकदेशचारित्र्यके व्याख्यानके पश्चात् मकरचारित्र्यका उपदेश करते हैं ।
“अमुहादो विणिविचिी सुहे पविचिी य जाण चारित्तं” हे शिष्य ! अशुभसे निवृत्ति
(रहितता) और शुभमें जो प्रवृत्ति है उसको चारित्र्य जानो । यह किसे है ? “वदमभिमिदि-
गुत्तिरुर्वं व्यवहारणयादु जिणभणियं” तब, स्मिति और मुक्तिपर है; ऐसा व्यवहा-
रनयमें भीजितेन्द्रने कहा है । जो हो दिनामें है—मकरावधानावरण नामक योसरे कथा-
यथा हयोपशम होनेपर “जिमता विषयो और हयायोमि मादा, दुम्भुति (दुःख) मध्य-
मपट्ट । दूर्वापका और दुष्टगोष्टी (दूरी संमति) इनमें मर्दक, वप तथा इम्मगा (पूरे
भाग) में तापर देसा हयायोग है वह और अशुभमें निवृत्त है । ५ ।” इस भाष्यमें यह-

व्रतपञ्चसमितित्रिगुप्तिरूपमप्यपहृतसंयमारुह्यं शुभोपयोगलक्षणं सरागचारित्राभिधानं भवति । तत्र योऽसौ वहिर्विषये पञ्चेन्द्रियविषयादिपरित्यागः स उपचरितासद्भूतव्यवहारैण, यश्चाभ्यन्तरे रागादिपरिहारः स पुनरशुद्धनिश्चयेनेति नयविभागो ज्ञातव्यः । एवं निश्चयचारित्रसाधकं व्यवहारचारित्रं व्याख्यातमिति ॥ ४८ ॥

अथ तेनैव व्यवहारचारित्रेण साध्यं निश्चयचारित्रं निरूपयति;—

वहिरब्धंतरकिरियारोहो भवकारणपणासद्वृत् ।

णाणिस्त जं जिणुत्तं तं परमं सम्मचारित्तं ॥ ४९ ॥

व्याख्या । “तं” तत् “परमं” परमोपेक्षालक्षणं निर्विकारस्वसंविद्यात्मकशुद्धोपयोगाविनाभूतं परमं “सम्मचारित्तं” सम्यक्चारित्रं ज्ञातव्यम् । तर्कि ? “वहिरब्धंतरकिरियारोहो” निष्क्रियनित्यनिरञ्जनविशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावस्य निजात्मनः प्रतिपक्षभूतस्य वहिर्विषये शुभाशुभवचनकायव्यापाररूपस्य तथैवाभ्यन्तरे शुभाशुभमनोविकल्परूपस्य च

हुए लक्षणके धारक अशुभोपयोगसे रहितपना और उक्त अशुभोपयोगसे विलक्षण (उलटा) जो शुभोपयोग है उसमें प्रवृत्त होना जो है उसको हे शिष्य ! तुम चारित्र जानो और वह चारित्र मूलाचार, भगवती आराधना आदि चरणानुयोगके शास्त्रोंमें कहे हुए प्रकारसे पांच महाव्रत, पांच समिति और तीन गुप्तिरूप है, तो भी अपहृतसंयम नामक शुभोपयोगलक्षणका धारक, सरागचारित्र नामक चारित्र होता है । उसमें जो बाह्य-विषयोंमें पांचों इन्द्रियोंके विषय वगैरहका त्याग है वह तो उपचरित-असद्भूत-व्यवहार-नयसे चारित्र है, और जो अन्तरंगमें राग आदिका त्याग है वह अशुद्ध निश्चयनयसे चारित्र है । इस प्रकार नयोंका विभाग जानना चाहिये । ऐसे निश्चयचारित्रको साधनेवाला जो व्यवहारचारित्र है उसका व्याख्यान किया गया ॥ ४५ ॥

अब इसी पूर्वोक्त व्यवहारचारित्रसे सिद्ध होने योग्य जो निश्चयचारित्र है उसका निरूपण करते हैं:—

गाथाभावार्थः—ज्ञानी जीवके जो संसारके कारणोंको नष्ट करनेके लिये बाह्य और अन्तरंग क्रियाओंका निरोध है, वह श्रीजिनेन्द्रसे कहा हुआ उत्कृष्ट सम्यक्चारित्र है ॥ ४६ ॥

व्याख्यार्थः—“तं” वह “परमं” परम उपेक्षा (अनादर) स्वरूप लक्षणका धारक, और विकाररहित निजसंवेदनरूप जो शुद्धोपयोग है उससे व्याप्त होनेसे उत्कृष्ट “सम्मचारित्तं” सम्यक् चारित्र जानना चाहिये । वह क्या ? “वहिरब्धंतरकिरियारोहो” क्रियारहित-नित्य-निरञ्जन और निर्मल ज्ञान तथा दर्शनरूप स्वभावका धारक जो अपना आत्मा है उससे प्रतिपक्षभूत (प्रतिकूल)-बाह्य विषयमें शुभ-अशुभ-वचन कायके व्यापाररूप, और इसी प्रकार अन्तरंगमें शुभ-अशुभ-मनके विकल्परूप जो क्रियाका व्यापार है उसका जो निरोध अर्थात् त्याग है वह । वह त्याग किस लिये है ?

क्रियाध्यापारस्य योऽसौ निरोधत्वागः स च किमर्थं "भवकारणपणासृष्टं" पञ्चप्रकारभ-
वातीतनिर्दोषपरमात्मनो विलक्षणस्य भवस्य संसारस्य व्यापारकारणभूतो योऽसौ शुभा-
शुभकर्माक्षयस्तस्य प्रणाशार्थं विनाशार्थमिति । इत्युभयक्रियानिरोधलक्षणचारित्रं कस्य
भवति ? "णाणिस्स" निश्चयरत्नत्रयात्मकाभेदज्ञानिनः । पुनरपि किं विशिष्टं ? "जं जिणुत्तं"
यज्जिनेन वीतरागसर्वज्ञनोक्तमिति ॥ ४६ ॥

एवं वीतरागसम्यक्त्वज्ञानाविनाभूतं निश्चयरत्नत्रयात्मकनिश्चयमोक्षमार्गवृत्तीयावयव-
रूपं वीतरागचारित्रं व्याख्यातम् ॥ इति द्वितीयस्थले गाथापट्टकं नतम् ॥

एवं मोक्षमार्गप्रतिपादकवृत्तीयाधिकारमध्ये निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गसंश्लेषकयनेन सूत्र-
द्वयम्, तदनन्तरं तस्यैव मोक्षमार्गस्यावयवभूतानां सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणां विशेषवि-
वरणरूपेण सूत्रपट्टकं चेति स्थलद्वयसमुदायेनाष्टगाथाभिः प्रथमोऽन्तराधिकारः समाप्तः ॥

अतः परं ध्यानध्यातृध्येयध्यानकल्परूपस्य प्रथमस्थले गाथाप्रथमम्, ततः परं
पञ्चपरमेष्ठिव्याख्यानरूपेण द्वितीयस्थले गाथापञ्चकम्, ततश्च तस्यैव ध्यानस्योपसंहार-

"भवकारणपणासृष्टं" पाँच प्रकारके संसारसे रहित जो निर्दोष परमात्मा है उससे भिन्न
लक्षणका धारक जो संसार उसके व्यापारका कारणभूत जो शुभ-अशुभ-कर्माका आश्रय
उसके विनाशके लिये है । पूर्वोक्त प्रकारसे बाह्य और अंतरंग भेदसे जो दो प्रकारकी क्रियाएँ
हैं उनका व्यागरूप चारित्र किसके होता है ? "णाणिस्स" निश्चय रत्नत्रयस्वरूप अभेद-
ज्ञानके धारक जीवके । फिर कैसा है यह चारित्र ? "जं जिणुत्तं" जो जिन अर्थात्
धीरवीतरागसर्वज्ञदेवसे कहा हुआ है । भावार्थ-ज्ञानी जीवके संसारके कारणोंको दूर
करनेके लिये जो बाह्य और अंतरंगकी शुभ-अशुभ क्रियाओंका त्याग होता है यह
श्रीजिनेन्द्र द्वारा कहा हुआ परम सम्यक्चारित्र है ॥ ४६ ॥

इस प्रकार वीतरागसम्यक्त्व और ज्ञानके विना नहीं होनेवाला और निश्चयरत्नत्रयस्वरूप
जो निश्चयमोक्षमार्ग है उसका तीसरा अवयवरूप जो वीतरागचारित्र है उसका
व्याख्यान किया । ऐसे दूसरे स्थलमें ६ गाथाएँ समाप्त हुई ।

इस प्रकार मोक्षमार्गकी प्रतिपादन करनेवाला जो तीसरा अधिकार है उसमें निश्चय
और व्यवहाररूप मोक्षमार्गके कथनसे दो सूत्र और समस्त पञ्चानु प्रसंग मोक्षमार्गके अव-
यवरूप जो सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र हैं उनके विशेष व्याख्यानरूपसे एक सूत्र,
इस रीतिसे दो स्थलोंके समुदाय (जोड़ने) से जो एक गाथाएँ हैं उनमें प्रथम अन्त-
राधिकार समाप्त हुआ ॥

अब इसके आगे ध्यान, ध्याता (ध्यान करनेवाला), ध्येय (ध्यान करने योग्य वस्तुएँ)
और ध्यानका फल, इनके कथनकी सुनपतासे प्रथम स्थलमें तीन गाथाएँ, इसके पञ्चानु प्रसंग
परमेष्ठियोंके व्याख्यानरूपसे दूसरे स्थलमें पाँच गाथाएँ, और इसके अनन्तर सभी ध्यानके

इदानीं तस्यैव ध्यानस्य तावदागमभाषया विचित्रभेदाः कथ्यन्ते । तथाहि—इष्टवि-
योगान्निष्ठसंयोगव्याधिप्रतीकारभोगनिदानेषु वाञ्छारूपं चतुर्विधमार्त्तध्यानम् । तत्र तार-
तम्येन मिथ्यादृष्ट्यादिषट्गुणस्थानवर्तिजीवसम्भवम् । यद्यपि मिथ्यादृष्टीनां तिर्यग्गतिका-
रणं भवति तथापि वद्वायुष्कं विहाय सम्यग्दृष्टीनां न भवति । कस्मादिति चेत्—स्वगु-
द्धात्मैवोपादेय इति विशिष्टभावनावलेन तत्कारणभूतसंकलेशाभाव इति ।

अथ रौद्रध्यानं कथ्यते—हिंसानन्दमृष्टानन्दस्तेयानन्दविषयसंरक्षणानन्दप्रभवं रौद्रं
चतुर्विधम् । तारतम्येन मिथ्यादृष्ट्यादिषट्गुणस्थानवर्तिजीवसम्भवम् । तत्र मिथ्या-
दृष्टीनां नरकगतिकारणमपि वद्वायुष्कं विहाय सम्यग्दृष्टीनां तत्कारणं न भवति । तदपि
कस्मादिति चेत्—निज शुद्धात्मतत्त्वमेवोपादेयं विशिष्टभेदज्ञानवलेन तत्कारणभूततीव्रसंकले-
शाभावादिति ॥

अब प्रथमही आगमभाषाके अनुसार उसी ध्यानके नानाप्रकारके भेदोंका कथन करते
हैं । सोही दिखाते हैं—इष्टका वियोग, अनिष्टका संयोग और रोगको दूर करने तथा
भोगों और भोगोंके कारणोंमें इच्छा रखनेरूप भेदोंसे चार प्रकारका आर्त्तध्यान है अर्थात्
इष्टका वियोग चाहना १, अनिष्टका संयोग न चाहना २, रोग न चाहना ३ और भोगनि-
दानोंकी वांछा करना ४, इन ४ प्रकारोंका धारक आर्त्तध्यान है । और वह आर्त्तध्यान
न्यूनाधिकभावसे मिथ्यादृष्टिगुणस्थानको आदि ले प्रमत्तगुणस्थानपर्यन्त जो ६ गुणस्थान
हैं उनमें रहनेवाले जीवोंके होता है । और वह आर्त्तध्यान यद्यपि मिथ्यादृष्टी जीवोंके
तिर्यच गतिके बंधका कारण होता है तथापि जिस सम्यग्दृष्टीने पहले तिर्यचगतिके आयुको
बांध लिया है उस सम्यग्दृष्टी जीवको छोड़कर अन्य जो सम्यग्दृष्टी जीव हैं उनके तिर्यच-
गतिके बंधका कारण नहीं है । क्यों नहीं है ? ऐसा पूछो तो उत्तर यह है कि सम्यग्दृष्टी
जीवोंके “निज शुद्ध आत्माही ग्रहण करने योग्य है” ऐसी जो भावना रहती है उसके
बलसे तिर्यचगतिका कारणरूप जो संकलेश है उसका अभाव है ।

अब रौद्रध्यानका कथन करते हैं । हिंसानन्द (हिंसामें आनन्द मानना) १, मृष्टानन्द
(झूठमें आनन्द मानना) २, स्तेयानन्द (चोरी करने करानेमें खुश होना) ३ और
विषयसंरक्षणानन्द (विषयोंकी रक्षामें आनन्द मानना) ४; इन चारोंसे उत्पन्न हुआ
रौद्रध्यान ४ प्रकारका है । यह न्यूनाधिकरूपसे मिथ्यादृष्टी गुणस्थानको आदि ले पंचम
गुणस्थानपर्यन्त रहनेवाले जीवोंके उत्पन्न होता है । और यह रौद्रध्यान मिथ्यादृष्टि
जीवोंके नरकगतिका कारण है तो भी जिस सम्यग्दृष्टीने नरकायु बांधली है उसको
छोड़कर अन्य सम्यग्दृष्टियोंके नरकगतिका कारण नहीं होता है । ऐसा क्यों है ? इसका
उत्तर यह है कि सम्यग्दृष्टियोंके जो “निज शुद्ध आत्माका स्वरूप है वही उपादेय है”
इस प्रकारका विशिष्ट भेदज्ञानका बल है, उससे नरकगतिका कारणभूत जो तीव्र संकलेश
है वह नहीं होता ।

अतः परमात्तरीन्द्रपरित्यागलक्षणमाहापायविपाकसंस्थानविचयसंक्षपतुर्भेदमिन्नं, नार-
तम्यवृद्धिक्रमेणासंयतसम्यग्दृष्टिदेशविरतप्रमत्तसंयताप्रमत्ताभिधानचतुर्गुणम्यानवृत्तिजीवस-
म्भवं, मुख्यवृत्त्या पुण्यबन्धकारणमपि परम्परया मुक्तिकारणं चेति धर्मध्यानं कथ्यते ।
तथाहि-स्वयं मन्दबुद्धित्वेऽपि विशिष्टोपाध्यायाभावेऽपि शुद्धजीवादिपदार्थानां सूक्ष्मत्वेऽपि
सति "सूक्ष्मं जिनोदितं वाक्यं हेतुभिर्ब्रज हन्यते । आह्लासिद्धं तु तद्ग्राह्यं नान्यथावादिनो
जिनाः ॥ १ ॥" इति श्लोककथितक्रमेण पदार्थनिश्चयकरणमाहाविचयध्यानं भव्यते ।
तथैव भेदाभेदरत्नत्रयभावनाचलेनात्माकं परेषां वा फदा कर्मणामपायो विनाशो भविष्य-
तीति चिन्तनमपायविचयं ज्ञातव्यम् । शुद्धनिश्चयेन शुभाशुभकर्मविपाकरहिताऽप्ययं
जीवः पश्चाद्नादिकर्मबन्धवशेन पापस्योदयेन नारकाद्विदुःस्वविपाककर्मणुभवति, पुण्यो-
दयेन देवादिमुखविपाकमनुभवतीति विचारणं विपाकविचयं विज्ञेयम् । पूर्वोक्तश्लोकानुप्रे-
क्षाचिन्तनं संस्थानविचयम् । इति चतुर्विधं धर्मध्यानं भवति ॥

अब इसके आगे आर्त्तध्यान तथा रौद्रध्यानके त्यागरूप लक्षणका धारक, आहाविचय
अपायविचय, विपाकविचय और संस्थानविचय नामक चार भेदोंसे भेदको प्राप्त हुआ,
न्यूनाधिकवृद्धिके क्रमसे असंयतसम्यग्दृष्टी, देशविरत, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्त इन
नामोंके धारक जो चार गुणस्थान हैं इनमें रहनेवाले जीवोंके उत्पन्न होनेवाला और
प्रधानतासे पुण्यबंधका कारण है तो भी परंपरासे मोक्षका कारणभूत ऐसा जो धर्मध्यान
है उसका कथन करते हैं । सोही कहते हैं-आप अल्पबुद्धिका धारक हो तो भी, विशेष
ज्ञानके धारक शुरुकी प्राप्ति न हो तो भी, शुद्ध जीव आदि पदार्थोंकी सूक्ष्मता होने पर भी
"भी जिनेन्द्रका फटा हुआ जो सूक्ष्म तत्त्व है वह हेतुओंसे जड़ित नहीं हो सकता है
इसलिये जो सूक्ष्मतत्त्व है उसको आह्लाके अनुसार मद्भाग करना चाहिये क्योंकि श्रीजि-
नेन्द्र अन्यथावादी अर्थात् झूठा उपदेश देनेवाले नहीं हैं ॥ १ ॥" इस श्लोकमें यह
रूप क्रमके अनुसार जो पदार्थका निश्चय करना है वह आहाविचय नामक प्रथम धर्मध्यान
कहलाता है । और इनोप्रकार भेद तथा अभेदरूप रत्नत्रयकी भावनाके चलते हमारे
अथवा अन्यजीवोंके कर्मोंका नाश करे होगा इस प्रकार जो विचारना है उसको अथाय-
विचय नामक दूसरा धर्मध्यान जानना चाहिये । शुद्ध निश्चयनयमें यह जीव शुभ अशुभ
कर्मोंके उदयने रहित है तो भी अनादिकर्मोंके बंधके चलते पापके कर्ममें नारक आदि
दुःखीरूप विपाकरूप फलका अनुभवन करता है । और पुण्यके बंधमें देव आदिके सुखरूप
विपाकको भोगता है । इस प्रकार विचार करना है उसको विपाकविचय नामक
तीसरा धर्मध्यान जानना चाहिये । और पहले कही हुई जो लोकापूर्णाका निश्चयन करना
है वह संस्थानविचय नामक चौथा धर्मध्यान है । इस प्रकार चार प्रकारका धर्मध्यान
होगा है ॥

अथ ध्यानप्रतिबन्धकानां मोहरागद्वेषाणां स्वरूपं कथ्यते । शुद्धात्मादितन्त्रेषु विपरी-
ताभिनिवेशजनको मोहो दर्शनमोहो मिथ्यात्वमिति यावत् । निर्विकारस्वसंभितिलक्षण-
वीतरागचारित्रप्रच्छादकचारित्रमोहो रागद्वेषी भण्येते । चारित्रमोहो रागद्वेषी कथं
भण्येते ? इति चेत्-कषायमध्ये क्रोधमानद्वयं द्वेषाङ्गं, मायालोभद्वयं रागाङ्गं, नोकषाय-
मध्ये तु स्त्रीपुंनपुंसकवेदत्रयं हास्यरतिद्वयं च रागाङ्गं, अरतिशोकद्वयं भयजुगुप्साद्वयं च
द्वेषाङ्गमिति ज्ञातव्यम् । अत्राह शिष्यः—रागद्वेषादयः किं कर्मजनिताः किं जीवजनिता
इति । तत्रोत्तरं—स्त्रीपुरुषसंयोगोत्पन्नपुत्र इव, सुधाहरिद्रासंयोगोत्पन्नवर्णविशेष इवोभयसं-
योगजनिता इति । पश्चान्नयविवक्षावशेन विवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयेन कर्मजनिता भण्यन्ते ।
तथैवाशुद्धनिश्चयेन जीवजनिता इति । स चाशुद्धनिश्चयः शुद्धनिश्चयापेक्षया व्यवहार
एव । अथ मतं—साक्षाच्छुद्धनिश्चयनयेन कस्यैत इति पृच्छामो वयम् । तत्रोत्तरं—साक्षा-
च्छुद्धनिश्चयेन स्त्रीपुरुषसंयोगरहितपुत्रस्येव, सुधाहरिद्रासंयोगरहितरङ्गविशेषस्येव तेषामुः

जब ध्यानके प्रतिबन्धक अर्थात् रोकनेवाले जो मोह, राग तथा द्वेष हैं उनके स्वरू-
पका वर्णन करते हैं । शुद्ध आत्मा आदि तत्वोंमें विपरीत आग्रहको उत्पन्न करनेवाला
जो मोह है वह दर्शनमोह अर्थात् मिथ्यात्व है । विकाररहित-निज आत्माके अनुभवरूप
जो वीतराग चारित्र है उसको ढकनेवाला जो चारित्रमोह है वह राग और द्वेष कहलाता
है । चारित्रमोह-राग द्वेषरूप कैसे कहलाता है ? ऐसा प्रश्न करो तो उत्तर यह है कि
कषायोंके बीचमें क्रोध और मान ये जो दो कषाय हैं सो तो द्वेषके अंग हैं और माया तथा
लोभ ये दोनों कषाय रागके अंग हैं । और नोकषायोंमें स्त्रीवेद, पुंवेद और नपुंसकवेद
ऐसे तीनों वेद तथा हास्य और रति ये दोनों, ऐसे पांच नोकषाय तो रागके अंग हैं; और
अरति तथा शोक ये दोनों और भय तथा जुगुप्सा (ग्लानि) ये दोनों, ऐसे चार नोकषाय
द्वेषके अंग जानने योग्य हैं । यहां पर शिष्य प्रश्न करता है कि-राग, द्वेष आदि क्या
कर्मोंसे उत्पन्न हुये हैं अथवा क्या जीवसे उत्पन्न हुए हैं ? इसका उत्तर यह है कि, स्त्री
और पुरुष इन दोनोंके संयोगसे उत्पन्न हुये पुत्रके समान और कलई तथा हल्दी इन
दोनोंके मेलसे उत्पन्न हुए एक प्रकारके रंगकी तरह ये राग-द्वेष आदि कषाय जीव और
कर्म इन दोनोंके संयोगसे उत्पन्न हुए हैं । और जब नयकी विवक्षाके वश इनका कथन
क्रिया जाता है तब विवक्षित एकदेश शुद्धनिश्चयनयसे तो ये कषाय कर्मसे उत्पन्न हुये
कहलाते हैं । और इसी प्रकार अशुद्धनिश्चयनयसे जीवजनित कहलाते हैं । और यह
अशुद्धनिश्चयनय, शुद्धनिश्चयनयकी अपेक्षासे व्यवहारनय ही है । शंका-साक्षात् शुद्ध
निश्चयनयसे ये राग द्वेष किसके हैं ? यह हम पूछते हैं । समाधान-तुम्हारे प्रश्नका उत्तर
यह है कि साक्षात् शुद्धनिश्चयनयकी अपेक्षासे जैसे, स्त्री और पुरुषके संयोग बिना पुत्रकी
व्यवृत्ति नहीं होती और चूना व हलदीके संयोग बिना एक प्रकारका रंग उत्पन्न नहीं होता
इसी प्रकार जीव तथा कर्म इन दोनोंके संयोगके बिना इन राग द्वेषादिकी उत्पत्ति ही नहीं

त्यस्तिरेव नास्ति कथमुत्तरं प्रयच्छाम इति ॥ ४८ ॥ एवं ध्यातृव्याख्यानमुख्यत्वेन तद्व्या-
नेन विचित्रध्यानकथनेन च सूत्रं गतम् ॥

अत ऊर्ध्वं पदस्थं ध्यानं मन्त्रवाक्यस्य चतुक्तं तस्य विवरणं कथयति:—

पणतीससोल्लुप्पणचउदुगमेगं च जवह ज्ञाएह ।

परमेष्ठिवाचयाणं अण्णं च गुरुवएसेण ॥ ४९ ॥

व्याख्या—“पणतीस”—‘णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, णमो उवज्जायाणं, णमो लोए सच्चसाहूणं’ एतानि पञ्चांशदक्षराणि सर्वपदानि भण्यन्ते । “सोल्लु”—‘अरिहंतं सिद्ध आचार्यं उवज्जाय माहू’ एतानि षोडशाक्षराणि नामपदानि भण्यन्ते । “छ”—‘अरिहन्तसिद्ध’ एतानि षडक्षराणि अर्हत्सिद्धयोर्नामपदे द्वे भण्यन्ते । “पण”—‘अ सि आ उ सा’ एतानि पञ्चाक्षराणि आदिपदानि भण्यन्ते । “चउदु”—‘अरि-
हंतं इदमक्षरचतुष्टयमर्हंतो नामपदम् । “दुग”—‘सिद्ध’ इत्यक्षरद्वयं सिद्धस्य नामपदम् । “एगं च”—‘अ’ इत्येकाक्षरमर्हंत आदिपदम् । अथवा ‘ओं’ एकाक्षरं पञ्चपरमेष्ठिनामा-

होती है । इसलिये हम तुम्हारे प्रश्नका उत्तर ही कैसे देंगे ? अर्थात् जैसे पुत्र न खोसे ही होता है और न पुरुषसे ही होता है, किन्तु स्त्री तथा पुरुष इन दोनोंके संयोगसे उत्पन्न होता है; इसी प्रकार राग द्वेष आदि न कर्मजनित ही हैं और न जीवजनित ही हैं किन्तु जीव और कर्म इन दोनोंके संयोगजनित हैं ॥ ४८ ॥ इस प्रकार ध्याता (ध्यान करनेवाले) के व्याख्यानकी प्रधानतासे इस ध्याताके ध्यान तथा विचित्र ध्यानके कथनसे यह गाथासूत्र समाप्त हुआ ।

अब पहले जो कह आये हैं कि “मन्त्रवाक्योंमें स्थित है यह पदस्थ ध्यान है”, उसी कथनका विस्तारसे वर्णन करते हैं:—

गाथामावार्थः—पंच परमेष्ठियोंको कहनेवाले जो पैंतीस, सोल्लु, लः, पांच, चार, दो और एक अक्षररूप मन्त्रपद हैं उनका जाप्य करो और ध्यान करो । इनके शिष्याय अन्य जो मन्त्रपद हैं उनको भी गुरुके उपदेशानुसार जपो और ध्यावो ॥ ४९ ॥

व्याख्यार्थः—“पणतीस” ‘णमो अरिहंताणं १, णमो सिद्धाणं २, णमो आयरियाणं ३, णमो उवज्जायाणं ४, णमो लोए सच्चसाहूणं ५, ये पैंतीस अक्षर ‘सर्वपद’ कहलाते हैं । “सोल्लु” ‘अरिहंतं सिद्ध आचार्यं उवज्जाय माहू’ ये सोल्लु अक्षर पंचपरमेष्ठियोंके नाम-
पद कहलाते हैं । “छ” ‘अरिहंतसिद्ध’ ये छः अक्षर अर्हन् तथा सिद्ध इन ही परमेष्ठियोंके दो नाम-पद कहे जाते हैं । “पण” ‘असिआउसा’ ये पांच अक्षर पंच परमेष्ठियोंके आदि-
पद कहलाते हैं । “चउदु” ‘अरिहंतं’ ये चार अक्षर अर्हन् परमेष्ठोंके नामपद रूप हैं । “दुग” ‘सिद्ध’ ये दो अक्षर सिद्ध परमेष्ठोंके नामपद रूप हैं । “एगं च” ‘अ’ यह एक एक अक्षर अर्हत्परमेष्ठोंका आदिपद है; अथवा ‘ओं’ यह एक अक्षर षोणं परमेष्ठियोंके आदि-

दिपदम् । तत्कथमिति चेत् “अरिहंता असरीरा आयरिया तह उवञ्जया मुणिणो । पढसवखरणिप्पणो उंकारो पंच परमेट्ठो । १ । इति गाथाकथितप्रथमाक्षराणां ‘समानः सवर्णे दीर्घा भवति’ ‘परश्च लोपम्’ ‘उवर्णे ऊ’ इति स्वरसन्धिविधानेन ओं शब्दो निष्पद्यते । कस्मादिति—“जवह ज्झाएह” एतेषां पदानां सर्वमन्त्रवादपदेषु मध्ये सारभूतानां इहलोकपरलोकेष्टफलप्रदानामर्थं ज्ञात्वा पश्चादनन्तज्ञानादिगुणस्मरणरूपेण वचनोच्चारणेन च जापं कुरुत । तथैव शुभोपयोगरूपत्रिगुणावस्थार्यां मीनेन ध्यायत । पुनरपि कथन्भूतानां “परमेष्ठिवाचयाणं” ‘अरिहंत’ इति पदवाचकमनन्तज्ञानादिगुणयुक्तोऽहंवाच्योऽभिधेय इत्यादिरूपेण पञ्चपरमेष्ठिवाचकानां । “अण्णं च गुरूवएसेण” अन्यदपि द्वादशसहस्रप्रमितपञ्चनमस्कारग्रन्थकथितक्रमेण लघुसिद्धचक्रं, बृहत्सिद्धचक्रमित्यादिदेवार्चनविधानं भेदाभेदरत्नत्रयाराधकगुरुप्रसादेन ज्ञात्वा ध्यातव्यम् । इति पदस्य ध्यानस्वरूपं व्याख्यातम् ॥ ४९ ॥

एवमनेन प्रकारेण “गुप्तेन्द्रियमना ध्याता ध्येयं वस्तु यथास्थितम् । एकाग्रचिन्तनं

पदस्वरूप है । ‘ओं’ यह परमेष्ठियोंके आदिपद रूप कैसे है ऐसा पूछो तो उत्तर यह है कि अरिहंतका प्रथम अक्षर ‘अ’, असरीर (सिद्ध) का प्रथम अक्षर ‘अ’, आचार्यका प्रथम अक्षर ‘आ’, उपाध्यायका प्रथम अक्षर ‘उ’, मुनिका प्रथम अक्षर ‘म्’ इस प्रकार इन पांचों परमेष्ठियोंके प्रथम अक्षरोंसे सिद्ध जो ओंकार है वही पंचपरमेष्ठियोंके समान है । इस प्रकार गाथामें कहे हुए जो प्रथम (अ अ आ उ म्) हैं, इनमें पहले ‘समानः सवर्णे दीर्घा भवति’ इस सूत्रसे दीर्घ आ बनाकर ‘परश्च लोपम्’ इससे पर अक्षरका लोप करके अ अ आ इन तीनोंके स्थानमें एक ‘आ’ सिद्ध किया, फिर “उवर्णे ओ” इस सूत्रसे आठके स्थानमें ‘ओ’ बनाया । ऐसे स्वरसन्धि करनेसे ‘ओम्’ शब्द सिद्ध होता है । इस कारण “जवह ज्झाएह” सब मन्त्रशास्त्रके पदोंमें सारभूत और इस लोक तथा परलोकमें इष्ट फलको देनेवाले इन पूर्वोक्त पदोंका अर्थ जान कर फिर अनन्तज्ञान आदि गुणोंके स्मरणरूप वचनका उच्चारण करके जाप करो और इसी प्रकार शुभोपयोगरूप जो मन, वचन, काय इन तीनोंकी गुप्ति स्वरूप अवस्था है उसमें मौन द्वारा इन पूर्वोक्त पदोंका ध्यान करो । फिर कैसे इन पदोंको जपो-धवावो ? “परमेष्ठिवाचयाणं” अरिहंत इस पदरूप वाचक है और अनन्तज्ञान आदि गुणोंसे युक्त जो श्रीजिनेन्द्र हैं वह इस पदका वाच्य (कहे जाने योग्य) है; इत्यादि प्रकारसे पंचपरमेष्ठियोंके वाचकोंको, “अण्णं च गुरूवएसेण” और इन पूर्वोक्त पदोंसे अन्यका भी जो कि बारह हजार श्लोकसंख्या प्रमाण पंचनमस्कार-माहात्म्य नामक ग्रंथमें कहे हुये प्रकारसे लघुसिद्धचक्र, बृहत्सिद्धचक्र इत्यादि-देवोंके पूजनके विधानको भेदाभेदरूप रत्नत्रयके आराधक गुरुके प्रसादसे जानकर ध्यान करना चाहिये । इस प्रकार पदस्य ध्यानके स्वरूपका कथन किया ॥ ४९ ॥

इस प्रकार “पांचों इन्द्रियों और मनको रोकनेवाला ध्याता (ध्यानी) है, यथास्थित

ध्यानं फलं संवरनिर्जरी ॥ १ ॥” इति श्लोककथितलक्षणानां ध्यातृधेयध्यानफलानां संक्षेपव्याख्यानरूपेण गाथात्रयेण द्वितीयान्तराधिकारे प्रथमं स्थलं गतम् ।

अतः परं रागादिविकल्पोपाधिरहितनिजपरमात्मपदार्थभावनोपसदान्द्वैकलक्षणसु-
न्यामृतरसास्वादवृत्तिरूपस्य निश्चयध्यानस्य परम्परया कारणभूतं यन्तुभोपयोगलक्षणं
व्यवहारध्यानं तद्व्येयभूतानां पंचपरमेष्ठानां मध्ये तावदर्हस्वरूपं कथयामोत्येका पात-
निका । द्वितीया तु पूर्वसूत्रोदितसर्वपदनामपदादिपदानां चाचकभूतानां वाच्या ये पद-
परमेष्ठिनस्तद्व्याख्याने क्रियमाणे प्रथमतस्तावज्जिनस्वरूपं निरूपयामि । अथवा तृतीया
पातनिका पद्व्यपिण्डस्थरूपव्ययानत्रयस्य ध्येयभूतमर्हन्सर्वतस्वरूपं दर्शयामोति पात-
निकात्रयं मनसि धृत्वा भगवान् सूत्रमिदं प्रतिपादयतिः—

षष्ठचदुषादकम्नो दंसणसुहणाणवीरियमईओ ।

सुहदेहत्यो अप्पा सुद्धो अरिहो विचित्तज्जो ॥ ५० ॥

व्याख्या । “षष्ठचदुषादकम्नो” निश्चयरत्नत्रयात्मकसुद्धोपयोगध्यानेन पूर्व पातिकां-

जो पदार्थ है वह ध्येय है, एकाम होकर जो विचारका करना है वह ध्यान है और संवर
तथा निर्जरा ये दोनों ध्यानके फल हैं ॥ १ ॥” इस श्लोकमें कहे हुए लक्षणके धारक
जो ध्याता, ध्येय, ध्यान और फल हैं उनका संक्षेपसे कथन करनेरूप तीन गाथाओंसे
द्वितीय जो अंतराधिकार है उसमें प्रथम स्थल समाप्त हुआ ॥

अब इसके आगे राग आदि विकल्परूप उपाधिले रहित जो निज परमात्मारूप
पदार्थ है उसकी भावना से उत्पन्न और सदानन्दस्वरूप एक लक्षणके धारक सुमानुषके
रसके आस्वादासे वृत्तिस्वरूप ऐसा जो निश्चयध्यान है उसका परंपरासे कारणभूत जो सुभो-
पयोगलक्षण व्यवहार ध्यान है उसके द्वारा ध्येय (ज्ञान करने योग्य) भूत जो पंच
परमेष्ठो हैं उनके माध्यमसे प्रथम जो अर्हन् परमेष्ठो हैं उनके स्वरूपको बतला है, यह
पहली पातनिका है । पूर्वगाथामें कहे हुये जो सर्वपद, नामपद आदि वाचकभूत पद हैं
उनके वाच्य जो पंचपरमेष्ठो हैं उनका व्याख्यान करनेपर प्रथम ही मौजिमेन्द्रके स्वरूप-
को निरूपण करता है, यह दूसरी पातनिका है । अथवा पदस्य, विहरस्य तथा स्वरस्य इन
तीन ध्यानोंके ध्येयभूत जा भी अर्हन् सर्वत हैं उनके स्वरूपको दिखलाना है, यह तीसरी
पातनिका है । इस प्रकार इन पूर्वोक्त तीनों पातनिकाओंको मनमें धारण करके विद्वान्नि-
पकयको भगवान् मानेनिश्चयस्वरवासी इस अतिग गाथासूत्रका प्रतिपादन करते हैंः—

गाथाभावार्थः—चार पातिका क्रमोंको मठ करनेवाला, अमन्य द्रव्य, सुख, ज्ञान
और बौद्धका धारक, उत्तम देहमें विराजमान और सुद्ध ऐसा जो आत्मा है वह अतिरिक्त
है, उसका उपास करना आरिहो ॥ १० ॥

ध्यातृपार्थः—“षष्ठचदुषादकम्नो” निश्चयरत्नत्रयरूप जो सुद्धोपयोग

मुख्यभूतमोहनीयस्य विनाशनात्तदनन्तरं ज्ञानदर्शनावरणान्तरायसंक्षयुगपद्वातित्रयविनाशकत्वाच्च प्रणष्टचतुर्घातिकर्मा । “दंसणसुहणाणवीरियमईओ”, तेनैव घातिकर्माभावेन उच्चानन्तचतुष्टयत्वात् सहजशुद्धविनश्वरदर्शनज्ञानसुखवीर्यमयः । “सुहदेहत्यो” निश्चये-भाशरीरोऽपि व्यवहारेण सप्तधातुरहितदिवाकरसहस्रभासुरपरमौदारिकशरीरत्वात् शुभवे-स्थः । “सुद्धो”-“क्षुधा तृपा भयं द्वेषो रागो मोहश्च चिन्तनम् । जरा रुजा च मृत्युश्च खेदः स्वेदो मदोऽरतिः । १ । विस्मयो जननं निद्रा विषादोऽष्टादश स्मृताः । तैर्दोषैर्विनिर्मुक्तः सोऽयमाप्तो निरञ्जनः ॥ २ ॥” इति श्लोकद्वयकथिताष्टादशदोषरहितत्वात् शुद्धः । “अप्पा” एवंगुणविशिष्ट आत्मा । “अरिहो” अरिशब्दवाच्यमोहनीयस्य, रजःशब्दवाच्यज्ञानदर्शनावरणद्वयस्य, रहस्यशब्दवाच्यान्तरायस्य च हननाद्विनाशास्तकाशात् इन्द्रादिविनिर्मिता गर्भावतरणजन्माभिपेकनिःक्रमणकेवलज्ञानोत्पत्तिनिर्वाणाभिधानपञ्चमहाकल्याणरूपां पूजामर्हति योग्यो भवति तेन कारणेन अहंन् भण्यते । “विचिन्तिज्जो” इत्युक्तविशेषणैर्विशिष्टमाप्तागमप्रभृतिग्रन्थकथितवीतरागसर्वज्ञाद्यष्टोत्तरसह-

ध्यान है उसके द्वारा पहले घातियाकर्माँमें प्रधान जो मोहनीयकर्म है उसका नाश करने से और पीछे ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अंतराय इन नामोंके धारक जो तीन घातिया कर्म हैं उनका एक ही समयमें नाश करनेसे नष्ट होगये हैं चार घातिया कर्म जिसके ऐसा “दंसणसुहणाणवीरियमईओ” वह जो घातिया कर्माँका नाश हुआ है उसीसे प्राप्त हुआ जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्यरूप अनंत चतुष्टय है उसका धारक होनेसे स्वभावसे उत्पन्न शुद्ध और विनाशरहित ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्यरूप ऐसा ‘सुहदेहत्यो’ निश्चयनयसे शरीररहित है तो भी व्यवहारनयकी अपेक्षासे सात धातुओंसे रहित-हजारों सूर्योंके समान देदीप्यमान-परम औदारिक शरीरको धारण करता है इस कारण शुभ देहमें विराजमान है । “सुद्धो” “क्षुधा १ तृपा २ भय ३ द्वेष ४ राग ५ मोह ६ चिन्ता ७ जरा ८ रुजा (रोग) ९ मरण १० स्वेद ११ खेद १२ मद १३ रति १४ विस्मय १५ जन्म १६ निद्रा १७ और विषाद १८, ऐसे ये अठारह दोष हैं; इन दोषोंकरके रहित ऐसा वह निरंजन आप्त श्री जिनेन्द्र है । २ ।” इस प्रकार दो श्लोकोंमें कहे हुए अठारह दोषोंसे रहित होनेके कारण शुद्ध है । “अप्पा” इन पूर्वोक्त गुणोंका धारक जो आत्मा है वह “अरिहो” ‘अरि’ इस शब्दसे कहे जानेवाले मोहनीयकर्मका, ‘रज’ इस शब्दसे कहनेयोग्य ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय इन दोनों कर्मोंका तथा ‘रहस्य’ इसका वाच्य जो अंतरायकर्म है उसका नाश करनेसे इन्द्र आदि देवोंद्वारा रची हुई गर्भावतार-जन्माभिपेक-तपकल्याण-केवलज्ञानोत्पत्ति और निर्वाणसमयमें होनेवाली जो पांच महाकल्याणरूप पूजा है, उसके योग्य होता है इस कारण अहंन् कहलाता है । “विचिन्तिज्जो” इन उक्त विशेषणोंके धारक और आप्तागममें कहे हुए वीतराग सर्वज्ञ आदि एक हजार आठ नामोंको धारण करनेवाले श्री अर्हत जिनभ-

नमस्कृतं जिनभट्टारकं पदस्वर्षिदस्यरूपस्यध्याने स्थित्वा विशेषेण चिन्तयत ध्यायत
।। श्रुयमिति ।

त्रावसरे भट्टचार्याकमतं गृहीत्वा शिष्यः पूर्वपक्षं करोति । नास्ति सर्वतोऽनुप-
खरविषाणवत् । तत्र प्रत्युत्तरं—किमत्र देशेऽत्र काले अनुपलब्धिः, सर्वदेशे काले
यत्र देशेऽत्र काले नास्ति तदा सम्मत एव । अथ सर्वदेशकाले नास्तीति भण्यते
त्रयं कालत्रयं सर्वेश्वरहितं कथं ज्ञातं भवता ? ज्ञातं चेत्तर्हि भवानेष सचंशः । अथ
। तर्हि निषेधः कथं क्रियते ? तत्र दृष्टान्तः—यथा कोऽपि निषेधको घटत्वाधार-
रहितं भूतलं चक्षुषा दृष्ट्वा पश्चाद्ब्रह्मत्वं भूतले घटो नास्तीति युक्तम् । यस्तु चक्षु-
स्य पुनरिदं वचनमयुक्तम् । तथैव यस्तु जगत्प्रयं कालत्रयं सर्वेश्वरहितं जानाति

जो पदस्थ-र्षिदस्य और रूपस्य ध्यानमें स्थित होकर हे भव्यजनो ! तुम अधिकतमसे
न करो ॥

अब इस अवसरमें भट्ट और चार्वाक (नास्तिफ) का मत प्रष्टण करके शिष्य पूर्य
ी करता है कि, सर्वज्ञ नहीं है; क्योंकि उसका प्रत्यक्ष अथवा प्राप्ति नहीं होती,
सींके समान । इस शंकाका उत्तर यह है—तुम जो सर्वज्ञकी अप्राप्ति मानते हो
हम पूछते हैं कि, सर्वज्ञकी प्राप्ति इस देश और इस कालमें नहीं है या नय
और सब कालोंमें सर्वज्ञकी प्राप्ति नहीं है ? यदि कहो कि, इस देश और इस कालमें
की प्राप्ति नहीं है तब तो तुम्हारा कहना ठीक है, क्योंकि हम भी ऐसा मानते हैं ।
तुम कहो कि, सब देशों और सब कालोंमें सर्वज्ञकी प्राप्ति नहीं है, तो हम पूछते हैं
तुमने यह कैसे जाना कि—अधो, ऊर्ध्व और मध्य भेदसे तीनों लोक तथा भूत, भवि-
। और वर्तमान ये तीनों काल सर्वज्ञ करके रहित हैं ? यदि तुम यह कहो कि, हमने
र लिया कि तीनों लोक और तीनों काल सर्वज्ञ रहित हैं तब तो तुम ही सर्वज्ञ
द हो चुके ॥ भावार्थ—जो तीन लोक तथा तीन कालके पदार्थोंको जानता है यही
ज्ञ है । और तुमने यह जान ही लिया कि तीनों लोक और तीनों कालोंमें सर्वज्ञ नहीं
इस लिये तुम ही सर्वज्ञ ठहरो । और यदि तुमने 'तीन लोक व कालमें सर्वज्ञ नहीं'
।को नहीं जाना है; तो फिर 'सर्वज्ञ नहीं है' ऐसा निषेध कैसे करते हो ? यहाँपर
प्रश्न यह है कि—जैसे कोई निषेध करनेवाला पुरुष पटका आधारभूत जो भूतल
जमान) है उसको नेत्रोंसे पटरहित जान लेगा है तब कहना है कि 'इस भूतलमें पट
ही है' सो यह कहना तो उसका ठीक है । परन्तु जो नेत्रोंसे रहित है, यह यदि 'इस
तलमें पट नहीं है' ऐसा वचन करे तो ठीक नहीं । इसी प्रकार जो तीन लोक और
।न कालको सर्वेश्वरहित जानता है यह यदि 'तीन लोक तथा तीन कालोंमें सर्वज्ञ नहीं'
" यह करे तो इसका कहना ठीक है । परन्तु जो 'तीन लोक व तीन कालको सर्वज्ञ-

तस्य जगत्त्रये कालत्रयेऽपि सर्वज्ञो नास्तीति वक्तुं युक्तं भवति । यस्तु जगत्त्रयं कालत्रयं न जानाति स सर्वज्ञनिषेधं कथमपि न करोति । कस्मादिति चेत्—जगत्त्रयकालत्रयपरिज्ञानेन स्वयमेव सर्वज्ञत्वादिति ।

अथोक्तमनुपलब्धेरिति हेतुवचनं तदप्ययुक्तम् । कस्मादिति चेत्—किं भवतामनुपलब्धिः, किं जगत्त्रयकालत्रयवर्तिपुरुषाणां वा ? यदि भवतामनुपलब्धिस्तावता सर्वज्ञभावो न सिद्धयति, भवद्भिरनुपलभ्यमानानां परकीयचित्तवृत्तिपरमाण्वादि सूक्ष्मपदार्थानामिव । अथवा जगत्त्रयकालत्रयवर्तिपुरुषाणामनुपलब्धिस्तत्कथं ज्ञातं भवद्भिः ? ज्ञातं चेत्तर्हि भवन्त एव सर्वज्ञा इति पूर्वमेव भणितं तिष्ठति । इत्यादिहेतुदूषणं ज्ञातव्यम् । यथोक्तं खरविषाणवदिति दृष्टान्तवचनं तदप्यनुचितम् । खरे विषाणं नास्ति गवाद्गी तिष्ठतीत्यन्ताभावो नास्ति यथा तथा सर्वज्ञस्यापि नियतदेशकालादिष्वभावेऽपि सर्वथा नास्तित्वं न भवति, इति दृष्टान्तदूषणं गतम् ।

रहित नहीं जानता है; वह सर्वज्ञका निषेध किसी प्रकारसे भी नहीं कर सकता है । क्यों नहीं कर सकता ? यह पूछो तो उत्तर यह है कि, तीन जगत् और तीन कालको जाननेसे वह आप ही सर्वज्ञ है, अर्थात् जब वह आप ही सर्वज्ञ है तब सर्वज्ञ नहीं है ऐसा कैसे कह सकता है ?

अब जो 'सर्वज्ञ नहीं है' इस वार्त्ताको सिद्ध करने के लिये 'सर्वज्ञकी प्राप्ति नहीं है' यह हेतुवचन कहा है वह भी अयुक्त (ठीक नहीं) है । क्यों अयुक्त है ? ऐसा प्रश्न करो तो हम पूछते हैं कि-क्या सर्वज्ञकी प्राप्ति तुम्हारे नहीं है या तीन लोक व तीन कालमें रहनेवाले जीवोंके सर्वज्ञकी प्राप्ति नहीं है ? यदि तुम लोगोंको सर्वज्ञ प्राप्त नहीं होता है तो इससे सर्वज्ञका अभाव सिद्ध नहीं होता । क्योंकि, जैसे अन्य पुरुषोंके मनके विचार और परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थ तुम्हारे जाननेमें नहीं आते हैं, तो भी वे हैं अर्थात् उनका अभाव नहीं है । इसी प्रकार तुम्हारे जाननेमें नहीं आया हुआ सर्वज्ञ भी है, उसका सर्वथा अभाव नहीं । अब कदाचित् यह कहो कि, तीन जगत् और तीन कालके पुरुषोंके ही सर्वज्ञकी अप्राप्ति है; तो हम पूछते हैं कि, क्या तुमने यह जान लिया ? यदि जान लिया है तब तो 'तुमही सर्वज्ञ हो' यह जो हमने पहले ही कहा है, वही यहाँ आ ठहरा । इत्यादि अनेक दूषण इस 'अप्राप्ति' रूप हेतुमें जानने चाहिये । और जो तुमने 'सर्वज्ञ नहीं है' क्योंकि उसकी प्राप्ति नहीं होती' इसको सिद्ध करनेके लिये गर्दभके सींगके समान यह दृष्टान्तवचन कहा, वह भी उचित नहीं है । क्योंकि, जैसे गर्दभ (गधे) के सींग नहीं हैं परन्तु बैल आदिके सींग हैं, इस लिये सींगका अत्यन्त (सर्वथा) अभाव नहीं है । इसी प्रकार यद्यपि सर्वज्ञका किसी नियत (कायम किये हुए) देश तथा काल आदिमें अभाव है तो भी उस सर्वज्ञका सर्वथा अभाव नहीं हो सकता है । इस प्रकार दृष्टान्तमें दूषण दिखाया गया ॥

इत्यार्याकथितत्रिद्विरङ्गचतुर्विधाराधनावलेन, तथैव "समत्तं सण्णाणं सञ्चारित्तं हि
 ी चैव । चत्थो चिट्ठहि आदे तस्सा आदा हु मे सरणं । १ ।" इति गाथाकथिता-
 रनिश्चयचतुर्विधाराधनावलेन च चात्थान्तरमोक्षमार्गद्वितीयनामाभिनेयेन कृत्वा यः
 वीतरागचारित्राविनाभूतं स्वशुद्धात्मानं साधयति भावयति स साधुर्भवति । तस्यैव
 शुद्धसदानन्दैकानुभूतिलक्षणो भावनमस्कारस्तथा 'णमो लोए सच्चसाहूणं' द्रव्यनम-
 अ भवत्विति ॥ ५४ ॥

एवमुक्तप्रकारेण गाथापञ्चकेन मध्यमप्रतिपत्त्या पञ्चपरमेष्ठिस्वरूपं ज्ञातव्यम् । अथवा
 येन "अरिहासिद्धारियाउव्वञ्जायासाधु पंचरमेट्टो । ते वि हु चिट्ठहि आदे तस्सा
 दा हु मे सरणं । १ ।" इति गाथाकथितक्रमेण संक्षेपेण, तथैव विस्तरेण पञ्चपरमेष्ठि-
 कथितक्रमेण, अतिविस्तारेण तु सिद्धचक्रादिदेवार्चनाविधिरुमन्त्रवादसंबन्धिपञ्च-
 स्कारग्रन्थे चेति । एवं गाथापञ्चकेन द्वितीयत्यलं गतम् ।

अथ तदेव ध्यानं चिकल्पितनिश्चयेनाचिकल्पितनिश्चयेन प्रकारान्तरेणोपसंहाररूपेण

ज्ञान, ज्ञान, चारित्र और तपभेदोंसे चार प्रकारकी आराधना है उस आराधनाके फलसे
 या इसीप्रकार "सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र और सत्तप ये चारों आत्मानें
 उवास करते हैं इस कारण आत्मा ही मेरे शरणभूत है । १ ।" इस गाथामें कही हुई
 ती निश्चयनयसे अभ्यन्तरकी चार आराधना हैं उनके फलसे अर्थात् वाश मोक्षमार्ग और
 प्रभ्यन्तर मोक्षमार्ग करके जो वीतरागचारित्रका अविनाभूत निज शुद्ध आत्माको साधते हैं
 अर्थात् भावते हैं; वे साधु परमेष्टी कहलाते हैं । उन्हींके लिये मेरा स्वभावसे कवच-
 शुद्ध-ऐसे सदानन्दकी अनुभूतिलक्षण भावनमस्कार तथा "णमो लोय सच्चसाहूणं" इस
 पदके उच्चारणरूप द्रव्यनमस्कार हो ॥ १५ ॥

इस कहे हुए प्रकारसे पांच गाथाओं द्वारा मध्यम कथिके धारक सिद्धोंको ज्ञान होनेके
 लिये पंच परमेष्टीके स्वरूपका कथन किया गया है; वह जानना चाहिये । अथवा निश्च-
 यनयसे "अहंत्वं, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये पांचों परमेष्टी जो हैं वे भी
 आत्मानें ही सिद्धते हैं; इस कारण आत्मा ही मेरे शरणभूत है । १ ।" इस गाथामें कहे
 हुए कमानुसार संक्षेपसे पंच परमेष्ठियोंका स्वरूप जानना चाहिये । और विस्तारमें पंच
 परमेष्ठियोंका स्वरूप पञ्चपरमेष्टी नामक ग्रन्थमें कहे हुये ज्ञानमें जानना चाहिये । तथा
 अल्पविस्तारसे निद्रयक आदि देवोंके पूजनविधिरुप जो मन्त्रवादसंग्रहकी पंचनम/संज्ञ
 माहात्म्यनामक ग्रन्थ है उनमें पंच परमेष्ठियोंका स्वरूप जानना चाहिये । इस प्रकार पांच
 गाथाओंसे हमारा ध्यान समाप्त हुआ ॥

अब फिर भी इसी स्थानको चिकल्पितनिश्चय और अचिकल्पितनिश्चयनय जो अल्प
 प्रकार हैं उनसे संक्षेप करते कहते हैं । इनमें गाथाके ध्यान करनेमें स्पष्टता सज्जन कहता है,

पुनरप्याह । तत्र प्रथमपादे ध्येयलक्षणं, द्वितीयपादे ध्यातृलक्षणं, तृतीयपादे ध्यानलक्षणं, चतुर्थपादेन नयविभागं कथयामीत्यभिप्रायं मनसि धृत्वा भगवान् सूत्रमिदं प्रतिपादयति;—

जं किंचिवि चिंततो णिरीहवित्ती हवे जदा साहू ।

लद्धूणय एयत्तं तदाहु तं तस्स णिच्छयं ज्ञाणं ॥ ५५ ॥

व्याख्या—‘तदा’ तस्मिन् काले आहुर्ब्रुवन्ति ‘तं तस्स णिच्छयं ज्ञाणं’ तत्तस्य निश्चयध्यानमिति । यदा किं ‘णिरीहवित्ती हवे जदा साहू’ निरीहवृत्तिर्निस्पृहवृत्तिर्यदा साधुर्भवति । किं कुर्वन् ‘जं किंचिवि चिंततो’ यत् किमपि ध्येयवस्तुरूपेण वस्तु चिन्तयन्निति । किं कृत्वा पूर्वं ‘लद्धूणय एयत्तं’ तस्मिन् ध्येये लब्ध्वा । किं ? एकत्वं एकाग्रचिन्तानिरोधनमिति । अथ विस्तारः—यत् किञ्चिद् ध्येयमित्यनेन किमुक्तं भवति ? प्राथमिकापेक्षया सविकल्पावस्थायां विषयकपायवन्नार्थं चित्तस्थिरीकरणार्थं पञ्चपरमेष्ठ्यादिपरद्रव्यमपि ध्येयं भवति । पश्चादभ्यासवशेन स्थिरीभूते चित्ते सति शुद्धबुद्धैकस्वभावनिजशुद्धात्मस्वरूपमेव ध्येयमित्युक्तं भवति । निस्पृहवचनेन पुनर्मिथ्यात्वं वेदत्रयं हास्यादिपटकक्रोधादिचतुष्टयरूपचतुर्दशाऽभ्यन्तरपरिग्रहेण तथैव क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदास-

द्वितीय पादमें ध्याता (ध्यान करनेवाले) का लक्षण कहता हूँ, तीसरे पादमें ध्यानका लक्षण कहता हूँ और चौथे पाद (चरण) से नयोंके विभागको कहता हूँ । इस अभिप्रायको मनमें धारण करके भगवान् श्री नेमिचन्द्रस्वामी इस अग्रिम सूत्रका प्रतिपादन करते हैं;—

गाथाभावार्थः—‘ध्येय पदार्थमें एकाग्र चित्त होकर जिस किसी पदार्थको ध्यावता हुआ साधु जब निस्पृह वृत्ति (सब प्रकारकी इच्छाओंसे रहित) होता है उस समय वह उसका ध्यान निश्चय ध्यान होता है ऐसा आचार्य कहते हैं ॥ ५५ ॥

व्याख्यार्थः—‘लद्धूणय एयत्तं’ उस ध्येय पदार्थमें एकाग्रचिन्ताके निरोधको प्राप्त होकर अर्थात् एकचित्त होकर ‘जं किंचिवि चिंततो’ जिस किसी पदार्थका ध्येयवस्तुके रूपसे चितवन करता हुआ ‘णिरीहवित्ती हवे जदा साहू’ साधु जब निस्पृह वृत्तिको धारण करनेवाला होता है ‘तदाहु तं तस्स णिच्छयं ज्ञाणं’ उस समय आचार्य महाराज साधुके उस ध्यानको निश्चय ध्यान कहते हैं । अब विस्तारसे वर्णन करते हैं—गाथामें जो ‘यत् किंचित् ध्येयम्’ अर्थात् ‘जिस किसी भी ध्येय पदार्थको’ ऐसा पद है उससे क्या कहा गया है कि ? ध्यानकी प्रथम ही आरंभ करनेकी अपेक्षासे जो सविकल्प अवस्था है उसमें विषय और कपायोंको दूर करनेके लिये तथा चित्तको स्थिर करनेके लिये पंच परमेष्ठी आदि जो परद्रव्य हैं वे भी ध्येय होते हैं, फिर जब अभ्यासके बलसे चित्त स्थिर हो जाता है तब शुद्ध-बुद्ध एकस्वभावका धारक जो निज-शुद्ध आत्मा है उसका स्वरूप ही ध्येय होता है; यह कहा गया है । ‘और निस्पृहवृत्ति होकर’

यभाण्डाऽभिधानदक्षविधवहिरङ्गपरिमर्देण च रहितं ध्याकृत्यरूपमुक्तं भवति । एकाग्र-
न्तानिरोधेन च पूर्वोक्तविधिवध्यैवस्तुनि स्थिरत्वं निश्चलत्वं ध्यानलक्षणं भणितमिति ।
अथशब्देन तु प्राथमिकापेक्षया व्यवहाररत्नत्रयानुसूचनिश्चयो प्राहः । निष्पन्नयोगनि-
लपुरुषापेक्षया व्यवहाररत्नत्रयानुसूचनिश्चयो प्राहः ॥ निष्पन्नयोगपुरुषापेक्षया तु
द्वोपयोगलक्षणविवक्षितकदेशशुद्धनिश्चयो प्राहः । विशेषनिश्चयः पुनरग्रे वक्ष्यमाणस्ति-
तीति सूत्रार्थः ॥ १५ ॥

अथ शुभाशुभमनोवचनकायनिरोधे कृते सत्यात्मनि स्थिरां भवति तदेव परमध्यानमि-
त्युपदिशति;—

मा चिद्दृष्ट मा जंपह मा चिन्तह किंवि जेण होह यिरो ।

अप्या अप्यम्मि रओ इणमेव परं इवे ज्ञाणं ॥ ५६ ॥

व्याख्या—'मा चिद्दृष्ट मा जंपह मा चिन्तह किंवि' नित्यनिरञ्जननिष्क्रियनिःसुद्धा-

यद् जो वचन हे इमसे मिध्यात्व १, पुंवेद २, स्त्रीवेद ३, नर्पुंसकवेद ४, ह्यन्त्य ५, रति
६, अरति ७, शोक ८, भय ९, जुगुप्सा १०, क्रोध ११, मान १२, नाया १३ और
लोभ १४, इन रूप चौदह प्रकारके अन्नरज्ज परिमर्दसे रहित तथा हनोप्रकार क्षेत्र
१, वास्तु २, हिरण्य ३, सुवर्ण ४, घन ५, धान्य ६, पानी ७, दाल ८, कृष्य ९, और भात
१०, नाम दशप्रकारके बहिरंग परिमर्दसे रहित ध्यान करनेवालेका स्वप्न पड़ा गया है ।
और 'एकाग्रचिन्तानिरोधको प्राप्त होकर' इस कथनसे पूर्वोक्त नाना प्रकारके ध्यान
करनेयोग्य पदार्थोंमें जो निश्चलपना है उसको ध्यानका लक्षण कहा है । और "निश्चय ध्यान
कृते हैं" चर्चापर जो निश्चय शब्द है उसमें अन्यान्य करनेवाले पुरुषको जंघेवाले जो
व्यवहाररत्नत्रयके अनुसूच निश्चय प्रहण करना चाहिये और जिसके ध्यान मिष्ट हो गया
है ऐसे पुरुषको अपेक्षासे शुद्धोपवांगरूप लक्षणका धारक विवक्षितकदेशशुद्धनिश्चय
प्रहण करना चाहिये । इससे विशेष (जंघेदर्वेका) जो निश्चय है वा ज्ञानोके सूत्रमें
कहा है । इस प्रकार सूत्रका अर्थ है ॥ ५५ ॥

अथ ध्यान करनेवाला पुरुष शुभ अशुभरूप मन, वचन और कायका निरोध कर
सुकने पर जो आत्मामें स्थिर होजा है वह आत्मामें स्थिर होना ही परम ध्यान है ऐसा
वचन देते हैं;—

मायाभावाथैः—हे ज्ञानी जनो ! तुम सुप्त भी पड़ा नय करो अयोग्य कायके त्याग-
रको मत करो, सुप्त भी नय दोसो और सुप्त भी मत विचारो ! जिसमें कि तुम्हारा
आत्मा अपने आत्मामें तज्जान स्थिर होवे; क्योंकि जो आत्मामें तज्जान होना है वह पर-
मात्मान है ॥ ५६ ॥

व्याख्यानार्थः—हे ज्ञानी जनो ! "मा चिद्दृष्ट मा जंपह मा चिन्तह किंवि" नित्य
निरञ्जन और निश्चलरहित ऐसा जो निःसुद्ध आत्मा का अनुभव है, हमको संकल्पवाला जो

त्वानुभूतिप्रतिबन्धकं शुभाशुभचेष्टारूपं कायव्यापारं, तथैव शुभाशुभान्तर्बहिर्जल्परूपं वचनव्यापारं, तथैव शुभाशुभविकल्पजालरूपं चित्तव्यापारञ्च किमपि माकुरुत हे विवेकिजनाः ! 'जेण होइ थिरो' येन योगत्रयनिरोधेन स्थिरो भवति । स कः 'अप्पा' आत्मा । कथम्भूतः स्थिरो भवति 'अप्पस्मि रओ' सहजशुद्धज्ञानदर्शनस्वभावपरमात्मतत्त्वसम्यक्श्रद्धानज्ञानानुचरणरूपाभेदरत्नत्रयात्मकपरमसमाधिसमुद्भूतसर्वप्रदेशालहादजनकसुखास्वादपरिणतिसहिते निजात्मनि रतः परिणतस्तल्लीयमानस्तच्चित्तस्तन्मयो भवति । 'इणमेव परं हवे ज्ञाणं' इदमेवात्मसुखरूपे तन्मयत्वं निश्चयेन परमुत्कृष्टं ध्यानं भवति ।

तस्मिन् ध्याने स्थितानां यद्वीतरागपरमानन्दसुखं प्रतिभाति, तदेव निश्चयमोक्षमार्गस्वरूपम् । तच्च पर्यायनामान्तरेण किं किं भण्यते तदभिधीयते । तदेव शुद्धात्मस्वरूपं, तदेव परमात्मस्वरूपं, तदेवैकदेशव्यक्तिरूपविवक्षितैकदेशशुद्धनिश्चयेन स्वशुद्धात्मसम्बितिसमुत्पन्नसुखामृतजलसरोवरे रागादिमलरहितत्वेन परमहंसस्वरूपम् । इदमेकदेशव्यक्तिरूपं शुद्धनयव्याख्यानमत्र परमात्मध्यानभावनानाम्मालायां यथासम्भवं सर्वत्र योजनीयमिति ।

शुभ अशुभ चेष्टारूप कायका व्यापार है उसको, इसी प्रकार शुभ अशुभ-अन्तरंग तथा बहिर्गरूप वचनके व्यापारको और इसी प्रकार शुभ-अशुभ विकल्पोंके समूहरूप मनके व्यापारको कुछ भी मत करो "जेण होइ थिरो" जिन मन, वचन और कायस्वरूप तीनों योगोंके रोकनेसे स्थिर होता है; वह कौन ? "अप्पा" आत्मा । कैसा स्थिर होता है । "अप्पस्मि रओ" सहज शुद्ध ज्ञान और दर्शन स्वभावको धारण करनेवाला जो परमात्मतत्त्व है उसके सम्यक् श्रद्धान-ज्ञान तथा आचरण करनेरूप जो अभेदरत्नत्रय है उस स्वरूप जो परम ध्यान है उससे उत्पन्न और सब प्रदेशोंको आनन्द पैदा करनेवाला ऐसा जो सुख उसके आस्वादरूप परिणति सहित निज आत्मामें परिणत, तल्लीन, तन्मय तथा तच्चित्त होकर स्थिर होता है । "इणमेव परं हवे ज्ञाणं" यही जो आत्माके सुखरूप में परिणमन होना है वह निश्चयसे परम अर्थात् उत्कृष्ट ध्यान होता है ॥

उस परमध्यानमें स्थित हुए जीवोंको वीतरागपरमानन्द सुख प्रतिभासता है वही निश्चयमोक्षमार्गस्वरूप है । वह दूसरे पर्यायनामोंसे क्या क्या कहलाता है अर्थात् उसको किन किन नामोंसे लोग कहते हैं सो कथन किया जाता है । वही शुद्ध आत्माका स्वरूप है, वही परमात्माका स्वरूप है, वही एक देशमें प्रकटतारूप ऐसे विवक्षित एक देश-शुद्धनिश्चयनयसे निजशुद्ध आत्माके ज्ञानसे उत्पन्न जो सुख वही हुआ जो अमृतजलका सरोवर उसमें राग आदि मलोंसे रहित होनेके कारण परमहंस स्वरूप है "इस परमात्मध्यानके भावनाके नामोंकी मालामें इस एकदेशव्यक्तिरूप शुद्धनयके व्याख्यानको यथासंभव सब जगह लगा लेना चाहिये अर्थात् यथासंभव ये सब नाम एकदेशशुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षासे हैं ऐसा समझना चाहिये ।

तदेव परब्रह्मस्वरूपं, तदेव परमविष्णुस्वरूपं, तदेव परमशिवस्वरूपं, तदेव परमबुद्धस्वरूपं, तदेव परमनिजरस्वरूपं, तदेव परमम्वात्मोपलब्धिब्रह्मणं सिद्धस्वरूपं, तदेव निरञ्जनस्वरूपं, तदेव निर्मलस्वरूपं, तदेव स्वसम्भेदनज्ञानं, तदेव परमतत्त्वज्ञानं, तदेव शुद्धात्मदर्शनं, तदेव परमायम्यास्वरूपं, तदेव परमात्मनः दर्शनं, तदेव परमवत्त्वज्ञानं, ज्ञानं तदेव ध्येयभूतशुद्धपारिणामिकभावरूपं, तदेव ध्यानभावताम्यस्वरूपं, तदेव शुद्धचारित्र्यं, तदेवान्तस्मत्त्वं, तदेव परमवत्त्वं, तदेव शुद्धात्मद्रव्यं, तदेव परमव्योतिः, सैव शुद्धात्मानुभूतिः, सैवात्मप्रतीतिः, सैवात्ममन्विनिः, सैव स्वरूपोपलब्धिः, स एव नित्योपलब्धिः, स एव परमममाधिः, स एव परमानन्दः, स एव नित्यानन्दः, स एव महज्ञानन्दः, स एव सदानन्दः, स एव शुद्धात्मपदार्थाध्ययनरूपः, स एव परमस्वाध्यायः, स एव निश्चयमोक्षोपायः, स एव चैकाग्रिकतानिरोधः, स एव परमयोगः, स एव शुद्धोपयोगः, स एव परमयोगः, स एव भूतार्थः, स एव परमार्थः, स एव निश्चयपद्माचारः, स एव समयसारः, स एवाध्यात्मसारः, तदेव समतादिनिश्चयपदावश्यकस्वरूपं, तदेवाभेदरक्षणस्वरूपं, तदेव द्योतरागसामाधिकं, तदेव परमशरीरोत्तममन्त्रं, तदेव केवलज्ञानोत्पत्तिकारणं, तदेव सकलकर्मक्षयकारणं, सैव निश्चयपदुर्धिधाराधना,

वही परब्रह्मस्वरूप है, वही परमविष्णुरूप है, वही परमशिवस्वरूप है वही परमबुद्धस्वरूप है, वही परमनिजरस्वरूप है, वही परम निज आत्माकी प्राप्तिरूप लक्षणका भारक जो सिद्ध है उसरूप है, वही निरञ्जनरूप है, वही निर्मल (कर्ममलरहित) स्वरूपका भारक है, वही स्वसंभेदन ज्ञान है, वही परमवत्त्वज्ञान है, वही शुद्धात्माका दर्शन है, वही परम (ब्रह्म) अवस्थास्वरूप है वही परमात्माका दर्शन है, वही परम तत्त्वज्ञान है, वही शुद्धात्मज्ञान है, वही ध्यान करनेयोग जो शुद्ध पारिणामिकभाव है उस रूप है, वही ध्यानभावस्वरूप है वही शुद्ध चारित्र्य है, वही अन्तरंगका तत्त्व है, वही परम (ब्रह्म) तत्त्व है, वही शुद्ध आत्मा द्रव्य है, वही परम व्योतिः (ज्ञान) है, वही शुद्ध आत्माकी अनुभूति है, वही आत्मा द्रव्य है, वही आत्माकी प्रतीति है, वही आत्माकी मन्विनि अर्थात् साक्षात्कार है, वही निजआत्मस्वरूपकी प्राप्ति है, वही नित्य पदार्थकी प्राप्ति है, वही परम समाधि है, वही परम आनन्द है, वही नित्य आनन्द है, वही स्वभावसे उत्पन्न बुद्ध आनन्द है, वही सदानन्द है, वही शुद्ध आत्मपदार्थके अध्ययन स्वरूपका भारक है वही परम स्वाध्याय है, वही निश्चय मोक्षका उपाय है, वही चैकाग्रिकतानिरोध है, वही परमज्ञान है, वही शुद्ध उपयोग है, वही परम योग है, वही भूतार्थ है, वही परमार्थ है, वही निश्चयपदके अनुसार जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, पर और योगरूप ही प्रकारका आचार है उस स्वरूप है, वही समयसार है, वही अध्यात्मसार है, वही समता आदिरूप जो निश्चयपदसे है आवश्यक है उन स्वरूप है, वही अवेद रक्षणस्वरूप है, वही द्योतराग सामाधिक है, वही परमशरीरोत्तम मन्त्र है, वही केवल ज्ञानोत्पत्तिक

दा होइ' तस्मान् कारणात् तपश्रुतप्रदानां संबन्धेन यत्प्रितयं तत् प्रितये रता सर्वकाले
वत हे भव्याः किमर्थं ? तस्य ध्यानस्य अन्विस्तल्लक्षित्वात्तदर्थमिति । तथाहि-अनज्ञानव-
िदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविधिच्छायासनकायक्लेशभेदेन ध्यायं पद्विधं, तथैव
ायश्चित्तिनयवैध्यावृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्यानभेदेनाऽऽभ्यन्तरमपि पद्विधं चेति द्वादशविधं
पः । तेनैव साध्यं शुद्धात्मस्वरूपे प्रतपनं विजयनं निश्चयतपश्च । तथैवाचारापनादि-
व्यश्रुतं, तदाधारेणोत्पन्नं निर्विकारस्वसंवेदनज्ञानरूपं भावश्रुतं च । तथैव च हिंसानृत-
तेयाप्रक्षपरिग्रहाणां द्रव्यभावरूपाणां परिहरणं प्रतपश्रुतं चेति । एवमुच्छलजननपःश्रुत-
तसहितो ध्याता पुरुषो भवति । एयमेव ध्यानसामग्री चेति । तथाचोक्तं—“वैराग्यं
तत्त्वविज्ञानं नैर्ग्रन्थं समचित्तता । परीपहृजश्चेति पश्यैते ध्यानहेतवः । १ ।

इस ध्यानकी प्राप्तिके अर्थ तप श्रुत और श्रुतोंके संबंधमें जो प्रितय है मन प्रितयमें
अर्थात् तपः श्रुत तथा प्रत इन तीनोंके समुदायमें सर्वकाल (निरन्तर) तत्पर होयो । अब
इसीका विशेष वर्णन करते हैं कि-अनज्ञान (छपवासया करना) १, शवसोदर्य (कम
मोजन करना) २, वृत्तिपरिसंख्यान (अटपटी वृत्तिको महण करके भोजन करने जाना)
३, रसपरित्याग (छः रसोंमेंसे एक दो आदि रसोंका त्याग करना) ४, विषच्छायासन
(निर्जन और शुद्ध स्थलमें शयन करना वा बैठना) ५, कायक्लेश (शक्तिके अनुसार शरीरसे
परिभ्रम लेना) ६, इन भेदोंसे छः प्रकारका याज्ञ तप और इसी प्रकार प्रायश्चित्त १, धितय
२, वैद्यावृत्त ३, स्वाध्याय ४, कायोत्सर्ग ५ और ध्यान ६, इन भेदोंसे छः प्रकारका अन्त-
रंग तप ऐसे याज्ञ तथा अभ्यन्तर दोनों तपोंके भेदोंको मिलानेसे बारह प्रकारका
व्यवहारतप है । और इसी व्यवहारतपसे सिद्ध होने योग्य निज शुद्ध ध्यानाके स्वरूपमें
प्रतपन अर्थान् विजय करने रूप निश्चयतप है । इसी प्रकार मूलाधार भगवशो आराधना
आदि द्रव्यश्रुत, तथा इन शास्त्रोंके आधारसे अर्थान् पठन पाठनसे उत्पन्न हुआ और
बिन्दाररहित निज शुद्ध आत्माके जाननेरूप ज्ञानका पारक भावश्रुत है । तथा इतो-
प्रकार द्रव्य और भावरूप जो हिंसा, अनृत (शूद्र), स्त्री (पौरों), अमक (कुमोत)
और परिग्रह है, इनके त्यागरूप पाद्यगत है । ऐसे कहे हुए अज्ञानके पारक जो तप,
श्रुत और प्रत हैं इनसे सहित हुआ पुरा ष्याता (ध्यानकरनेवाला) होता है ।
और इन तप, श्रुत तथा प्रतरूप ही ध्यानकी स्तानमी है । सो ही कहा कि “वैराग्य
१, तत्त्वों का ज्ञान २, याज्ञ अभ्यन्तर रूप दोनों परिपहोसे रहितपना ३, राग और
द्वेषकी रहिततारूप साम्यभावका होना ४, और दर्शन परिपहोका जोडना ५, ये सब
ध्यानके कारण हैं । १ ।”

इदानीं व्यतिरेकदृष्टान्तः कथ्यते-यत्र कस्यापि प्रत्यक्षं तदनुमानविषयमपि न भवति यथा खपुष्पादि, इति व्यतिरेकदृष्टान्तवचनम् । अनुमानविषयाञ्चेति पुनरप्युपनयवचनम् । तस्मात् प्रत्यक्षा भवन्तीति पुनरपि निगमनवचनमिति । किन्त्वनुमानविषयत्वादि-त्यर्थं हेतुः सर्वज्ञस्वरूपे साध्ये सर्वप्रकारेण सम्भवति यतस्ततः कारणात्स्वरूपासिद्धभा-वासिद्धविशेषणाद्यसिद्धो न भवति । तथैव सर्वज्ञस्वरूपं स्वपक्षं विहाय सर्वज्ञाऽभावं विपक्षं न साधयति तेन कारणेन विरुद्धो न भवति । तथैव च यथा सर्वज्ञस-द्भावे स्वपक्षे वर्त्तते तथा सर्वज्ञाभावेऽपि विपक्षेऽपि न वर्त्तते तेन कारणेनाऽनैकान्तिको न भवति । अनैकान्तिकः कोऽर्थो व्यभिचारोति । तथैव प्रत्यक्षादिप्रमाणवाधितो न भवति । तथैव च प्रतिवादिनां प्रत्यसिद्धं सर्वज्ञसद्भावं साधयति तेन कार-णेनाकिञ्चित्करोऽपि न भवति । एवमसिद्धविरुद्धानैकान्तिकाकिञ्चित्करहेतुदोषरहित-त्वात्सर्वज्ञसद्भावं साधयत्येव । इत्युक्तप्रकारेण सर्वज्ञसद्भावे पक्षहेतुदृष्टान्तोपनयनिगम-नरूपेण पञ्चाङ्गमनुमानं ज्ञातव्यमिति ।

किं च यथा लोचनहीनपुरुषस्यादर्शं विद्यमानेऽपि प्रतिबिम्बानां परिह्वानं न भवति,

अब व्यतिरेक दृष्टान्तको कहते हैं-‘जो किसीके भी प्रत्यक्ष नहीं होते वे अनुमानके विषय भी नहीं होते,’ जैसे कि, ‘आकाशके पुष्प’ आदि । यह व्यतिरेक दृष्टान्तका वचन है । और ‘राम रावण आदि अनुमानके विषय हैं’, यह फिर उपनयका वचन है । इसलिये ‘राम रावणादि किसीके प्रत्यक्ष होते हैं’, यह फिर निगमन वाक्य है । और ‘रामराव-णादि किसीके प्रत्यक्ष होते हैं, अनुमानके विषय होनेसे’, यहांपर ‘अनुमानके विषय होनेसे’ यह जो हेतु है वह सर्वज्ञरूप जो साध्य धर्म है उसमें सर्व प्रकारसे रहता है इस कारण यह उक्त हेतु स्वरूपासिद्ध भावासिद्ध तथा विशेषण आदिसे असिद्ध नहीं है । तथा उक्त हेतु-सर्वज्ञरूप जो अपना पक्ष है उसको छोड़कर सर्वज्ञका अभावस्वरूप जो विपक्ष है उसको सिद्ध नहीं करता है; इस कारण विरुद्ध भी नहीं है । और जैसे ‘सर्वज्ञके सद्भावरूप अपने पक्षमें रहता है वैसे सर्वज्ञके अभावरूप विपक्षमें नहीं रहता है; इस कारण उक्त हेतु अनैकान्तिक अर्थात् व्यभिचारी भी नहीं है । और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे वाधित नहीं है; इस लिये कालात्ययापदिष्ट भी नहीं है । तथा सर्वज्ञको न माननेवाले जो भट्ट और चार्वाक हैं, उनके सर्वज्ञके सद्भावको सिद्ध करता है इस कारण अकिञ्चित्कर भी नहीं है । इस प्रकारसे ‘अनुमानका विषय होनेसे’ यह हेतु वचन है सो, असिद्ध; विरुद्ध, अनैकान्तिक, अकिञ्चित्कररूप जो हेतुके दूषण हैं उनसे रहित है; इस कारण सर्वज्ञके सद्भावको सिद्ध करता ही है । इस उक्त प्रकारसे सर्वज्ञके सद्भावमें पक्ष, हेतु, दृष्टान्त, उपनय और निगमन रूपसे पांच अङ्गोंका धारक अनुमान जानना चाहिये ।

और जैसे नेत्रहीन पुरुषको दर्पण (शीशे) के विद्यमान होनेपर भी प्रतिबिम्बोंका

। लोचनस्थानीयसर्वशक्तागुणरहितपुरुषस्यादर्शनस्थानीयवेदशास्त्रे कथितानां प्रतिषिन्ध-
नीयपरमाण्वाद्यनन्तसूक्ष्मपदार्थानां कापि काले परिज्ञानं न भवति । तथाचोक्तं "यन्न
स्ते स्वयं प्रक्षा शास्त्रं तस्य करोति किम् । लोचनाभ्यां चिद्हीनस्य दर्पणः किं करि-
ति ॥ १ ॥" इति संक्षेपेण सर्वज्ञसिद्धिरत्र बोद्धव्या । एवं पदस्य पिण्डस्वरूपस्य ध्याने
यभूतस्य सकलतात्मनो जिनभट्टारकस्य व्याख्यानरूपेण गाथा गता ।

अथ सिद्धसदृशनिजपरमात्मतत्त्वपरमसमस्ताभावशून्यस्य रूपातीतनिश्चयध्यानस्य
स्पर्शेण कारणभूतं मुक्तिगतसिद्धभक्तिरूपं 'णमो सिद्धाणं' इति पदोच्चारणलक्षणं यत्-
यं ध्यानं तस्य ध्येयभूतं सिद्धपरमेष्ठिस्वरूपं कथयतिः—

णट्टट्टकम्मदेहो लोयालोपस्म जाणओ दट्टा ।

पुग्गिमायारो अप्पा सिद्धो ज्ञाण्ह लोयसिहरत्थो ॥ ५१ ॥

व्याख्या । 'णट्टट्टकम्मदेहो' शुभाशुभमनोवचनकायक्रियारूपस्य ह्येतद्व्यभिचयेयकर्म-

न नहीं होता है, इसीप्रकार नेत्रोंके न्यानभूत जो सर्वशक्तात्म्य गुण है उससे रहित
जको दर्पणके स्थानभूत जो वेदशास्त्र है उसमें कोईए जों प्रतिषिद्धोंके न्यानभूत
रमाणु आदि अनन्त सूक्ष्म पदार्थ हैं उनका किसी भी कालमें ज्ञान नहीं होता है ।
। हो कहा है कि—"जिस पुरुषके स्वयंबुद्धि नहीं है उसका शास्त्र क्या उपकार कर सकता
? क्योंकि नेत्रोंसे रहित पुरुषके दर्पण क्या उपकार करेगा ? भावार्थ—जैसे नेत्रहीन
रूपको दर्पणसे कुछ लाभ नहीं इसीप्रकार बुद्धिहीन पुरुषको शास्त्रसे कोई लाभ नहीं
। १। इस प्रकार यहाँ संक्षेपसे सर्वशकी सिद्धि जानना चाहिये । ऐसे पदस्य, पिण्डस्य
वैर रूपस्य इन तीनों ध्यानोंमें ध्येयभूत (ध्यान करने योग्य) जो सकल आत्माके
गारक भो जिनेन्द्र भट्टारक हैं, उनके व्याख्यानरूपसे यह गाथा समाप्त हुई ॥ १० ॥

अथ सिद्धोंके समान जो परमात्मस्वरूप है; उनमें परममस्ताभावतां भावतां धारण करनेकर
जो रूपातीत नामक निश्चय ध्यान है; उस रूपातीत ध्यानसे परंपराने चारणभूय-मुक्तिमें
प्राप्त हुए जो सिद्ध परमेष्ठी हैं, उनकी भक्तिरूप—"णमो सिद्धाणं" इस पदके योग्यरूप
लक्षणका धारक जो पदस्यध्यान है, उस पदस्यध्यानके ध्येयभूत जो सिद्धपरमेष्ठी हैं;
उनके स्वरूपका कथन करते हैं—

गाथाभावार्थः—णट्ट ट्टकम्म देह इति, लोचनस्थानीयसर्वशक्तागुणरहितपुरुषस्यादर्शनस्थानीयवेदशास्त्रे कथितानां प्रतिषिद्धनीयपरमाण्वाद्यनन्तसूक्ष्मपदार्थानां कापि काले परिज्ञानं न भवति । तथाचोक्तं "यन्न स्ते स्वयं प्रक्षा शास्त्रं तस्य करोति किम् । लोचनाभ्यां चिद्हीनस्य दर्पणः किं करिति ॥ १ ॥" इति संक्षेपेण सर्वज्ञसिद्धिरत्र बोद्धव्या । एवं पदस्य पिण्डस्वरूपस्य ध्याने यभूतस्य सकलतात्मनो जिनभट्टारकस्य व्याख्यानरूपेण गाथा गता ।

व्याख्याः—'णट्टट्टकम्मदेहो' शुभाशुभमनोवचनकायक्रियारूपस्य ह्येतद्व्यभिचयेयकर्म-
नहीं इस शब्दसे बूढ़े जाने योग्य जो कर्मोंका लोच (मनुष्य) है उसका नाम करनेमें

पनात्ताविकल्पजालत्यागेन त्रिगुमिलक्षणरूपातीतध्याने स्थित्वा प्यायत हे भव्या
मिति ॥ ५१ ॥ एवं निष्कलसिद्धपरमेष्ठिन्याख्यानेन गाथा गता ॥

अथ निरुपाधिगुह्यात्मभावनातुभूर्यषिनाभूतनिश्चयपञ्चापारलक्षणस्य निश्चयध्यानस्य
परया कारणभूतं निश्चयव्यवहारपञ्चाचारपरिणताचार्यभक्तिरूपं 'णमो आयरियाणं'
पदोच्चारणलक्षणं यत्पदस्यध्यानं तस्य ध्येयभूतमाचार्यपरमेष्ठिनं कथयति:—

दंसणणाणपहाणे वीरियचारित्तवरतवायारे ।

अप्पं परं च जुंजइ सो आयरिओ मुणी ज्ञेओ ॥ ५२ ॥

'दंसणणाणपहाणे वीरियचारित्तवरतवायारे' मन्त्रदर्शनज्ञानप्रधाने वीरियचारिप्रवरत-
परणाचारेऽधिकरणभूते 'अप्पं परं च जुंजइ' आत्मानं परं शिष्यजनं च योऽमी
जयति सम्वन्धं करोति 'सो आयरियो मुणी ज्ञेओ', स उक्तलक्षण आचार्यो मुनिव-
चनो ध्येयो भवति । तथा हि—भूतार्थनयविषयभूतः शुद्धसमयसारदाब्दवान्त्यो भाव-
रहित्यकर्मनोकर्मादिसमस्तपरद्रव्येभ्यो भिन्नः परमचैतन्यविलासलक्षणः स्वगुहालौचो-
देय इति रुचिररूपसम्यग्दर्शनं, तत्राचरणं परिणमनं निश्चयदर्शनाधारः । तस्यैव गुह्या-

पूर्ण मनोरथोरूप अनेक विकल्पोंका समूह उसका त्याग करके और मन, वचन वया
य इन तीनोंकी गुप्तिस्वरूप जो रूपातीत ध्यान है उसमें स्थित होकर ध्यायी ॥ ५१ ॥

अब उपाधिरहित जो शुद्ध आत्माकी भावना तथा अनुभूति (अनुभव) का साक्षा-
त्कार है उसमें व्याप्तिको धारण करनेवाला जो निश्चय नयानुसार पांच प्रकारका आचार
ही है लक्षण जिसका ऐसा जो निश्चयध्यान उस निश्चयध्यानका परंपरासे कारणभूत,
निश्चय तथा व्यवहार इन दोनों प्रकारके पांच आचारोंमें परिणत (तत्पर या तत्ज्ञान) ऐसे
पांच आचार्य परमेष्ठो उनकी भक्तिरूप और "णमो आयरियाणं" इस पदके उच्चारण
करने (बोलने) रूप लक्षणका धारक ऐसा जो पदस्यध्यान है उस पदस्यध्यानके
परमभूत जो आचार्य परमेष्ठो हैं उनके स्वरूपका निरूपण करते हैं—

गाथाभावार्थः—इहोनाचार १, ज्ञानाचार २, वीर्याचार ३, चारिआचार ४ और यत्-
परणाचार ५ इन पांचों आचारोंमें जो आप भी तत्पर होते हैं और अन्य तिरनोंकी भी
ज्ञाते हैं ऐसे आचार्य-मुनि ध्यान करने योग्य हैं ॥ ५२ ॥

ध्यायार्थः—"दंसणणाणपहाणे वीरियचारित्तवरतवायारे" अणमभूत सम्यग्-
दर्शनाधार और सम्यग्ज्ञानाधार है प्रधान जिसमें ऐसे वीर्याचार चारिआचार और व्यवहार-
आधारमें "अप्पं परं च जुंजइ" अपनी आत्माकी और अन्य शिष्यजनकी जो उपाधि है
'णो आयरिओ मुणी ज्ञेओ' के पूर्वांश लक्षणधारे आचार्य वचननयन करने का
उद्देश है । इसीका विचारकरने योग्य करते हैं कि, भूतार्थ (निश्चय) नयका निश्चयभूत,

त्मनो निरुपाधिस्वसम्बेदनलक्षणभेदज्ञानेन मिथ्यात्वरागादिपरभावेभ्यः प्रथक्परिच्छेदनं सम्यक्ज्ञानं, तत्राचरणं परिणमनं निश्चयज्ञानाचारः । तत्रैव रागादिविकल्पोपाधिरहित-स्वाभाविकसुखास्वादेन निश्चलचित्तं वीतरागचारित्रं, तत्राचरणं परिणमनं निश्चयचारि-त्राचारः । समस्तपरद्रव्येच्छानिरोधेन तथैवानशनादिद्वादशतपश्चरणवहिरङ्गसहकारिका-रणेन च स्वस्वरूपे प्रतपनं विजयनं निश्चयतपश्चरणं, तत्राचरणं परिणमनं निश्चयतपश्चर-णाचारः । तस्यैव निश्चयचतुर्विधाचारस्य रक्षणार्थं स्वशक्त्यनवगूहनं निश्चयवीर्याचारः । इत्युक्तलक्षणनिश्चयपञ्चाचारे तथैव "छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचारकरणसन्दरिसे । सिस्साणुगहकुसले धम्मयारिए सदा वंदे । १ ।" इति गाथाकथितक्रमेणाचाराधना-दिचरणशास्त्रविस्तीर्णवहिरङ्गसहकारिकारणभूते व्यवहारपञ्चाचारे च स्वं परं च योजय-

‘शुद्धसमयसार’ इस शब्दसे कहने योग्य, भावकर्म-द्रव्यकर्म-नोकर्म आदि जो समस्त पर पदार्थ हैं उनसे भिन्न; और परमचैतन्यका विलासरूप लक्षणका धारक ऐसा जो निज शुद्ध आत्मा है वही उपादेय (ग्रहण करने योग्य) है, इस प्रकारकी रुचि होनेरूप सम्यग्दर्शन है; उस सम्यग्दर्शनमें जो आचरण अर्थात् परिणमन करना है उसको निश्चयदर्शनाचार कहते हैं । १ । उसी शुद्ध आत्माका जो उपाधि रहित स्वसंबेदन (अपने जानने) रूप भेदज्ञानद्वारा मिथ्यात्व राग आदि परभावोंसे भिन्न जानना है वह सम्यग्ज्ञान है; उसमें जो आचरण (परिणमन) करना अर्थात् लगना है वह निश्चयज्ञानाचार है । २ । उसी शुद्ध आत्मामें राग आदि विकल्पोंरूप उपाधिसे रहित जो स्वभावसे उत्पन्न हुआ सुख है उसके आस्वादसे निश्चल चित्तका करना है उसको वीतरागचारित्र कहते हैं; उसमें जो आचरण करना है वह निश्चयचारित्राचार कहलाता है । ३ । समस्त परद्रव्योंमें इच्छाके रोकनेसे, इसीप्रकार अनशन, अवमौर्दर्य आदि वारह प्रकारके तपको करनेरूप बहिरंग-सहकारीकारणसे जो निज स्वरूपमें प्रतपन अर्थात् विजयन है वह निश्चयतपश्चरण कह-लाता है । उसमें जो आचरण अर्थात् परिणमन है उसको निश्चयतपश्चरणाचार कहते हैं । ४ । इन पूर्वोक्त दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपश्चरणरूप भेदोंसे चार प्रकारका जो निश्चय आचार है; उसकी रक्षाके लिये जो अपनी शक्ति (ताकत) का नहीं छिपाना है वह निश्चयवीर्याचार है । ५ । ऐसे कहे हुए लक्षणोंका धारक जो निश्चयनयसे पांच प्रकारका आचार है उसमें, और इसीप्रकारसे "छत्तीस गुणोंसे सहित, पांच प्रकारके आचारको करनेका उपदेश देनेवाले, तथा शिष्योंपर अनुग्रह (कृपा) रखनेमें चतुर ऐसे जो धर्माचार्य हैं उनको मैं सदा वंदता हूं । १ ।" इस गाथामें कहे हुए क्रमके अनुसार मूलाचार, भगवती आराधना आदि चरणानुयोगके शास्त्रोंमें विस्तारसे कहे हुए बहिरंग-सहकारोकारणों रूप जो व्यवहारनयसे पांच प्रकारका आचार है उसमें जो अपनेको तथा परको लगाते हैं अर्थात् आप उस पांचाचारको साधते हैं और दूसरोंको साधते हैं वे

‘नुष्ठाने सम्यन्धं करोति स आचार्यो भवति । स च पदस्थध्याने ध्यातव्यः । इत्यापा-
परमेष्ठिन्याख्यानेन सूत्रं गतम् ॥ १२ ॥

अथ स्वशुद्धात्मनि शोभनमध्यागोऽभ्यासो निश्चयस्वाध्यायगतज्ञाननिश्चयध्यानस्य
भारम्पर्येण कारणभूतं भेदाभेदरत्नत्रयादितन्त्रोपदेशकं परमोपाध्यायभक्तिरूपं ‘णमो ष्य-
ज्ञायाणं’ इति पदोच्चारणलक्षणं यम् पदस्थानं, तस्य ध्येयभूतगुणाध्यायमुनीश्वरं कथयति—
जो रयणत्तयजुत्तो णिधं धम्मोवदेसणे णिरदो ।

सो उवज्झायां अप्पा जदिवरत्तसहो णमो तस्स ॥ ५३ ॥

व्याख्या—‘जो रयणत्तयजुत्तो’ योऽसौ ब्राह्मण्यन्तररत्नत्रयात्तुष्ठानेन युक्तः परिशुद्धः ।
‘णिधं धम्मोवदेसणे णिरदो’ पद्मद्रव्यपञ्चासिकायसप्ततत्त्वनवपदार्थेषु भाष्ये स्वशुद्धात्म-
द्रव्यं स्वशुद्धजीवास्तिकायं स्वशुद्धात्मतत्त्वं स्वशुद्धात्मपदार्थभेदोपादेयं शेषं च हेतुं, तर्कयो-
चामक्षमादिधर्मं च नित्यगुणदिशति योऽसौ स नित्यं धर्मोपदेशने निरतो भवति । ‘सो
ष्यज्झायां अप्पा’ स चैतन्मूढ आत्मा उपाध्याय इति । पुनरपि किञ्चिद्विशिष्टः—‘जदिवर-

आचार्य कहलाते हैं । और वे आचार्य परमेष्ठो पदस्थध्यानमें ध्यान करने योग्य हैं ॥
इसप्रकार आचार्यपरमेष्ठोके व्याख्यानसे १ गाथासूत्र समाप्त हुआ ॥ १२ ॥

अथ निज शुद्ध आत्मामें जो एवम (चारंचार) अभ्यास करना है उसको निश्चय
स्वाध्याय कहते हैं । इस निश्चयस्वाध्यायरूप स्वरूपका भारक जो निश्चयध्यान है इसके
परंपरासे कारणभूत, भेद अभेदरूप रत्नत्रय आदि तत्त्वोंका उपदेश करनेवाले और परम-
उपाध्यायभक्तिरूप “णमो उवज्झायाणं” इस पदके उच्चारणरूप पदस्थध्यानके ध्येयभूत
(ध्यान करने योग्य) ऐसे जो उपाध्याय परमेष्ठो हैं उनके स्वरूपका कथन करते हैं—

गाथाभाषार्थः—जो सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यरूप रत्नत्रयमें महिम्न हैं; निरन्तर
धर्मका उपदेश देनेमें तत्पर हैं; वह आत्मा मुनीश्वरोंमें प्रथम उपाध्याय परमेष्ठो कहलाता
है । इसलिये उसके अर्थ में नमस्कार करता हूँ ॥ १३ ॥

व्याख्या—“जो रयणत्तयजुत्तो” जो भाष्य गता आन्वयानुरूप रत्नत्रयके
अनुष्ठान (भाषने) में युक्त हैं अर्थात् निश्चय-उपयहारत्नत्रय रत्नत्रयके साधनेमें लगे
हुये हैं, “णिधं धम्मोवदेसणे णिरदो” जोक, कर्त्तव्यादि ताः द्रव्य, वाच्य अस्तित्वाय,
साध तत्त्व और मो पदार्थोंमें निज-शुद्ध आत्मद्रव्य, निज-शुद्ध जीवास्तिकाय, निज-शुद्ध
आत्मतत्त्व और निज-शुद्ध आत्मतत्त्वों ही उपदेश है; अथ सब ज्ञानमें योग्य है; इस
विषयका एवा इतीवहार इत्यम समा आदि दस धर्मोंका जो निरन्तर उपदेश देते हैं । वे
निज धर्मोपदेश देनेमें तत्पर कहलाते हैं; इस कारण निज धर्मोपदेशमें तत्पर ऐसे
“अप्पा” आत्मा है; वे “जदिवरत्तसहो” पावों इतिशेषके विषयोंको श्रद्धामें निज-
शुद्ध आत्मामें सबक करनेमें तत्पर ऐसे कहिले (तुनीश्वरों) के ध्यानमें हुए व अर्थात्

वसहो' पञ्चेन्द्रियविषयजयेन निजशुद्धात्मनि यन्नपराणां यतिवराणां मध्ये वृषभः प्रवानो यतिवरवृषभः । 'णमो तस्स' तस्मै द्रव्यभावरूपो नमो नमस्कारोऽस्तु । इत्युपाध्यायपरमेष्ठिन्याख्यानरूपेण गाथा गता ॥ ५३ ॥

अथ निश्चयरत्नत्रयात्मकनिश्चयध्यानस्य परम्परया कारणभूतं बाह्याभ्यन्तरमोक्षमार्ग-साधकं परमसाधुभक्तिरूपं 'णमो लोए सब्वसाहूणं' इति पादोच्चारणजपध्यानलक्षणं यत् पदस्थध्यानं तस्य ध्येयभूतं साधुपरमेष्ठिस्वरूपं कथयतिः—

दंसणणाणसमग्गं मग्गं मोक्खस्स जो हु चारित्तं ।

साधयदि णिच्चसुद्धं साहू स मुणी णमो तस्स ॥ ५४ ॥

व्याख्या—'साहू स मुणी' स मुनिः साधुर्भवति । यः किं करोति—'जो हु साधयदि' यः कर्ता हु स्फुटं साधयति । किं 'चारित्तं' चारित्र्यं । कथम्भूतं 'दंसणणाणसमग्गं' वीतरागसम्यग्दर्शनज्ञानाभ्यां समग्रं परिपूर्णम् । पुनरपि कथम्भूतं 'मग्गं मोक्खस्स' मार्गभूतं । कस्य मोक्षस्य । पुनश्च किं रूपं 'णिच्चसुद्धं' नित्यं सर्वकालं शुद्धं रागादिरहितम् । 'णमो तस्स' एवंगुणविशिष्टो यस्तस्मै साधवे नमो नमस्कारोस्त्विति । तथाहि—'उद्यो-तनमुद्योगो निर्वहणं साधनं च निस्तरणम् । दृगवगमचरणतपसामाख्याताराधना सद्भिः ।

प्रधान ऐसे "उवज्झाओ" उपाध्याय परमेष्ठो हैं । "णमो तस्स" उन उपाध्याय परमेष्ठियोंके अर्थ मेरा द्रव्य तथा भावरूप नमस्कार हो । इस प्रकार उपाध्याय परमेष्ठिके व्याख्यानसे एक गाथासूत्र पूर्ण हुआ ॥ ५३ ॥

अब निश्चयरत्नत्रयस्वरूप जो निश्चयध्यान है उसके परम्परासे कारणभूत, बाह्य तथा अभ्यन्तररूप मोक्षमार्गके साधनेवाले और परमसाधुभक्तिस्वरूप जो "णमो लोए सब्व-साहूणं" यह पद है, इसके बोलने-जाप करने और ध्यान करनेरूप लक्षणका धारक जो पदस्थ ध्यान है उसके ध्येयभूत ऐसे जो साधु परमेष्ठो हैं उनके स्वरूपका निरूपण करते हैं—

गाथाभावार्थः—जो दर्शन और ज्ञानसे पूर्ण, मोक्षका मार्गभूत, सदा शुद्ध ऐसे चारित्र्यको प्रकटरूपसे साधते हैं वे मुनि साधु परमेष्ठो हैं, उनके अर्थ मेरा नमस्कार हो ॥१४॥

व्याख्यार्थः—"जो" जो 'हु' भले प्रकारसे "दंसणणाणसमग्गं" वीतराग सम्यग्दर्शन और ज्ञानसे परिपूर्ण "मग्गं मोक्खस्स" मोक्षका मार्ग (कारण) भूत, "णिच्चसुद्धं" सदा शुद्ध अर्थात् राग द्वेषादि रहित ऐसे "चारित्तं" चारित्र्यको "साधयदि" साधते हैं "साहू स मुणी" वे मुनि साधु हैं । "णमो तस्स" इन पूर्वोक्त गुणोंसे सहित जो हैं उन साधु परमेष्ठियोंके अर्थ नमस्कार हो । सो ही स्पष्टरूप से दिखताते हैं कि—दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य और तप इनका जो उद्योतन, उद्योग, निर्वहण, साधन और निस्तरण है उसको सत् पुरुषोंने आराधना कहा है । १॥ इस आयालन्दसे कहा हुई जो बहिरंग-

सत्यवचनपरिहारेऽपि सत्यवचनप्रवृत्तिरस्ति । तथैव चादत्तादानपरिहारेऽपि दत्तादाने प्रवृत्तिरस्तीत्याद्येकदेशप्रवृत्त्यपेक्षया देशप्रवृत्तौ तेषामेकदेशप्रवृत्तौ त्रिगुणित्वात्प्रवृत्तिरूपसमाधिकाले त्यागः । न च समस्तशुभाशुभनिवृत्तिलक्षणस्य निश्चयप्रवृत्तेः । त्यागः कोऽर्थः । यथैव हिंसादिरूपाप्रवृत्तेषु निवृत्तिस्तथैकदेशप्रवृत्तेषुपि । कस्मादिति चेत्—त्रिगुणावस्थायां प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपविकल्पस्य स्वयमेवापेक्षायां नास्ति । अथवा यन्तुवन्तदेव निश्चयप्रवृत्तम् । कस्मान्—सर्वनिवृत्तित्वादिति । योऽपि पट्टिकाद्वयेन मोक्षं गतो भरतश्चको संऽपि जिनदीक्षां गृह्यत्वा विषयकप्रायनिवृत्तिरूपं क्रममात्रं प्रवृत्तिरिणानं कृत्वा पञ्चाङ्गु-दोषयोगस्यरूपरत्नप्रयात्मके निश्चयप्रवृत्ताभिधाने यौतरागसामाधिक्यं निर्विकल्पकमाधो स्थित्वा केवलमानं लक्ष्यवानिति । परं किन्तु तस्य स्तोत्रकाव्ययाहोका प्रवृत्तिरिणानं न जानन्तीति । तदेव भरतस्य दीक्षाविधानं कथ्यते । हे भगवन् जिनदीक्षादानानन्तरं

हे इनका स्वीकार ही किया गया है और त्याग नहीं किया गया है । प्रसिद्ध जो अहिंसादि महाप्रवृत्त हैं वे एकदेशरूप कैसे हो गये ? ऐसी संका करो तो समाधानरूप यह यह है कि, अहिंसा महाप्रवृत्तमें यद्यपि जीवोंके पात (मारने) में निवृत्ति (रहितपना) है; तथापि जीवोंकी रक्षा करनेमें प्रवृत्ति है । इसी प्रकार सत्य महाप्रवृत्तमें यद्यपि असत्य वचनका त्याग है, तो भी सत्यवचनमें प्रवृत्ति है । और असीममहाप्रवृत्तमें यद्यपि नहीं दिये हुए पदार्थके ग्रहण करनेका त्याग है, तो भी दिये हुए पदार्थके ग्रहण करनेमें प्रवृत्ति है । इत्यादि एकदेशप्रवृत्तिकी अपेक्षासे ये पाँचों महाप्रवृत्त प्रवृत्त हैं । इन एकदेशरूप प्रवृत्तोंका मन, वचन और कायकी गुणि स्वस्व जो विकल्परहित स्थान है उसके समन्वये स्थान है । और समस्त शुभ तथा अशुभकी निवृत्तिरूप जो निश्चयप्रवृत्त है उसका त्याग नहीं है । प्रश्न—त्याग इस शब्दका क्या अर्थ है ? उत्तर—जैसे हिंसा अहिंसा रूप पाँच अत्रवृत्तोंमें रहितपना है वसी प्रकार जो अहिंसा आदि प्रवृत्तमहाप्रवृत्त एकदेश प्रवृत्त हैं उनमें रहितपना है नहीं वहाँ त्याग शब्दका अर्थ है इन एकदेशप्रवृत्तोंका त्याग किस कारणसे होता है ? ऐसा पूछो तो उत्तर यह है कि, मन, वचन और काय इन तीनोंकी गुणिरूप जो अवस्था है; इनमें प्रवृत्ति तथा निवृत्तिरूप जो विकल्पर है; वरका स्वयं ही अवस्था नहीं है, अर्थात् मन, वचन और कायकी गुणिरूप प्रधानमें कोई प्रकारका भी विकल्प नहीं होगा और अहिंसादि महाप्रवृत्त विकल्परूप हैं इसलिये वे त्रिगुणिकमें प्रधानरूप नहीं रह सकते हैं । और जो दीक्षापि पञ्चाङ्गु को पट्टिका (पत्र) प्रवृत्तकालमें ही सीमरतपञ्चवर्ती मोक्ष पत्रके ही प्रवृत्ति में जिनदीक्षाकी प्रवृत्त पत्रके, इत्यमत्र (मोक्षे समवतक) विषय और पत्रापीकी रहितपना जो प्राक्का परिणाम है वरकी वरके तापमान्, सुतोषयोमस्व जो वरतप वर स्वस्व जो निश्चयप्रवृत्त कायका भारक और यौतरागसामाधिक्य नामका भारक निर्विकल्पक स्थान है वरमें मिलत होकर वे वरतपकी प्रवृत्त रूप हैं । परन्तु सीमरतकी ही योही समस्त प्रवृत्तियाम यह इय

भरतचक्रिणः कियति काले केवलज्ञानं जातमिति श्रीवीरवर्द्धमानस्वामितीर्थकरपरमदेव-
समवसरणमध्ये श्रेणिकमहाराजेन पृष्टे सति गौतमस्वामी आह—“पञ्चमुष्टिभिस्त्पाद्य
त्रोष्ट्यन् बन्धस्थितीन् क्वचान् । लोचानन्तरमेवापद्राजन् श्रेणिक केवलम् । १।”

अत्राह शिष्यः । अद्य काले ध्यानं नास्ति । कस्मादिति चेत्—उत्तमसंहननाभावाद्-
शक्तुर्दशपूर्वगतश्रुतज्ञानाभावाच्च । अत्र परिहारः । शुक्लध्यानं नास्ति धर्मध्यानमस्तीति ।
तथा चोक्तं मोक्षप्राभृते श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदेवैः “भरहे दुस्समकाले धम्मज्झाणं ह्वेइ
णाणिसस । तं अप्पसहावठिए ण हु मण्णइ सो दु अण्णाणी । १ । अज्जवि तियरणसुद्धा
अप्पा ज्झाऊण ल्हइ इंदत्तं । लोयंतियदेवत्तं तत्थचुदा णिच्चुदिं जंतं । २।” तथैव
तत्त्वानुशासनग्रन्थे चोक्तं “अत्रेदानीं निषेधन्ति शुक्लध्यानं जिनेत्तमाः । धर्मध्यानं पुनः
प्राहुः श्रेणीभ्यां प्राग्विचिन्तानाम् । १ ।” यथोक्तमुत्तमसंहननाभावात्तदुत्सर्गवचनम् ।—

कारण लोग श्रीभरतजीके व्रतपरिणामको नहीं जानते हैं । अब उसी श्रीभरतजीकी दीक्षाके
विधानका कथन करते हैं । श्री वीर वर्द्धमानस्वामी तीर्थकर परमदेवके समवसरणमें
श्रेणिक महाराजने प्रश्न किया कि ‘हे भगवन् ! श्रीभरतचक्रवर्तीके जिनदीक्षाको ग्रहण
करनेके पीछे कितने कालमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ’ इस पर श्रीगौतमस्वामी गणधरदेवने
उत्तर दिया कि ‘हे श्रेणिक राजन् ! बन्धके कारणभूत जो केश (बाल) हैं उनको
पांच मुष्टियोंसे उखाड़कर तोड़ते हुए ही अर्थात् पंचमुष्टी लोच करनेके अनन्तर ही श्री
भरतचक्रवर्ती केवलज्ञानको प्राप्त हुए । १ ।’

अब यहांपर शिष्य कहता है कि, भो गुरो ! इस पंचम कालमें ध्यान नहीं है । क्यों
नहीं है ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि इस कालमें उत्तमसंहननका अर्थात् वज्र, वृषभ
और नाराच संहननोंका अभाव है और दश तथा चौदहपूर्व पर्यन्त श्रुतज्ञानका अभाव है ।
अब आचार्य महाराज इस शिष्यकी शंकाको दूर करते हैं कि, हे शिष्य ! इस समयमें
शुक्लध्यान नहीं है परंतु धर्मध्यान तो है ही है । सो ही श्रीकुन्दकुन्द आचार्यस्वामी मोक्ष-
प्राभृते (मोक्षपाहुड)में कहते हैं कि, “भरतक्षेत्रमें जो दुःषमा अर्थात् पंचमकाल है
उसमें ज्ञानी जीवके धर्मध्यान होता है । उसको जो कोई आत्माके स्वभावमें स्थित नहीं
मानता है वह अज्ञानी है । १ । क्योंकि इस समय भी जो सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान
और सम्यक्चारित्ररूप रत्नत्रय है उससे शुद्ध हुए जीव आत्माका ध्यान करके इन्द्रप-
नेको अथवा लोकान्तिकदेवपनेको प्राप्त होते हैं । और वहांसे चयकर नरपर्यायको ग्रहण
करके उसी भवमें मोक्षको जाते हैं । २ ।” और इसीप्रकार तत्त्वानुशासन नामक
ग्रन्थमें भी कहा है कि, “इस समय (पंचमकाल)में श्रीजिनेन्द्रदेव शुक्लध्यानका निषेध
करते हैं; अर्थात् इस समयमें शुक्लध्यान नहीं होता ऐसा उपदेश देते हैं; और उपशम-
श्रेणी तथा क्षपकश्रेणी इन दोनों श्रेणियोंसे पहले रहनेवाले जीवोंके धर्मध्यान होता है
ऐसा कथन करते हैं । १ ।” और हे शिष्य ! तुमने जो यह कहा कि ‘इस कालमें उत्तम

अपवादव्याख्यानानेन पुनरुपशमक्षपकक्षेण्योः शुक्लध्यानं भवति. तयोच्चमसंहतनेनेष । अपूर्वगुणस्थानाद्घस्तनेषु गुणस्थानेषु धर्मध्यानं, तथादिमतिक्रोचमसंहतनाभावेऽपन्ति-
तत्रियसंहतनेनापि भवति । तदप्युक्तं तत्रैव तत्त्वानुशासने "यत्पुनर्ग्रहकायस्य ध्यान-
मेत्यामने वचः । क्षेण्योर्ध्यानं प्रतीत्योक्तं तन्नोऽपन्तानिपेक्षकम् । १ । ययोक्तं दशचतुर्दश-
प्रसंगतश्रुतस्थानेन ध्यानं भवति तदप्युक्तसंगेष्वनम् । अपवादव्याख्यानानेन पुनः पञ्चम-
मितिप्रिगुमिप्रतिपादकसारभूतधुतेनापि ध्यानं भवति केवलज्ञानस्य । यतोऽवगमपवाद-
व्याख्यानं नास्ति तर्हि "तुल्यमासं घांसन्तो सिवभूदो देवलो जादो" इत्यादिग्रन्थयो-
गपनादिभणितं व्याख्यानं कथं पठते ?

अथ मत्त-पञ्चसमितिप्रिगुमिप्रतिपादकं द्रव्यधुतमिति जानाति । इदं भावधुतं पुनः
सर्वमस्ति । नैवं वक्तव्यम् । यदि पञ्चसमितिप्रिगुमिप्रतिपादकं द्रव्यधुतं जानाति तर्हि
'मा रूसद् मा नूसद्' इत्येकं पदं किं न जानाति ? तत एव हायतेऽपप्रवचनमाहृपनाश-
नेव भावधुतं, द्रव्यधुतं पुनः किमपि नास्ति । इदन्तु व्याख्यानमरमाभिन कल्पितनेष ।

संहतनका अभाव है इस कारण ध्यान नहीं होता' सो यह उत्सर्गवचन है । अपवादरूप
व्याख्यानसे तो उपशमक्षेणी तथा क्षपकक्षेणीमें शुक्लध्यान होता है और यह उपाससंहतन
से ही होता है । और अपूर्वकरण नामक ८ वें गुणस्थानसे नीचेके जो गुणस्थान हैं
उनमें धर्मध्यान होता है । और यह धर्मध्यान वरस १, वृषभ २, नाराय ३, इन आदिने
नोन उत्तम संहतनोंका अभाव होनेपर अन्तके जो अर्द्धनाराय १, कीटक २ और
स्फटिक ३ नामक तीन संहतन हैं उनसे भी होता है । यह विषय भी उसी शक्यानुशा-
सन नामक ग्रन्थमें कहा है कि, "और जो वरस काय (संहतन) के भारणके ध्यान
होता है" ऐसा आगममें वचन है यह उपशम तथा क्षपक क्षेण्योके ध्यानको प्रतीतिगो-
चर करके कहा है. इस कारण यह वचन नीचेके गुणस्थानोंमें धर्मध्यानका निषेध कर-
नेवाला नहीं है । तथा जो ऐसा कहा है कि 'दस तथा सौदृष्टपूर्व गत धुतज्ञानसे ध्यान
होता है' यह भी उत्सर्गका वचन है । और अपवादके व्याख्यानसे तो पांच मिति
और तीन मुक्तिको प्रतिपादन करनेवाला सारभूत सुखज्ञान है उसमें भी ध्यान और केव-
लज्ञान होगा है । जो ऐसा अपवाद व्याख्यान न हो तो "तुल्य मापका वदाराज
(अभ्यास) करते हुए सोमिबभूति मुनि केवलज्ञानी होगये" इत्यादि ग्रन्थोंरापनादि
ग्रन्थोंमें कहा हुआ वचन कैसे सिद्ध होवे ?

अब कदाचित् ऐसा मत हो कि, सिवभूति मुनि पांच मिति और तीन मुक्तिको
प्रतिपादन करनेवाले इत्यभूत (उत्सर्ग) को जानते थे और यह भावधुत वचने संदर्भ
असने पर, सो होक नहीं । क्योंकि, यदि सिवभूतिमुनि पांच मिति और तीन मुक्तिको
वचन करनेवाले इत्यभूत (उत्सर्ग) को जानते थे तो उन्होंने "मा रूसद् मा नूसद्"
अर्थात् विषयमें राम और तैल मत हम इस एक पदको क्यों नहीं जानते ? इसी कारणसे

तच्चारित्रसारादिग्रन्थेष्वपि भणितमास्ते । तथाहि—अन्तर्मुहूर्त्तदूर्ध्वं वे केवलज्ञानमुत्पादयन्ति ते क्षीणकषायगुणस्थानवर्त्तिनो निर्ग्रन्थसंज्ञा ऋषयो भण्यन्ते । तेषां चोत्कर्षणचतुर्दशपूर्वादिश्रुतं भवति, जघन्येन पुनः पञ्चसमितित्रिगुप्तिमात्रमेवेति ।

अथ मतं—मोक्षार्थं ध्यानं क्रियते न चाद्य काले मोक्षोऽस्ति; ध्यानेन किं प्रयोजनम् ? नैवं—अद्य कालेऽपि परम्परया मोक्षोऽस्ति । कथमिति चेत्, स्वशुद्धात्मभावनावलेन संसारस्थितिं स्तोकां कृत्वा देवलोकं गच्छति, तस्मादागत्य मनुष्यभवे रत्नत्रयभावनां लब्ध्वा शीघ्रं मोक्षं गच्छतीति । येऽपि भरतसगररामपाण्डवाद्यो मोक्षं गतास्तेपि पूर्वभवेऽभेदरत्नत्रयभावनायां संसारस्थितिं स्तोकां कृत्वा पश्चान्मोक्षं गताः । तद्वेद सर्वेषां मोक्षो भवतीति नियमो नास्ति । एवमुक्तप्रकारेण अल्पश्रुतेनापि ध्यानं भवतीति ज्ञात्वा किं कर्तव्यम्—“बध्वन्धच्छेदादेर्द्वेषाद्रागाद्य परकलत्रादेः । आध्यानमपध्यानं शासति जिनशासने विशदाः । १ । संकल्पकल्पतरुसंश्रयणात्त्वदीयं चेतो निमज्जति मनोरथसागरेऽस्मिन् ।

जाना जाता है कि पांच समिति और तीन गुप्तियों रूप जो आठ प्रवचन मातायें हैं उन प्रमाण ही उनके भावश्रुत था और द्रव्यश्रुत कुछ भी नहीं था । और यह व्याख्यान हमने ही नहीं कल्पित किया है; किंतु 'चारित्रसार' आदि शास्त्रोंमें भी यह वर्णन किया हुआ है । सो ही दिखलाते हैं—अन्तर्मुहूर्त्तके पीछे जो केवलज्ञानको उत्पन्न करते हैं वे क्षीणकषाय नामक १२ वें गुणस्थानमें रहने वाले निर्ग्रन्थ संज्ञाके धारक ऋषी कहलाते हैं, और उनके उत्कृष्टतासे ग्यारह अंग चौदह पूर्वपर्यन्त श्रुतज्ञान होता है, और जघन्यरोतिसे पांच समिति तथा तीन गुप्तियों मात्र ही श्रुतज्ञान होता है ।

अब कदाचित् तुम्हारा यह मत हो कि,—मोक्षके लिये ध्यान किया जाता है और मोक्ष इस पंचम कालमें होता नहीं है इस कारण ध्यानके करनेसे क्या प्रयोजन है । सो यह सिद्धान्त भी ठीक नहीं । क्योंकि, इस पंचमकालमें भी परंपरासे मोक्ष है । परंपरासे मोक्ष कैसे है ? ऐसा पूछा तो उत्तर यह है कि; ध्यानी पुरुष निजशुद्ध आत्माकी भावनाके बलसे संसारकी स्थितिको अल्प करके अर्थात् बहुतसे कर्मोंकी निर्जरा करके स्वर्गमें जाता है । और वहांसे मनुष्यभवमें आकर रत्नत्रयकी भावनाको प्राप्त होकर शीघ्र ही मोक्षको चला जाता है और जो भरतचक्रवर्ती, सगरचक्रवर्ती, रामचंद्रजी तथा पांडव अर्थात् युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम आदि मोक्षको गये हैं; उन्होंने भी पूर्वभवमें अभेदरत्नत्रयकी भावनासे अपने संसारकी स्थितिको घटाळी थी; इस कारण इस भवमें मोक्ष गये । उसी भवमें सबके मोक्ष हो जाता है ऐसा नियम नहीं है । ऐसे कहे हुये प्रकारसे अल्पश्रुतज्ञानसे भी ध्यान होता है । यह जानकर क्या करना चाहिये ? “द्वेषसे बध (मारना) बन्ध (बांधना) छेद (किसी अंगको काटना) आदिका और रागसे परस्त्री आदिका जो चित्तबन करना है; उसको जिनमतमें निर्मल बुद्धिके धारक आचार्य अपध्यान (बुरा ध्यान) कहते हैं । १ । हे जीव संकल्परूपी कल्पवृक्षका आश्रय करनेसे तेरा चित्त इस

भावना पर्यायो भण्यते तर्हि द्रव्यपर्यायरूपधर्मद्वयाधारभूतस्य जीवधर्मिणी मोक्षपर्याये तते सति यथा ध्यानभावनापर्यायरूपेण विनाशो भवति, तथा ध्येयभूतस्य जीवस्य शुद्धपारिणामिकलक्षणभावद्रव्यरूपेणापि विनाशः प्राप्नोति । न च द्रव्यरूपेण विनाशोऽस्ति । ततः स्थितं शुद्धपारिणामिकभावेन वन्यमोक्षी न भवत इति ।

अथात्मशब्दार्थः कथ्यते । अतथातुः स्नातत्यगमनेऽर्थं वर्त्तते । गगनशब्देनात्र ज्ञानं भण्यते 'सर्वं गत्यर्था ज्ञानार्था इति वचनान्' । तेन कारणेन यथासंभवं ज्ञानसुखादिगुणेषु आसमन्तान् अतति वर्त्तते यः स आत्मा भण्यते । अथवा शुभाशुभमनोवचनकारणव्यापरेर्यथासम्भवं तीव्रमन्दादिरूपेण आसमन्तादतति वर्त्तते यः स आत्मा । अथवा उत्पादव्ययधीव्यैरासमन्तादतति वर्त्तते यः स आत्मा । किञ्च—चर्मकोऽपि चन्द्रमा नानाजलघटेषु दृश्यते तथैकोऽपि जीवो नानाशरीरेषु तिष्ठतीति वदन्ति तस्य न पतते । अस्मादिति चेत्—चन्द्रकिरणोपाधिवशेन घटस्वजलपुद्गला एव नानाचन्द्राकारेण परि-

श्रयमोक्ष है वह तो जीवमें पड़ले ही विद्यमान है । वह परमनिश्चयमोक्ष जीवमें अत्र लोका ऐसा नहीं है । तथा राग आदि चिकरपोंसे रहित मोक्षका कारणभूत जो ध्यान-भावनापर्याय है उसमें वही मोक्ष ध्येय होता है । और ध्यान भावनापर्यायरूप ध्येय नहीं है । और यदि एकान्त करके द्रव्यार्थिकनयसे भी वही मोक्षकारणभूत ध्यानभावना पर्याय कहा जावे तो, द्रव्य और पर्यायरूप दो दो धर्मोंका आधार जो जीवधर्मों है, उनके मोक्षपर्याय प्रकट होने पर जैसे ध्यानभावनापर्यायरूपसे विनाश होता है, उसी प्रकार ध्येयभूत जो जीव है उसका शुद्धपारिणामिकलक्षणभावद्रव्यरूपसे भी विनाश प्राप्त होगा है । और द्रव्यरूपसे विनाश है नहीं । इस कारण शुद्धपारिणामिकभावेसे जीवके पतन और मोक्ष नहीं होता है; यह कथन सिद्ध होगया ।

अथ आत्मा शब्दका अर्थ कहते हैं । अतथातु निरन्तर गमन करने रूप अर्थमें वर्त्तता है और 'सर्व गमनरूप अर्थके धारक तातु ज्ञान अर्थके धारक है' इस वचनसे वहाँ पर गमन शब्द करके ज्ञान कहा जाता है । इस कारण जो यथासंभव ज्ञान राग आदि गुणोंमें पूर्णरूपसे वर्त्तता है वह आत्मा है । अथवा शुभ-अशुभ रूप जो मन वचन कायके व्यापार हैं इनकरके यथासंभव तीव्र मन्द आदि रूपमें जो पूर्ण रूपमें वर्त्तता है वह आत्मा कहा जाता है । अथवा उत्पाद, स्वय और धीव्य इन मोक्षोत्पत्तये जो पूर्णरूपसे वर्त्तता है उसको आत्मा कहते हैं । और चित्तने ही ऐसा कहते हैं कि, जैसे वह ही चन्द्रमा अनेक जलके भरे घटोंमें देखा जाता है इसी प्रकार वह ही जीव अनेक शरीरोंमें रहता है सो यह जलका ज्ञान पटना नहीं । क्यों नहीं पटना है ऐसा पूछो तो उत्तर यह है कि जलके घटों में चन्द्रमाका चिह्नरूप दर्शावते इसी प्रकार विद्यमान जो जलके पुद्गल है वे ही अनेक प्रकारके चन्द्रमाके आकारोंमें परिवर्तन हुए हैं

अथौद्यम्यपरिहारं कथयति:—

द्रव्यसंग्रहमिणं मृगिणाहा दोमसंचयचुदा मुद्रपुष्पा ।

सोधयंतु तणुसुतधरेण षोमिचन्द्रमृगिणा भणियं जं ॥ ५८ ॥

व्याख्या । "सोधयंतु" शुद्धं कुर्यान्तु । के कर्ताः ? "मृगिणाहा" मुनिनाया मुनिप्रधानाः । किंविशिष्टाः ? "दोमसंचयचुदा" निर्दोषपरमात्मनो विच्छिन्ना ये रागादिदोषास्तथैव च निर्दोषपरमात्मादितत्त्वपरिहानविषये संशयविमोहविभ्रमादीन्मुना दक्षिता दोषसंचयश्रुताः । पुनरपि कथंश्रुताः ? "मुद्रपुष्पा" दशमानपरमात्मभिधानद्रव्यसूतेन नयैव तदाधारात्पत्रनिर्विकारत्वसन्वेदनज्ञानरूपमायसूतेन च पूर्णाः समप्राः भूतपूर्णाः । कं सोधयन्तु ? "द्रव्यसंग्रहमिणं" शुद्धशुद्धैकत्वभावपरमात्मादित्यार्था संपदां द्रव्यसंग्रहसं प्रहसं द्रव्यसंग्रहमिधानं ग्रन्थमिमं ग्रन्थज्ञानयम् । किं विशिष्टं ? "भणियं जं" भणियः प्रतिपादितो यो ग्रन्थः । केन कथंश्रुतेन ? "षोमिचन्द्रमृगिणा" शोमेमिचन्द्रविद्यानिर्देशाभिधानेन मुनिना सन्त्यदर्शनादिनिश्चयशब्दशरत्त्वपञ्चाशारोपेभाषार्येण । कथंश्रुतेन ? "तणुसुतधरेण" तणुसुतधरेण, तणुसुतं रजोदं धर्मं वदन्तीति तणुसुतधरेणेन । इति क्रिया-

अब प्रथकार अपने शौद्ध्य (अभिमान) को दूर करने के लिये अभिम रन्द् बह-कर शास्त्रको समाम करले हैं:—

काव्यभाषार्थ—अल्पज्ञानके धारक मुनि (नेमिचन्द्र मुनि) ने जो यह द्रव्यसंग्रह कहा है इसको दोषोंसे रहित और ज्ञानसे परिपूर्ण होने आशासे शुद्ध करे ॥ ५८ ॥

॥ इति शोमेमिचन्द्रविद्यानिर्देशविनिर्मितो शुद्धद्रव्यसंपदः समाप्तः ॥

व्याख्यार्थः—“सोधयंतु” शुद्ध करें । शुद्ध करनेवाले कौन हैं ? “मृगिणाहा” मुनिबोमें प्रधान अर्थीय आचार्य हैं । कैसे हैं वे आचार्य ? “दोमसंचयचुदा” दोषरहित परमात्मामे भिन्न लक्षणके धारक जो राम आदि दोष हैं उनके, तथा निर्दोष परमात्मा आदि तत्त्वोंके ज्ञाननेमें जो संशय, विमोह और विभ्रमसय दोष हैं उनके संचयसे रहित हैं । फिर कैसे हैं ? “मुद्रपुष्पा” इस सम्य विद्यमान परमात्मन (शास्त्र) नामक जो द्रव्यसंग्रह है हमसे तथा इस परमात्मके आचार्यमे वाचक जो निर्विकार-जित आचार्य ज्ञाननेकेर भावभूत है हमसे परिपूर्ण है । वे आचार्य किसको शुद्ध करें ? “द्रव्यसंग्रहमिणं” शुद्ध-मुद्र एकत्वभावका धारक जो परमात्मा है हमको आदि हैं जो शुद्धत्व, धर्म, ज्ञान, आकाश और वायुत्त्व ५ द्रव्य हैं उनका है संग्रह विषये जैसे इस संज्ञकमें विद्यमान द्रव्यसंग्रह नामक शास्त्रको शुद्ध करें । जैसे द्रव्यसंग्रहको शुद्ध करें ? “भणियं जं” यह शास्त्र को क्या है । किस कथनें क्या है ? “षोमिचन्द्रमृगिणा” शोमेमिचन्द्र विद्यानिर्देश नामक मुनिने अर्थात् संपन्नार्थसे आदि जो विषय और तदवधारणकेर प्रकाशना आचार्य है हम आचार्यकेरिण आचार्यसे । कैसे नेमिचन्द्र “तणुसुतधरेण” अल्पज्ञानके धारकने । हमनेकार किना और कथनें ?

गता, धर्मेकाग्रम् । तत्र सप्तान्तगाह—यथा देवदत्तमुखोपाधिबरोन नानादर्पणस्वपुद्गला
 मुख भावाभ्युत्पादकारेण परिणता, न चैकं देवदत्तमुखं नानारूपेण परिणतम् । परिणमतीति
 भेद—तर्हि दर्पणरथाप्रतिबिम्बं चैतन्यं प्राप्नोतीति । न च तथा । किन्तु यद्येक एव जीवो
 भवति, तदैकजीवस्य सुखदुःखजीवितमरणादिके प्राप्ते तस्मिन्नेव क्षणे सर्वेषां जीवितमरणा-
 त्त्वं प्राप्नोति न च तथा गृह्यते ।

बाधना ये भवन्ति यथेऽकोपि समुद्रः कापि क्षारजलः कापि मिष्टजलस्तथैकोऽपि जीवः
 सर्वभेदेषु तिष्ठतीति । तदपि न घटते । कथमिति चेत्—जलराशयेभ्यः तत्रैकत्वं, न च
 जलपुद्गलापेभ्यः तत्रैकत्वम् । यदि जलपुद्गलापेभ्यः भवत्येकत्वं तर्हि स्तोत्रजले गृह्यते
 शोधजले सदैव किलायाति । ततः स्थितं पौडशर्वाणिकामुपगंराशिवदनन्तज्ञानादिलक्षणं
 पत्नैकं जीवराशिं प्रति न चैकजीवापेक्षयेति । अध्यात्मशब्दस्यार्थः कथ्यते । मिथ्यात्वरा-
 गानिसमस्तविकल्पशालरूपपरिहारेण स्वशुद्धात्मन्यधि यदनुष्ठानन्तदध्यात्ममिति । एवं
 ध्यानसाधनीत्याहसानोपसंहाररूपेण गाथा गता ॥ ५७ ॥

और एक शब्दमा जो है वह अनेकरूप नहीं परिणमा है । इस विषयमें दृष्टान्त कहे
 हैं कि जैसे—देवदत्तके मुखरूप उपाधिके वशसे अनेक दर्पणोंमें स्थित जो पुद्गल हैं वे ही
 अनेकपुद्गलरूप परिणमते हैं और एक देवदत्तका मुख अनेकरूप नहीं परिणमता है
 यदि कहे कि देवदत्तका मुख ही अनेक मुखरूप परिणमता है तो दर्पणस्थित जो देव
 दत्तके मुखका प्रतिबिम्ब है वह चेतनताको प्राप्त होवें; परंतु ऐसा नहीं अर्थात् दर्पणमें
 जो मुखका प्रतिबिम्ब है वह चेतन नहीं है । और भी विशेष यह है कि यदि अनेक
 दर्पणोंमें एक ही जीव हो तो कम एक जीवको सुख, दुःख जोवित और मरण आदि
 प्राप्त होवें तब उसी क्षणमें सब जीवोंको सुख, दुःख, जोवित और मरण आदि प्राप्त
 होवें और ऐसा ईश्वरनेत्र नहीं आता है ।

अब इस जो ऐसा कहे हैं कि, 'जैसे एक ही समुद्र जहाँ तो खारे जलबाला है, व
 जहाँ लवण शरक है, वहाँ प्रकार एक ही जीव सब ईश्वरमें विद्यमान है' सो यह क
 जो कहेर नहीं होता । कहे नहीं घटता यह प्रती तो उत्तर यह है कि, समुद्रमें जल
 जहाँ लवणकी रकवा है और लवणकी पुद्गलोंको अनेकाने एकता नहीं है । यदि ज
 समुद्रको लवणकी एकता होती है तो समुद्रमेंके अन्य (भोजन) जल ग्रहण करनेपर
 ' लवण ' लवण है वह भी साथ ही क्यों नहीं आ जाता है । इतकारण सो
 कहे लवणकी रकवा अनेकाने अनेकाने एकता नहीं है । अब अन्वय
 कि समुद्र जहाँमें लवण (जलकी रकवा) है वहाँके अन्वय कहे ।
 वहाँमें लवणकी रकवाके अनेकाने अनेकाने एकता नहीं है ॥ ५७ ॥

वना पर्यायो भण्यते तर्हि द्रव्यपर्यायरूपधर्मद्वयाधारभूतस्य जीवधर्मिणो मोक्षपर्याये
ते सति यथा ध्यानभावनापर्यायरूपेण विनाशो भवति, तथा ध्येयभूतस्य जीवस्य
द्व्यपारिणामिकलक्षणभावद्रव्यरूपेणापि विनाशः प्राप्नोति । न च द्रव्यरूपेण विना-
शस्ति । ततः स्थितं शुद्धपारिणामिकभावेन धन्वमोक्षी न भवत इति ।

अथात्मशब्दार्थः कथ्यते । अतघातुः सातत्यगमनेऽर्थं वर्त्तते । गमनशब्देनाप्र ज्ञानं
ग्यते 'सर्वं गत्यर्था ज्ञानार्था इति वचनान्' । तेन कारणेन यथासंभवं ज्ञानसुखादिगु-
ण्यु आसमन्तात् अतति वर्त्तते यः स आत्मा भण्यते । अथवा शुभाशुभमनोवचनकाव-
गपरैर्यथासम्भवं तीव्रमन्दादिरूपेण आसमन्तादतति वर्त्तते यः स आत्मा । अथवा
स्वाध्वयध्रौव्यैरासमन्तादतति वर्त्तते यः स आत्मा । किञ्च—चर्येकोऽपि चन्द्रमा
जलजलघटेषु दृश्यते तथैकोऽपि जीवो नानाशरीरेषु तिष्ठतीति वदन्ति तच्च न घटते ।
स्मादिति चेत्—चन्द्रकिरणोपाधिवशेन घटस्यजलपुद्गला एव नानाचन्द्राकारेण परि-

यमोक्ष है वह तो जीवमें पहले ही विद्यमान है । वह परमनिश्चयमोक्ष जीवमें अथ
ना ऐसा नहीं है । तथा राग आदि विकल्पोंसे रहित मोक्षका कारणभूत जो ध्यान-
वचनापर्याय है उसमें वही मोक्ष ध्येय होता है । और ध्यान भावनापर्यायरूप ध्येय
ही है । और यदि एकान्त करके द्रव्यार्थिकनयसे भी वही मोक्षकारणभूत ध्यानभावना
पर्याय कहा जावे तो, द्रव्य और पर्यायरूप दो दो धर्मोंका आधार जो जीवधर्मों है, उसके
मोक्षपर्याय प्रकट होने पर जैसे ध्यानभावनापर्यायरूपसे विनाश होता है, वही प्रकार
ध्यानभूत जो जीव है उसका शुद्धपारिणामिकलक्षणभावद्रव्यरूपसे भी विनाश प्राप्त होता
है । और द्रव्यरूपसे विनाश है नहीं । इस कारण शुद्धपारिणामिकभावसे जीवके द्रव्य
पर्याय मोक्ष नहीं होता है; यह कथन सिद्ध होगया ।

अब आत्मा शब्दका अर्थ कहते हैं । अत घातु निरन्तर गमन करने रूप अर्थमें
चैता है और 'सय गमनरूप अर्थके धारक घातु ज्ञान अर्थके धारक है' इस ध्येयमने
पर गमन शब्द करके ज्ञान कहा जाता है । इस कारण जो यथासंभव ज्ञान गमन
आदि गुणोंमें पूर्णरूपसे वर्त्तता है वह आत्मा है । अथवा शुभ-अशुभ रूप जो मन
वचन कावके व्यापार हैं उनकरके यथासंभव तीव्र मन्द आदि रूपसे जो पूर्ण रूपसे
चैता है वह आत्मा कहलाता है । अथवा उवाच, स्वय और ध्रौव्य इन तीनोंकरके जो
पूर्णरूपसे वर्त्तता है उसको आत्मा कहते हैं । और किन्ने ही ऐसा करते हैं कि, जैसे
ह ही चन्द्रमा अनेक जलके भरे घटोंमें देखा जाता है इसी प्रकार वह ही जीव
अनेक शरीरोंमें रहता है सो यह इनका कथन पटता नहीं । वही नहीं पटता कि
जैसे जो उत्तर यह है कि जलके घटों में चन्द्रमाकी चिह्नरूप उपाधिके वशसे पटते
है तबमान जो जलके पुद्गल हैं वे ही अनेक प्रकारके चन्द्रमारूप आकारोंमें परिणत हुए हैं

णता, नचैकश्चन्द्रः। तत्र दृष्टान्तमाह—यथा देवदत्तमुखोपाधिवशेन नानादर्पणस्थपुद्गला एव नानामुखाकारेण परिणता, न चैकं देवदत्तमुखं नानारूपेण परिणतम् । परिणमतीति चेत्—तर्हि दर्पणस्थप्रतिबिम्बं चैतन्यं प्राप्नोतीति । न च तथा । किन्तु यद्येक एव जीवो भवति, तदैकजीवस्य सुखदुःखजीवितमरणादिके प्राप्ते तस्मिन्नेव क्षणे सर्वेषां जीवितमरणादिकं प्राप्नोति न च तथा दृश्यते ।

अथवा ये वदन्ति यथैऽकोपि समुद्रः कापि क्षारजलः कापि मिष्टजलस्तथैऽकोऽपि जीवः सर्वदेहेषु तिष्ठतीति । तदपि न घटते । कथमिति चेत्—जलराश्यपेक्षया तत्रैकत्वं, न च जलपुद्गलापेक्षया तत्रैकत्वम् । यदि जलपुद्गलापेक्षया भवत्येकत्वं तर्हि स्तोकजले गृहीते शेषजलं सहैव किन्नायाति । ततः स्थितं षोडशवर्णिकासुवर्णराशिबदनन्तज्ञानादिलक्षणं प्रत्येकं जीवराशिं प्रति न चैकजीवापेक्षयेति । अध्यात्मशब्दस्यार्थः कथ्यते । मिथ्यात्वरागादिसमस्तविकल्पजालरूपपरिहारेण स्वशुद्धात्मन्यधि यदनुष्ठानन्तदध्यात्ममिति । एवं ध्यानसामग्रीव्याख्यानोपसंहाररूपेण गाथा गता ॥ ५७ ॥

और एक चन्द्रमा जो है वह अनेकरूप नहीं परिणमा है । इस विषयमें दृष्टान्त कहते हैं कि जैसे—देवदत्तके मुखरूप उपाधिके वशसे अनेक दर्पणोंमें स्थित जो पुद्गल हैं वे ही अनेकमुखरूप परिणमते हैं और एक देवदत्तका मुख अनेकरूप नहीं परिणमता है । यदि कही कि, देवदत्तका मुख ही अनेक मुखरूप परिणमता है तो दर्पणस्थित जो देवदत्तके मुखका प्रतिबिम्ब है वह चेतनताको प्राप्त होवै; परंतु ऐसा नहीं अर्थात् दर्पणमें जो मुखका प्रतिबिम्ब है वह चेतन नहीं है । और भी विशेष यह है कि यदि अनेक शरीरोंमें एक ही जीव हो तो जब एक जीवको सुख, दुःख जीवित और मरण आदि प्राप्त होवें तब उसी क्षणमें सब जीवोंको सुख, दुःख, जीवित और मरण आदि प्राप्त होवें और ऐसा देखनेमें नहीं आता है ।

अथवा जो ऐसा कहते हैं कि, 'जैसे एक ही समुद्र कहीं तो खारे जलवाला है, कहीं मीठे जलका धारक है, उसी प्रकार एक ही जीव सब देहोंमें विद्यमान है' सो यह कहना भी घटित नहीं होता । क्यों नहीं घटता यह पूछो तो उत्तर यह है कि, समुद्रमें जलराशिकी अपेक्षासे एकता है और जलके पुद्गलोंकी अपेक्षासे एकता नहीं है । यदि जलपुद्गलोंकी अपेक्षासे एकता होती है तो समुद्रमेंसे अल्प (थोड़ा,) जल ग्रहण करनेपर शेष (बचा हुआ) जो जल है वह भी साथ ही क्यों नहीं आ जाता है । इसकारण सोलह वानोंके सुवर्णकी राशिके समान अनन्तज्ञान आदि लक्षणोंके प्रति जीवराशिमें एकता है और एक जीवकी अपेक्षासे जीवराशिमें एकता नहीं है । अब अध्यात्म शब्दका अर्थ कहते हैं । मिथ्यात्व, राग आदि जो समस्त विकल्पोंके समूह हैं उनका त्याग करके जो निज शुद्ध आत्मामें अनुष्ठान (प्रवृत्तिका करना) है उसको अध्यात्म कहते हैं । इसप्रकार ध्यानकी सामग्रीके व्याख्यानके उपसंहाररूपसे यह गाथा समाप्त हुई ॥ ५७ ॥

अयोद्धत्यपरिहारं कथयतिः—

द्वयसंग्रहमिणं मृगिणादा दोससंचयचुदा मुदपुष्पा ।

मोधयंतु तणुमुत्तधरेण जेमिचन्द्रमृगिणा मणियं जं ॥ ५८ ॥

व्याख्या । "मोधयंतु" मुदं कुर्यन्तु । के कर्त्तारः ? "मृगिणादा" मुनिनाया मुनिम-
पानाः । किंविशिष्टाः ? "दोससंचयचुदा" निर्दोषपरमात्मनो विद्वज्जना ये रागादिदोषा-
संधेय ए निर्दोषपरमात्मादितत्त्वपरिहानविषये संशयविमोहविभ्रान्तीक्ष्णवृत्ता दक्षिणा दोष-
संचयचुदाः । पुनरपि कथम्भूताः ? "मुदपुष्पा" यत्मानपरमात्मसाभिधानद्रव्यभूतेन
संधेय तदापारोक्षजनितविकारव्यसंवेदनज्ञानस्वभावभूतेन ए पूर्वाः समयाः समुपस्थाः ।
के मोधयन्तु ? "द्वयसंग्रहमिणं" शुद्धबुद्धेरुत्कर्त्तव्यपरमात्मादिद्रव्याणां संघर्षो इत्यसं-
ग्रहसं द्रव्यसंग्रहाभिधानं प्रत्यक्षोभूतम् । किं विशिष्टं ? "मणियं जं" मणिवः
प्रतिपादितो यो प्रत्यः । केन कर्तुंभूतेन ? "जेमिचन्द्रमृगिणा" क्षीमेमिचन्द्रमिद्वान्विदेवा-
भिधानेन मुनिना सम्यग्दर्शनादिनिश्चयव्यवहारस्वपक्षापारोपेयापर्येण । कथम्भूतेन ?
"तणुमुत्तधरेण" मनुष्यधरेण, मनुष्यं शोकं क्षुत् तद्वर्तमानं तणुमुत्तधरेण । इति शिवा-

अथ अथकार अपने औद्धत्य (अभिमान) को दूर करने के लिये श्रमिये कन्ध कह-
कर शास्त्रियों समाप्त करते हैं:—

वाक्यभावार्थ—अव्ययानके धारक मुनि (जेमिचन्द्र मुनि) ने जो यह द्रव्यसंग्रह
कहा है इसको दोषोंसे रहित और ज्ञानमें परिपूर्ण होने आचार्य मुद कहें ॥ ५८ ॥

॥ इति क्षीमेमिचन्द्रमिद्वान्विदेवाभिधाने शुद्धद्रव्यसंग्रहः समाप्तः ॥

व्याख्यानार्थः—“मोधयंतु” मुद करें । मुद करनेवाले कौन हैं ? “मृगिणादा”
मुनिब्रह्मिणं प्रधान धर्मोंमें आचार्य हैं । कौसे हैं वे आचार्य ? “दोससंचयचुदा” दोषरहित
परमात्मामें भिन्न भक्तिके धारक जो राग आदि दोष हैं कर्त्तव्य, तथा निर्दोष परमात्मा आदि
तत्त्वोंके ज्ञानमें ही संशय, विमोह और विभ्रान्त्य दोष हैं कर्त्तव्य संशयसे रहित हैं ।
किर कौसे हैं ? “मुदपुष्पा” इस समय विश्रान्त परमात्मामें (आत्मा) ज्ञानके जो इत्येव
है समझे तथा इस परमात्मामें आधारमें कर्त्तव्य जो निर्विकार-निष्ठ आत्मिके ज्ञानमें
भावभूत है समझे परिपूर्ण हैं । ये आचार्य किसको मुद करें ? “द्वयसंग्रहमिणं”
शुद्ध-बुद्ध मयस्कभावका धारक जो परमात्मा हैं समझे आदि में ही शुद्धता, धर्म,
अधर्म, आचार्य और कर्त्तव्य ए द्रव्य है कर्त्तव्य है संग्रह जिसमें ऐसे इस आचार्यमें
विश्रान्त द्रव्यसंग्रह नामक आचार्यो मुद करें । कौसे द्रव्यसंग्रहको मुद करें ? “मणियं जं”
जिस ज्ञानको कर्त्तव्य है । किस कर्त्तव्य कहा है ? “जेमिचन्द्रमृगिणा” क्षीमेमिचन्द्र
मिद्वान्विदेव नामके मुनिने अयोद्धत्यसंग्रहमें आदि जो निश्चय और व्यवहार में
एक प्रकारका आचार्य है सम आचार्यमहित आचार्यमें । कौसे क्षीमेमिचन्द्र आचार्यमें है
“तणुमुत्तधरेण” आचर्युदात्मके धारकने । इनकार शिवा और शोकहीन संशय है ।

